



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

828684

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 1984 (वैशाख 22, 1906)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 1984 (VAISAKHA 22, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 1984

रक्षा मन्त्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 762, तारीख 3 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करने हैं—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

डॉ० पी० मम्मू बेकट राव को नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम में तारीख 09-12-1983 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री वी० विण्यनाथ को रक्षा मामलों एवम् भण्डार अनुसंधान तथा विकास स्थापना, कानपुर में तारीख 12-1-1984 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री ओ० मुण्डहमथम् को नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम में तारीख 31-1-1984 पूर्वाह्न में अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री एस० श्री० एनारज्जन् को नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम में तारीख 05-1-1984 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

एम० सी० सकारिया, सहायक निदेशक (कामिक)

सं० 763, दिनांक 26 मार्च 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करने हैं—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

श्री वी० सुरेश कुमार, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम को इसी स्थापना में तारीख 27 फरवरी, 84 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री टी० कृष्ण चन्द्र पात्रो को नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम में तारीख 23 फरवरी, 84 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री टी० बी० दुर्गाप्रसाद राव, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम को इसी स्थापना में तारीख 18 फरवरी, 84 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री डी० एम० राजगोपाल, अस्थायी वैज्ञानिक "बी" (तदर्थ) नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम को इसी स्थापना में तारीख 24 फरवरी, 84 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री ग्वाँवर प्रसाद माथुर को रक्षा धातुकर्मिय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में तारीख 20 फरवरी, 1984 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री अशोक शर्मा राव को रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद में तारीख 16 जनवरी 1981 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री एम० बी० के०बी० प्रसाद को रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद में तारीख 31 जनवरी 1981 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री एम० राम कृष्ण राव को रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद में तारीख 07 जनवरी 1981 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री जी० राजेश्वर राव को रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद में तारीख 07 जनवरी 1984 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री जी० राम कृष्ण राव को रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में तारीख 19 फरवरी 1981 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

श्री एम० जयतीर्थ को रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में तारीख 30 जनवरी 1981 (पूर्वाह्न) में अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

एम० एम० जयबाल, सहायक निदेशक (कार्यिक)

सं० 764, तारीख 31 मार्च 1984—श्री पी०ए० विवेदी, कार्यालय अधीक्षक, ग्रेड-I रक्षा सामग्री प्रथम भण्डार अनुसंधान तथा विकास स्थापना, कानपुर को रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद में तारीख 24-2-1983 (पूर्वाह्न) में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री राम प्रसाद, कार्यालय अधीक्षक, ग्रेड-I, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रेडार विकास स्थापना, बंगलौर को इसी स्थापना में तारीख 28-7-1982 (पूर्वाह्न) में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

टी० पी० मिह ज्ञानन्द, उप-निदेशक (कार्यिक)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

सं० 765, तारीख 3 अप्रैल 1981—राक्षस अधिकारी द्वारा श्रेष्ठिक नियुक्ति की मजूरी दिने जाने के फलस्वरूप श्री डी० विट्टल, वैज्ञानिक "सी", विस्फोटक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, पूर्ण तारीख 31-3-81 (अपराह्न) से सेवा नियुक्त हुए तथा उसी दिन से उन्हें पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित कर दिया गया।

एम० सी० सारंगिया, सहायक निदेशक (कार्यिक)

तकनीकी तथा विकास संस्थान

सं० 766, दिनांक 7 अप्रैल 1984—श्री राम रत्न मदान, वरिष्ठ सहायक निश्चिन्तिय स्टाफ अधिकारी सेवा नियुक्ति की आज को प्राप्त होने पर दिनांक 31 मार्च 1984 (अपराह्न) से सेवा नियुक्त हुए और दिनांक 1 अप्रैल 1984 से पेंशन भिश्चवर्दी में बदली किए गये।

गौरी दत्त ब्रह्म, उप सहायक प्रशासन अधिकारी

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा
प्रतिपाल

सं० 767, तारीख 5 अप्रैल 1984—भारत के राजपत्र तारीख 04-9-1982 के भाग-1, खण्ड 4 में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की राजपत्र

अधिसूचना संख्या 1851, तारीख 31 जुलाई 82 जिनका सम्बन्ध श्री पी० जारु मराटे से है, को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

श्री० आर० मराटे के स्थान पर
आर० बी० मराटे पद

भारत के राजपत्र तारीख 04-9-1982 के भाग I, खण्ड 4 में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या 1851, तारीख 31 जुलाई 82 को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना पुणे के निम्नलिखित वैज्ञानिक "बी" का इसी स्थापना में तारीख 01 जुलाई 1982 (पूर्वाह्न) में स्थानापन्न वैज्ञानिक "सी" के पद पर।

(के स्थान पर)

आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना, पुणे के निम्नलिखित वैज्ञानिक "बी" को इसी स्थापना में तारीख 01 जुलाई 1981 (पूर्वाह्न) में स्थानापन्न वैज्ञानिक "सी" के पद पर।

पद

एम० सी० मकारिया, सहायक निदेशक (कार्यिक)

सं० 769, दिनांक 12 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित को कर्मान्त प्रदान करते हैं :—

वरिष्ठ प्रभाग (थल सेना बन्द)

लेफ्टि० के रूप में

गोपाल कृष्ण ब्रास्कर रंजन (एन०सी०सी०/14384), 01 जुलाई 83, 06 दिसम्बर 76 से 2/लेफ्टि० तथा 06 दिसम्बर 79 से लेफ्टि० की पदोन्नति वरिष्ठता सहित।

2/लेफ्टि० के रूप में

मध्य प्रदेश

राजेंद्र कुमार शुक्ला (एन०सी०सी०/18082)—01 जुलाई 83, 20 अक्टूबर 81 से पदोन्नति वरिष्ठता सहित।

गुजरात

मधुभाई दलमुखभाई बरिमा (एन०सी०सी०/15600)—01 जुलाई 83, 08 सितम्बर 81 से पदोन्नति वरिष्ठता सहित।

गोपाल मिह राव (एन०सी०सी०/15601)—01 जुलाई 83, 19 मार्च 82 से पदोन्नति वरिष्ठता सहित।

बिहार

राणी प्रसाद मिह (एन०सी०सी०/17538)—15 अक्टूबर 82, 12 जन 82 से पदोन्नति वरिष्ठता सहित।

श्री० के० मूर्ति, कार्यिक निदेशक

थल सेना मुख्यालय

(बी० एम० शाखा)

सं० 769, तारीख 16 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

स्थायी अनुसंधान अधिकारी श्री के०बी० वत्सा 20 मार्च 84 (पूर्वाह्न) से स्थायी आधार पर तीन मास की अवधि या नियमित पदधारी की नैतानी में से जो भी पहले हो, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में।

स्थायी कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री प्रभु मिश्र 20 मार्च 84 (पूर्वाह्न) से स्थानीय आधार पर तीन मास की अवधि या नियमित पदधारी की तैनाती में से जो भी पहले हो, अनुसंधान अधिकारी के रूप में।

स्थायी वरिष्ठ टैक्निकल महायुक्त डा० लेख प्रकाश 20 मार्च 84 (पूर्वाह्न) से स्थानीय आधार पर तीन मास की अवधि या नियमित पदधारी की तैनाती में से जो भी पहले हो, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में।

सं० , तारीख—राष्ट्रपति प्रायु सेवा मुख्यालय के स्थायी आशुलिपिक ग्रेड "सी" श्री एम० वेनुगोपालन को मणम्व मेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में 2 अप्रैल 1984 (पूर्वाह्न) में अगले आदेश जारी होने तक स्थानांतरण आशुलिपिक ग्रेड "बी" (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) के रूप में नियुक्त करने है।

सं० 770, तारीख 11 अप्रैल 1984—1 श्री० एम० निदेशालय, एम० जी० श्री० शाखा, थल सेना मुख्यालय के वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री जे० डी० अग्रवाल 4-3-84 को निवर्तन आयु का प्राप्ति होने पर 31-3-84 से सेवा में निवृत्त तथा 01-4-84 से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित।

2. श्री० एम० निदेशालय, एम० जी० श्री० शाखा, थल सेना मुख्यालय के सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री एन०के०वी० सुब्रह्मनियण 21-3-84 का निवर्तन आयु का प्राप्ति होने पर 31-3-84 से सेवा में निवृत्त तथा 1-4-84 से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित।

3. श्री० एम० निदेशालय, एम० जी० श्री० शाखा, थल सेना मुख्यालय के सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री आर०वी० भादुरा 31-3-84 का निवर्तन आयु का प्राप्ति होने पर 31-3-84 से सेवा में निवृत्त तथा 01-4-84 से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित।

4. एन० सी० शाखा के वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री आर० बी० शा 58 वर्ष की निवर्तन आयु का प्राप्ति होने पर 31-3-84 (अपराह्न) से सेवा में निवृत्त तथा 01-4-84 से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित।

ग० ना० त्रिपाठा, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 771, दिनांक 21 अप्रैल 1984—निम्नलिखित अधिकारी, उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा निवृत्त हुए :—

एम०ई०एस०-3190	28 फरवरी 1982
श्री राम प्रकाश शर्मा	(अपराह्न)
ए०श्री० (अस्थाई), यू०डी०सी० (स्थाई)	
एम०ई० एस०—4753	30 अप्रैल 1983
श्री देव दत्त शर्मा	(अपराह्न)
ए०श्री० II (अस्थाई), यू०डी०सी० (स्थाई)	
एम०ई०एस०-8458232	
श्री एच०एम० पनवर	
एम०बी०एस०श्री० (एडवाइज),	31 जुलाई 83 (अपराह्न)
सुप० बी०/एम० ग्रेड I (स्थाई)	
एम० ई० एम० 139008	
श्री पी० एन० राघवन गिल्ले	29 फरवरी 84 (अपराह्न)
बी०एस०श्री० (आफिसिएटिंग),	
एस०के० ग्रेड II. (स्थाई)	
एम०ई०एस०-105224	29 फरवरी 84 (अपराह्न)
श्री कौतूपना रवामी	
एम०बी०एस०श्री० (एडवाइज),	
सुप० बी०/एम० ग्रेड I (स्थाई)	

आर०श्री० राजवणी, अवर सचिव

(थल सेना मुख्यालय)

सं० 772, दिनांक 16 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति सहायक मेजर जनरल रत्नबीर सिंह (आई०सी०-5833) को 1 मार्च, 1984 (एफ० एन०) से ग्रामार्ड रेजिमेंट के कर्नल के रूप में नियुक्त करने है।

सं० 773, दिनांक 11 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति सहायक ब्रिगेडियर एन०एम० मलिक (आई०सी०-11804) को 2 अप्रैल, 1984 से 80 ग्रामार्ड रेजिमेंट के कर्नल के पद में नियुक्त करने है।

गहदेव गहवाल, लेफ्टिनेंट जनरल, सैनिक सचिव

सं० 774, दिनांक 16 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहायक नियुक्ति करने है :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित का 16 दिसम्बर 78 से सैनिक अनुदेश 4/एम०/67 की नियमों के अन्तर्गत 2/लै० के पद पर स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है उन्हें 2 वर्ष की पूर्ण दिनांकित ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 76 से वेतन तथा उन्नति के लिए सैनिक अनुदेश 41/एम०/67 के नियमों के अन्तर्गत दी जाती है तदनुसार उन्हें 16 दिसम्बर 78 से लै० के पद पर उन्नत किया जाता है।—

नामा कुजोरथाल मेथन कारी (आई०सी०-35861-सी०), जिसकी ज्येष्ठता निर्दिष्टता विभागाधीनी रजिस्ट्रार रंजी (आई०सी०-35860-एम०) सिगनलम जिनका नाम भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर 80 रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2054 से प्रकाशित है।

सुभाष चन्द्र, लै० कर्नल

ए०एम० एन० बी०

सं० 775, तारीख 17 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

विशेष सूची

मराठा लाइट इन्फैण्ट्री

सूबेदार पंडित के रैक में

नायब सूबेदार पंडित महादेव दत्तात्रया गायकवाड (जे०सी०-34010-डब्ल्यू०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार पंडित अब्दुल रहमान (जे०सी०-42259-एक्स०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार पंडित राजाराम पडवल (जे०सी०-42946-एन०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार पंडित लक्ष्मण शिंगे (जे०सी०-42947-डब्ल्यू०) 01 मई 1983।

नायब सूबेदार पंडित अनंत पण्णगम कुमारी (जे० सी०-45077-पी०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार पंडित अत्रा गन्डे (जे० सी०-49256-एम०)—01 मई 1983।

पंजाब रेजिमेंट

सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रूप में

नायब सूबेदार त्रिलोचन मिहू प्रदेर्शी (सन्धी)—(जे० सी०-28549 के०)—03 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार (पंडित) प्रेम चन्द (जे०सी०-38184-एन०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (पंडित) मोती राम (जे०सी०-41598-एन०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (पंडित) यशवंत कुमार (जे०सी०-48097-एन०)—01 मई 1983।

सं० 776, तारीख 17 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां सीधे नायब सूबेदार के रैंक में करने हैं :—

नियमित सेवा

कोर ग्राफ इंजीनियरिंग
एम०ई०एम० मिलट्री कैंटर
(नायब सूबेदार के रैंक में)

नायब सूबेदार आनन्द सिंह गिजवापी (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार माधो सिंह (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार ललित मोहन गर्मा (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार जय पाल (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार शरि राज सिंह (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार नरेंद्रा कुमार (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार ब्रामबा नन्द चन्डोला (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार जयेंद्रा सिंह (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार निरंजन सिंह (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार सुनील कुमार शरणरा (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार शणोघर मेमवाल (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार नारायण सिंह (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

नायब सूबेदार हंस राज गुप्ता (अब जे० सी०-)—24 जून 1983।

एम० के० राय,
अवर सचिव

सं० 777, दिनांक 16 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदा-सतियां करने हैं :—

नियमित सेवा

सैनिक दल चिकित्सा कोर
(स्थायी कमीशन)

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में

डी०एन० सेठी (डी०आर०-10180-एफ०)—5-10-82।

एम० एन० मेहता (डी०आर०-10210-एन०)—25-10-83।

एम० के० पुरी (डी०आर०-10214-के०)—25-10-83।

सैनिक दल चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

मेजर (सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर) से लेफ्टिनेंट कर्नल (सर्जन कमांडर के रैंक में)

के०यू०सी०राव (डी०आर०-10201-एम०) (79014-के०)—27-12-83।

केप्टन सर्जन लेफ्टिनेंट (डी०) से मेजर सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर (डी०) के रैंक में

ए०एम० भागवत (डी०आर०-10289-एफ०) (790-27-एफ०) आई०एन० 10-9-83।

डी० के० श्रीवास्तवा, अवर सचिव

सं० 778, तारीख 16 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदा-सतियां करने हैं :—

नियमित सेवा

विशेष सूची

रिमासदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब रिमासदार राम भगत गर्मा (जे०सी०-30754-के०)—03 फरवरी 1983।

ग्रामाम रजिमेंट

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (पंडित) दयाराज उपध्याय (जे०सी०-13522-एफ०)—1 मई 1983।

सूबेदार (पंडित) विष्णुनाथ तिवारी (जे०सी०-36049-एफ०)—1 मई 1983।

सूबेदार (पादरी) लालधंजुआवा (जे०सी०-9851-एन०)—1 मई 1983।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (पादरी) शरधुमा (जे०सी०-30055-वाई०)—3 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार (पंडित) तुलसी राम उपाध्या (जे०सी०-30056-एफ०)—3 फरवरी 1982।

नायब सूबेदार (पादरी) एल० कुंगलियाना (जे०सी०-32970-डब्ल्यू०)—1 मई 1983।

गारुड प्रिमेड

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) ब्रह्म दत्त (जे०सी०-38072-पी०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) रत्न चंद शास्त्री जे०सी०-38073-डब्ल्यू०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) जय राम शक्वा (जे०सी०-49082-एन०)—01 मई 1983।

गढ़वाल राईफल्स

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) विष्णुधर दत्त शर्मा (जे०सी०-10491-पी०)—
1 मई 1983।

1 जी०आर०

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार कृष्ण रेव शर्मा (जे०सी०-54231-ए०)—1 मई 1983।

3 जी०आर०

सूबेदार (पंडित) के रैंक में

नायब सूबेदार (पंडित) मृगेश नन्द कंकरियाल (जे०सी०-29522-ए०)—3 फरवरी 1983।

4 जी०आर०

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार विष्णुनाथ उपाध्याय नेमो (जे०सी०-10298-ए०)—1 मई 1983।

5 जी०आर०

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) भीम प्रसाद गांडवाली (जे०सी०-29317-ए०)—3 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) छाया दत्त शर्मा गौतम (जे०सी०-41664-ए०)—1 मई 1983।

8 जी०आर०

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) भेष राज पोडियल (जे०सी०-62503-ए०)—
1 मई 1983।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) धनंजय शर्मा (जे०सी०-31086-ए०)—1 मई 1983।

प्रिनेडियमेंट

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) महाबीर प्रसाद शर्मा (जे०सी०-9617-ए०)—01 मई 1983।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी (जे०सी०-30925-ए०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) कितेशवर नाथ उपाध्याय (जे०सी०-33544-पी०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) जयवंत सिंह (जे०सी०-44005-वाई०)
01 मई 1983।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) हाफिज अबदुल मत्तार खां (जे०सी०-44792-ए०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) रामेश्वर दयाल मिश्रा (जे०सी०-49281-ए०)—01 मई 1983।

जाट रेजिमेंट

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) यान्त्रिक सिंह (जे०सी०-9618-ए०)—1 मई 1983।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) बानू राम शर्मा (जे०सी०-34388-ए०)—1 मई 1983।

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) (पंडित) के रैंक में

सूबेदार (पंडित) राम दत्त शर्मा (जे०सी०-8933-के०)—01 मई 1983।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) (पंडित) के रैंक में

नायब सूबेदार (पंडित) कुर्गा दत्त शर्मा (जे०सी०-27152-ए०)—
03 फरवरी 1983।

परागूट रेजिमेंट

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) मातूराम (जे०सी०-28315-ए०)—
2 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) रामनाथ शर्मा (जे०सी०-28316-ए०)—2 फरवरी 1983।

राजपूत रेजिमेंट

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार धर्म शिक्षक सुखदेव प्रसाद द्विवेदी (जे०सी०-10917-ए०)—
01 मई 1983।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार धर्म शिक्षक काली सहाय (जे०सी०-31105-ए०)—
03 फरवरी 1983।

राजपूताना राईफल्स

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार पंडित राम श्वतार शर्मा (जे०सी०-13571-ए०)—1
मई 1983।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार मौलवी मुहम्मद इदरीस (जे०सी०-30507-उ०ए०)—
3 फरवरी 1983।

सिख लाईट इन्फैंट्री

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) हरभजन सिंह (जे०सी०-32191-ए०)—
03 फरवरी 1983।

तोपखाना रेजिमेंट

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार हरी सिंह (जे०सी०-28408-पी०)—03 फरवरी
1983।

नायब सूबेदार गनपत शर्मा (जे०सी०-28313-पी०)—03 फरवरी
1983।

नायब सूबेदार अश्वनंद सिंह (जे०सी०-28246-पी०)—03 फरवरी
1983।

नायब सूबेदार राज कुमार द्विवेदी (जे०सी०-30401-के०)—03
फरवरी 1983।

नायब सूबेदार गरजू सिंह शीमन (जे०सी०-29521-उ०ए०)—
03 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद भारद्वाज (जे०सी०-30403-पी०)---
03 फरवरी 1983।

कोर आफ इजीनियरिंग

बंगाल इजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार श्रवताम सिंह (जे०सी०-13117-वाई०)---1 मई 1983।

सूबेदार सोना राम (जे०सी०-9143-एफ०)---1 मई 1983।

सूबेदार राम हत्त त्रिपाठी (जे०सी०-11187-एफ०)---1 मई
1983।

सूबेदार सोम दत्त (जे०सी०-12357-एन०)---1 मई 1983।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार भास्करा नन्द (जे०सी०-31868-एफ०)---1 मई
1983।

नायब सूबेदार मान सिंह (जे०सी०-18945-एफ०)---1 मई
1983।

बिजली और मशीनी इजीनियर कार

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार मुन्गीधर (जे०सी०-10509-ए०)---1 मई 1983।

सूबेदार राम नन्दन झा (जे०सी०-10868-एन०)---1 मई 1983।

सूबेदार हरीश्वर माथ शर्मा (जे० सी०-66328-पी०)---1 मई
1983।

सूबेदार रामेश्वर दास (जे०सी०-22036-ए०)---1 मई 1983।

सूबेदार राम यज्ञा त्रिपाठी (जे०सी०-10296-एफ०)---1 मई
1983।

सूबेदार ब्राह्मण राम मिश्रा (जे०सी०-11188-एन०)---1 मई
1983।

सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार राम प्रसाद शर्मा (जे०सी०-36048-वाई०)---03
फरवरी 83।

नायब सूबेदार जगत नारायण पाठक (जे०सी०-28593-एन०)---03
फरवरी 1983।

नायब सूबेदार भास्करा नन्द शर्मा (जे०सी०-34887-एफ०)---03
फरवरी 1983।

कोर आफ मिन्गल

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में (पंडित)

सूबेदार भुवन चन्द्र (जे०सी०-10295-पी०)---1 मई 1983।

सूबेदार रामाकान्त त्रिपाठी (जे०सी०-12166-एन०)---1 मई
1983।

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में (ग्रंथी)

सूबेदार प्रीतम सिंह (जे०सी०-10294-एफ०)---1 मई 1983।

सूबेदार ज्ञान सिंह (जे०सी०-13549-एफ०)---1 मई 1983।

ग्रामाग रजिस्ट्रार

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पामात्रिया (जे०सी०-45882-वाई०)---1 मार्च 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बालराजबन्धु माई (जे०सी०-94316-एन०)---1
अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार बालराजबन्धु माई माई (जे०सी०-95665-वाई०)---
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार आनन्दा राम तारा (जे०सी०-97826-पी०)---1
सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार राजेन्द्रा चन्द्रा दास (जे०सी०-98825-वाई०)---1
मार्च 1983।

नायब सूबेदार लमदान अरुण (जे०सी०-99122-के०)---1 अगस्त
1983।

नायब सूबेदार मायाबोनाल वाई०के० (जे०सी०-99703-एफ०)---1
सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गुनावर मिन्हा (स०-4345961-एन० अब जे०सी०-
132123-पी०)---12 अगस्त 1982।

सूबेदार (बैन्डमास्टर) के रैंक में

नायब सूबेदार (बैन्डमास्टर) रत्नेश्वर राय (जे०सी०-73260-
एन०)---1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बानूराजान शर्मा (स०-4338503-एन० अब जे०सी०-
132124-एन०)---1 जनवरी 1983।

हवलदार दिलवर मागमा (स०-4340658-डब्ल्यू० अब जे०सी०-
132121-के०)---13 जनवरी 1983।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में बोनस और भत्ता पर प्रभाव डालने बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 1983 से दी जायेगी)।

हवलदार धरणी धर राय (स०-4345955-एफ० अब जे०सी०-
132122-एफ०)---06 मई 1983।%

% (नायब सूबेदार के रैंक में बोनस और भत्ता पर प्रभाव डालने बिना
ज्येष्ठता 03 जनवरी 1983 से दी जायेगी)।

बिहार रजिस्ट्रार

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार राम कुमार त्रिपाठी (जे०सी०-10752-एफ०)---1 मई
1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

बी०एच०एम० श्री कृष्णा सिंह (स०-1244236-एफ० अब जे०सी०-
128914-पी०)---28 अप्रैल 1982।

हवलदार शिव जी सिंह (स०-4239253-एन० अब जे०सी०-128915-
एफ०)---04 नवम्बर 1982।

हवलदार साधव ठाकुर (स०-4244815-के० अब जे०सी०-128916-
ए०)---31 दिसम्बर 1982।

सी०एच०एम० मायकुम सना (स०-4236705-ए० अब जे०सी०-
128917-ए०)---11 दिसम्बर 1982।

हवलदार हरे लक्ष्मण बन्धु (स०-4251709-एन० अब जे०सी०-
128918-ए०)---11 दिसम्बर 1982।

हवलदार सुरेश कुमार सिंह (स०-1244477-एफ० अब जे०सी०-
128919-एन०)---10 जनवरी 1983।

गण्ड बिगोड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजबीर सिंह (जे०सी०-50357-ए०)---01 अप्रैल 1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लक) राम प्रसाद मिह (जे०सी०-६७५३५-३६५०)—01
अप्रैल 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जयशंकर मिह (जे०सी०-88565-एम०)—01 अप्रैल
1982।

नायब सूबेदार दीप चंद (जे०सी०-90005-एम०)—01 अगस्त
1982।

नायब सूबेदार चन्द्र देव पाण्डे (जे०सी०-87165-एम०)—01
दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार रतन मिह (जे०सी०-91067-क०)—01 दिसम्बर
1982।

नायब सूबेदार गोपाल दत्त (जे०सी०-87791-डब्ल्यू०)—11
दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार रघुवीर मिह (जे०सी०-91985-एम०)—01 फरवरी
1983।

नायब सूबेदार जगदीश मिह (जे०सी०-81987-एम०)—01 मार्च
1983।

नायब सूबेदार प्रेम ब्रजेश (जे०सी०-79073-एम०)—01 मार्च
1983।

नायब सूबेदार लक्ष्मण मिह (जे०सी०-79816-एम०)—01 अप्रैल
1983।

नायब सूबेदार साधू राम (जे०सी०-93659-आई०)—01 मई
1983।

नायब सूबेदार त्रिभुवन प्रसाद (जे०सी०-81452-एम०)—07 मई
1983।

नायब सूबेदार बलवीर मिह (जे०सी०-100746-एम०)—20 मई
1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) श्री राम मिश्रा (जे०सी०-96177-एम०)—
01 अप्रैल 1983।

डोगरा रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मन्तोष मिह (जे०सी०-91590-एम०)—1 अगस्त 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मम्पूरन मिह पटानिया (जे०सी०-95637-एम०)—
1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार विजय मिह (जे०सी०-94325-एम०)—1 अप्रैल
1983।

नायब सूबेदार कामसीर मिह (जे०सी०-99326-डब्ल्यू०)—1 जुलाई
1983।

नायब सूबेदार शमशेर नाथ (जे०सी०-99327-आई०)—1 अगस्त
1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार कर्नल जयवल्लभ मिह (जे०सी०-77049-डब्ल्यू०)—1 अक्टू-
बर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कर्नल गाल (जे०सी०-90640-एम०)—1 अगस्त
1983।

नायब सूबेदार दन राज (जे०सी०-96498-एम०)—1 अगस्त 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार कर्नल रघुवीर चन्द्र चक्रानिया (जे०सी०-97843-पी०)
—1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार कर्नल शमशेर मिह (जे०सी०-97844-एम०)—1
अगस्त 1983।

नायब सूबेदार कर्नल कृष्ण चन्द्र शर्मा (जे०सी०-99329-के०)—1
अक्टूबर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जे०सी०-100222-के०)—1 मार्च
1983।

नायब सूबेदार प्रीतम चन्द्र (जे०सी०-103313-डब्ल्यू०)—1 जून
1983।

नायब सूबेदार कुलदीप चन्द्र (जे०सी०-90309-पी०)—1 जुलाई
1983।

नायब सूबेदार हरनाम मिह (जे०सी०-100631-एम०)—1 जुलाई
1983।

नायब सूबेदार रतन मिह (जे०सी०-95291-एम०)—1 जुलाई
1983।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द्र (जे०सी०-103345-एम०)—1 जून
1983।

नायब सूबेदार बाबू राम (जे०सी०-95642-एम०)—1 जुलाई
1983।

नायब सूबेदार कुनी चन्द्र (जे०सी०-100798-एम०)—1 जुलाई
1983।

नायब सूबेदार परम राम (जे०सी०-100639-के०)—1 सितम्बर
1983।

नायब सूबेदार रूप सिंह (जे०सी०-99320-पी०)—1 सितम्बर
1983।

नायब सूबेदार पुनी चन्द्र (जे०सी०-101941-पी०)—1 सितम्बर
1983।

नायब सूबेदार हरकपाल मिह (जे०सी०-104348-एम०)—6
सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार बालकृष्ण शर्मा (जे०सी०-95292-डब्ल्यू०)—1
अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम मिह (सं०-3953007-के० अथवा जे०सी०-132141-
एम०)—28 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार धर्म मिह (सं०-3955961-एम० अथवा जे०सी०-132142-
एम०)—11 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार कर्नल अजयलक्ष्मण सिंह सधू (सं०-3957002-एम० अथवा जे०
सी०-132143-एम०)—3 मई 1983।

× (नायब सूबेदार कर्नल के रैंक में सेवानिवृत्त होने पर प्रभाव वाले
बिना शर्तों) 1 अप्रैल 1983 में ही आवेगी) ।

हवलदार बलराम जगदीश चन्द्र गणा (सं०-3957008-के० अथ जे० सी० 132144-एन०)---12 अप्रैल 1983। X X

X X (नायब सूबेदार बलराम के रैंक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता) 1 अप्रैल 1983 से ही जायेगी।

हवलदार बलराम कुन्दन लाल (सं०-3957031-एन० अथ जे० सी०-132145-एन०)---1 अप्रैल 1983।

हवलदार बलराम बेब प्रकाश शर्मा (सं०-3957119-एफ० अथ जे० सी०-132146-डब्ल्यू०)---1 अप्रैल 1983।

हवलदार बलराम ब्रह्मा नन्द सीखला (सं०-3957121-वाई० अथ जे० सी०-132147-वाई०)---1 अप्रैल 1983।

हवलदार इन्द्र मिश्र (सं०-3953148-वाई० इव जे० सी० 132138-एच०)---27 दिसम्बर 1982।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 1982 से ही जायेगी)।

हवलदार ज्ञान चन्द्र छडवाल (सं०-3961577-पी० अथ जे० सी०-132139-ए०)---1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार (बलराम) के रैंक में

हवलदार बलराम मनवर मिश्र (सं०-3957080-ए० अथ जे० सी०-132140-पी०)---1 अप्रैल 1983।

गणेश्वर राइफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार चन्द्र मिश्र मजबान (जे० सी०-50010-ए०)---1 अगस्त 1982।

सूबेदार उमेश मिश्र रावत (जे० सी०-50764-पी०)---1 जनवरी 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गोपाल मिश्र (जे० सी०-85593-एम०)---1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कलम मिश्र (जे० सी०-96494-के०)---1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार ब्रह्मावर मिश्र (जे० सी०-86406-पी०)---1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार नैन मिश्र (जे० सी०-86898-वाई०)---1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार धरमल मिश्र (जे० सी०-86588-एन०)---1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार धरम मिश्र (जे० सी०-90530-एन०)---1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार कुंवर सिंह (जे० सी०-90238-वाई०)---1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार रघुबीर मिश्र (जे० सी०-94330-वाई०)---1 मई 1982।

नायब सूबेदार नथा मिश्र (जे० सी०-95651-वाई०)---1 मई 1982।

नायब सूबेदार कुन्दन मिश्र कच्छवाल (जे० सी०-97834-एन०)---1 मई 1982।

नायब सूबेदार राम मिश्र रावत (जे० सी०-103330-वाई०)---1 जून 1982।

नायब सूबेदार ग्यास सिंह शपलियाल (जे० सी०-90239-एफ०)---1 जून 1982।

नायब सूबेदार पूरण मिश्र (जे० सी०-94337-वाई०)---19 जून 1982।

नायब सूबेदार गहन मिश्र (जे० सी०-103332-के०)---1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार अमर सिंह रावत (जे० सी०-88072-के०)---1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार बनवन्त मिश्र (जे० सी०-86404-के०)---1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार गोबिन्द राम (जे० सी०-99690-पी०)---1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार बाग मिश्र (जे० सी०-99687-पी०)---1 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार बलबीर मिश्र (जे० सी०-99686-एम०)---1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार सुनताम मिश्र (जे० सी०-86412-एन०)---1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार प्रेम मिश्र रावत (जे० सी०-86904-एफ०)---1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार मंगला नन्द (जे० सी०-85594-पी०)---1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार पुष्कर मिश्र रावत (जे० सी०-86905-के०)---1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार शंकर मिश्र रावत (जे० सी०-90531-डब्ल्यू०)---7 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार गुलाब मिश्र (जे० सी०-90533-एफ०)---1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार आशा राम (जे० सी०-91366-एच०)---1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मेहरवान मिश्र बिष्ट (जे० सी०-91367-एन०)---1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार देव मिश्र रावत (जे० सी०-91365-ए०)---1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार गोपाल मिश्र (जे० सी०-94813-एम०)---2 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार दरवान मिश्र (जे० सी०-93737-वाई०)---27 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार हयान मिश्र बिष्ट (जे० सी०-92487-डब्ल्यू०)---31 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार कृपाल मिश्र नेगी (जे० सी०-95301-एम०)---1 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार राम कृष्ण घ्यानी (जे० सी०-96136-वाई०)---1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार लच्छी प्रसाद (जे० सी०-94185-एच०)---1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार दरवान मिश्र पंवार (जे० सी०-96492-वाई०)---4 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार कुशल सिंह गुमाई (जे०सी० 98490 एम०)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे०सी० 94812 के०)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार मनबर सिंह (जे०सी० 97477 डब्ल्यू०)—1 जनवरी 1983।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) शोभा राम (जे०सी० 101360 एम०)—1 जून 1982।

नायब सूबेदार (लिपिक) रघुबीर सिंह रावत (जे०सी० 103341 एम०)—30 जनवरी 1983।

सूबेदार राय सिंह मखलोगा (जे०सी० 50350 एम०)—1 मई 1983।

सूबेदार गोविन्द सिंह गुमाई (जे०सी० 55416 एम०)—1 मई 1983।

सूबेदार महावीर सिंह लिखावाल (जे०सी० 63029 एम०)—1 मई 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरेंद्र सिंह नेगी (जे०सी० 95304 ए०)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार गिरधर प्रसाद नौटियाल (जे०सी० 95649 एफ०)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार आम्बर सिंह (जे०सी० 95298 ए०)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे०सी० 96493 एफ०)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार भवानी सिंह सण्ढारी (जे०सी० 97833 एल०)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार उमेश सिंह (जे०सी० 97835 डब्ल्यू०)—19 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार उमराब सिंह कटैत (जे०सी० 98828 एम०)—1 मार्च 1983।

नायब सूबेदार जग राम (जे०सी० 99691 एम०)—22 मार्च 1983।

नायब सूबेदार गौन सिंह (जे०सी० 100788 एम०)—1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार मन्या राम (जे०सी०-103474 एफ०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार भवान सिंह रावत (जे०सी० 103449 एम०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार मद्रिपाल सिंह पिमोली (जे०सी० 103451 ए०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार दाना राम (जे०सी० 103448 ए०)—11 जून 1983।

नायब सूबेदार प्रयाग सिंह नेगी (जे०सी० 100236 के०)—18 जून 1983।

नायब सूबेदार सिधपाल सिंह रावत (जे०सी० 104087 आई०)—1 जुलाई 1983।

2—54 GI/84

नायब सूबेदार हिम्मत सिंह (जे०सी० 104092 के०)—1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार जय सिंह (जे०सी० 103480 पी०)—1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार बचन सिंह (जे०सी० 106767 एम०)—1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह गुमाई (जे०सी० 103333 एम०)—1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार जयकृत सिंह रावत (जे०सी० 104097 एम०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार भोला दत्त देवरायी (जे० सी० 93738 एफ०)—1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह (जे०सी० 98827 के०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार औतार सिंह पुण्डरी (जे०सी० 99693 एम०)—12 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पुष्कर सिंह नेगी (सं० 4040429 डब्ल्यू० अब जे०सी० 128938 आई०)—18 सितम्बर 1982।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मई 1982 से दी जायेगी)

हवलदार हरेंद्र सिंह (सं० 4041118 पी० अब जे०सी० 128939 एफ०)—26 मई 1982।

हवलदार भूपाल सिंह (सं० 4038279 एम० अब जे०सी० 128940 डब्ल्यू०)—19 जून 1982।

हवलदार सोहन सिंह गुमाई (सं० 4039259 एम० अब जे०सी० 128941 आई०)—21 जुलाई 1982।

हवलदार शिखरपाल सिंह चौहान (सं० 4040435 के० अब जे०सी० 128942 एफ०)—10 अगस्त 1982।

हवलदार जगन सिंह बिष्ट (सं० 4045986 आई० अब जे०सी० 128943 के०)—8 सितम्बर 1982।

हवलदार छतर सिंह राणा (सं० 4038144 एल० अब जे०सी० 128944 एम०)—17 अक्टूबर 1982।

हवलदार आलम सिंह नेगी (सं० 4043872 पी० अब जे० सी० 128945 पी०)—27 दिसम्बर 1982।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अक्टूबर 1982 से दी जायेगी)

हवलदार मंगल सिंह गुमाई (सं० 4039888 एम० अब जे०सी० 128946 एम०)—12 दिसम्बर 1982।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1982 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) गुरबीर सिंह रावत (सं० 4042816 के० अब जे०सी० 128947 ए०)—14 जनवरी 1983।*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1983 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) बलबीर सिंह बिष्ट (सं० 4043080 आई० अब जे०सी० 128948 एम०)—30 जनवरी 1983।

हवलदार घनवीर सिंह (सं०-4050446 के अथ जे० सी० 132131 एन०)—30 दिसम्बर 1982।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना एकेठता 11 जुलाई 1982 में दी जायेगी)

हवलदार प्रताप सिंह (सं०-4041905 डब्ल्यू० अथ जे०सी० 132-132 डब्ल्यू०)—4 दिसम्बर 1982।

हवलदार गौर सिंह (सं०-4046632-एथ० अथ जे०सी०-132-133 आई०)—4 दिसम्बर 1982।

हवलदार धन सिंह (सं० 4046582-एथ० अथ जे०सी०-132-134 एफ०)—10 जनवरी 1983।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना एकेठता 21 दिसम्बर 1982 से दी जायेगी)

हवलदार मंगला नन्दा (सं०-4041879 ए० अथ जे०सी०-132-135 के०)—12 मार्च 1983।

हवलदार मणपाल सिंह (सं०-4038773-एथ० अथ जे०सी०-132-136 एम०)—20 मई 1983।

हवलदार किशोर सिंह (सं०-4042699-के० अथ जे०सी०-132-137 पी०)—1 जून 1983।

1 जी०आर०
सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुवीर सिंह गोले (जे०सी०-89207 एम०)—01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सन्त राम कुवर (जे०सी०-93327 एथ०)—01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार हरका बहादुर गुरूंग (जे०सी०-80986 आई०)—01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार ईमान सिंह थापा (जे०सी०-94661 डब्ल्यू०)—01 मई 1982।

नायब सूबेदार हीरा बहादुर मगर (जे०सी०-89208 पी०)—01 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार देव बहादुर पुत (जे०सी०-90702 एक्स०)—01 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार नन्दा बहादुर थापा (जे०सी०-89210 एम०)—01 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार बेग बहादुर आले (जे०सी०-92829 आई०)—01 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार गगन बहादुर पुत (जे०सी०-90700 एम०)—01 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार मनी चन्द्र (जे०सी०-90701 पी०)—01 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार राम नर्गन साही (जे०सी०-89209 एक्स०)—01 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार किमान सिंह छेसी (जे०सी०-89506 एल०)—01 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार जगर बहादुर गुरूंग (जे०सी० 93420-के०)—01 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार जीत बहादुर थापा (जे०सी०-93421-एम०)—01 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार जगत बहादुर गुरूंग (जे०सी०-95686-पी०)—01 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार रत काजी गुरूंग (जे०सी०-95687-एक्स०)—01 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार पिथी मान गुरूंग (जे०सी०-88193-एल०)—01 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार पर्ता सिंह गुरूंग (जे०सी०-90706-एन०)—01 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार बमन्त कुमार तमग (जे०सी०-90206-डब्ल्यू०)—01 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह थापा (जे०सी०-88198-के०)—01 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार घमन सिंह राना (जे०सी०-88822-एक्स०)—01 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार कुल बहादुर गुरूंग (जे०सी०-93422-ए०)—01 फरवरी 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार कर्लक त्रिपुर बहादुर गुरूंग (जे०सी०-92830 एम०)—01 जून 1982।

नायब सूबेदार कर्लक कशमीर सिंह गुलेरिया (जे०सी०-99663-एल०)—01 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मन बहादुर थापा (सं०-5033899-पी० अथ जे०सी०-129280-डब्ल्यू०)—16 अक्तूबर 1982।

हवलदार मंगल सिंह लिम्बु (सं०-5036643-एक्स० अथ जे०सी०-129281-आई०)—16 अक्तूबर 1982।

हवलदार खरका बहादुर राना (सं०-5033852-के० अथ जे०सी०-129282-एफ०)—01 नवम्बर 1982।

हवलदार चकरा बहादुर रोकॉ (सं०-5035295-पी० अथ जे०सी०-129283-के०)—01 दिसम्बर 1982।

हवलदार देव सिंह थापा (सं०-5034335-आई० अथ जे०सी०-129284-एम०)—01 दिसम्बर 1982।

3 जी०आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रेम बहादुर थापा (जे०सी०-73021-आई०)—01 मार्च 1983।

सूबेदार परसीमान थापा (जे०सी०-64623-एल०)—01 जुलाई 1983।

सूबेदार (क्लर्क) संतोष कुमार जोशी (जे०सी०-67387-ए०)—01 जून 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) शिव भुनी राय (जे०सी०-100268-एम०)—01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) रोशन लाल (सं०-5235638-के०) (जे०सी०-धनुषलब्ध)—01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) राम निवास राय (जे०सी०-105660-डब्ल्यू०)—01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) सन्तोष नारायण जोशी (जे०सी०-101323-के०)—01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) धरम पाल सिंह (जे०सी०-101324-एम)
—1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) राम कैलाश पाण्डे (जे०सी०-105662-एफ)
—1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) बालमीकी सिंह (जे०सी०-105773-वाई)—
1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) मंगला प्रसाद शुक्ला (जे०सी०-105774-एफ)
—1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार टोप बहादुर थापा (सं०-5238757-एल ग्रब जे०सी०-
129285-पी)—15 जून 1982।

हवलदार इन्द्रा बहादुर थापा (सं०-5240386-एम ग्रब जे०सी०-
129286-एक्स)—5 सितम्बर 1982।

हवलदार शेर बहादुर टाकुरी (सं० 5237835 एल ग्रब जे०सी०-
129287-ए)—1 नवम्बर 1982।

हवलदार वीर बहादुर गुरूंग (सं०-5238043-एक्स ग्रब जे०सी०-
129288-एच)—30 नवम्बर 1982।

हवलदार राम प्रसाद गुरूंग (सं०-5237753-एन ग्रब जे०सी०-
129289-एल)—1 दिसम्बर 1982।

हवलदार निमा दोरजी शेरेपा, के०सी०, एस०एम० (सं०-584-
0308-एम ग्रब जे०सी०-129290-ए)—1 दिसम्बर 1982।

हवलदार हस्ता बहादुर थापा (सं०-5237551-एफ ग्रब जे०सी०-
129291-एच)—1 अक्टूबर 1982।

4 जी०धार०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जग बहादुर राना (जे०सी०-61937-एफ)—1 सितम्बर
1983।

सूबेदार पुरना बहादुर गुरग (जे०सी०-61940-एफ)—1 सितम्बर
1983।

सूबेदार बल बहादुर गुरूंग (जे०सी०-61941-के)—1 सितम्बर
1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नधुराम गुरूंग (जे०सी०-88219-पी)—1 सितम्बर
1983।

नायब सूबेदार मित बहादुर गुरूंग (जे०सी०-88222-पी)—1
सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार विद्यासु परसाव गुरूंग (जे०सी०-88223-एक्स)—
1 सितम्बर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चक्रा बहादुर थापा (जे०सी०-82107-वाई)—1
अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार देवी प्रसाद गुरूंग (जे०सी०-95326-वाई)—1
जनवरी 1983।

नायब सूबेदार पदम बहादुर थापा (जे०सी०-91886-एम)—1
जनवरी 1983।

नायब सूबेदार प्रद्युमन सिंह थापा (जे०सी०-91887-इन्फ्यू)—1
जनवरी 1983।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक भगवान सिंह वर्मा (जे०सी०-94650-के)—
1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार जीत बहादुर गुदंग (जे०सी०-91660-एच)—1
फरवरी 1983।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक मोक्ष राज धनवाल (जे०सी०-94369-एफ)
1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वीर बहादुर थापा (सं०-5335915-वाई ग्रब जे०सी०-
129292-एल)—1 नवम्बर 1982।

हवलदार बलदेव सिंह गुरूंग (सं०-5339627-के ग्रब जे०सी०-
129293-एन)—1 नवम्बर 1982।

हवलदार कर्ना बहादुर पुन (सं०-5336491-ए ग्रब जे०सी०-
129294-इन्फ्यू)—1 दिसम्बर 1982।

हवलदार पुत्रकर सिंह गुरूंग (सं०-5339140-इन्फ्यू ग्रब जे०सी०-
129295-वाई)—1 दिसम्बर 1982।

हवलदार भावो सोर गुरूंग (सं०-5336760-एफ ग्रब जे०सी०-
129296-एफ)—14 जनवरी 1983।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
अपेक्षता 1 नवम्बर 1982 से दी जाएगी)

हवलदार कुल बहादुर गुरूंग (सं०-5337102-एफ ग्रब जे०सी०-
129297-के०)—15 जनवरी 1983।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
अपेक्षता 1 दिसम्बर 1982 से दी जाएगी)

5 जी०धार०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बल बहादुर गुरूंग, वीर चक्र (जे०सी०-65760-इन्फ्यू०)—
1 मार्च 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जितवीर थापा (जे०सी०-94373-के)—1 अप्रैल
1982।

नायब सूबेदार भगवान सिंह थापा (जे०सी०-94374-एम)—1
फरवरी 1983।

नायब सूबेदार बाला सिंह थापा (जे०सी०-92843-एल)—1
फरवरी 1983।

नायब सूबेदार हस्ता बहादुर थापा (जे०सी०-92844-एन)—1
फरवरी 1983।

नायब सूबेदार भगम बहादुर गुरूंग (जे०सी०-93964-वाई)—1
मार्च 1983।

सूबेदार बल बहादुर गुरूंग (जे०सी०-53633-पी)—1 सितम्बर
1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर गुरूंग (जे०सी०-93965-एच)—1
अप्रैल 1983।

सूबेदार चन्द्र बहादुर गुरूंग (जे०सी०-54682-के)—1 अक्टूबर
1983।

सूबेदार नर बहादुर गुर्गंग (जे० सी०-68485-एम)—1 नवम्बर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गो बहादुर पुन (जे० सी०-95694-एम०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) माधो सिंह खेरी (जे० सी०-71904-के)—1 दिसम्बर 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) नारायण दत्त नौटियाल (जे० सी०-1011-47-एक्स)—1 दिसम्बर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अमर बहादुर गुर्गंग (जे० सी०-95695-डब्ल्यू)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार लाल बहादुर गुर्गंग (जे० सी०-97337-के)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार जीत बहादुर थापा (जे० सी०-97341-एम)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार दाम बहादुर थापा (जे० सी०-95696-वाई)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार बल बहादुर पुन (जे० सी०-99638-एम)—1 नवम्बर 1983।

नायब सूबेदार रेमन बहादुर थापा (जे० सी०-95697-एफ)—1 नवम्बर 1983।

नायब सूबेदार जंग बहादुर थापा (जे० सी०-95698-के)—1 नवम्बर 1983।

नायब सूबेदार अंका बीर थापा (जे० सी०-96363-वाई)—1 नवम्बर 1983।

नायब सूबेदार बल बहादुर गुर्गंग (जे० सी०-92782-वाई)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार लच्छीम बहादुर गुर्गंग (जे० सी०-90228-पी)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार खडका सिंह गुर्गंग (जे० सी०-91870-एफ)—1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भक्ता बहादुर थापा (सं० 5438235 वाई० अब जे० सी० 129298 एम०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार प्रताप सिंह नौटियाल (सं० 5439609 डब्ल्यू० अब जे० सी० 129299 पी०),* 6 दिसम्बर, 1982।

* (नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 नवम्बर, 1982 से दी जाएगी)।

8 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अंग बहादुर थापा (जे० सी० 58432 ए०), 1 सितम्बर, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दिल बहादुर गुर्गंग (जे० सी० 103224 ए०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार वैष्णो राना (जे० सी० 86860 पी०), 1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार शिव सिंह थापा (जे० सी० 86861 एम०), 1 जुलाई, 1984।

नायब सूबेदार नौरास पले (जे० सी० 103431 एम०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार तीरथा बहादुर राना (जे० सी० 89817 वाई), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार तुल बहादुर राना (जे० सी० 93768 वाई०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार धन बहादुर नेपाळी (जे० सी० 87538 एम०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार पहल सिंह आले (जे० सी० 93770 डब्ल्यू०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार टीका बहादुर प्रधान (जे० सी० 104278 एन०), 5 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार नमगेल शेरपा (जे० सी० 98623 एक्स०), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार नद बहादुर राना (जे० सी० 86848 डब्ल्यू०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार भीम बहादुर थापा (जे० सी० 94642 एल०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार नर बहादुर गुर्गंग (जे० सी० 94643 एम०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर थापा (जे० सी० 89202 एम०), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार गौरीभान गुर्गंग (जे० सी० 88825 एल०), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार पूरन सिंह राना (जे० सी० 88181 डब्ल्यू०), 1 मई, 1982।

नायब सूबेदार रत बहादुर थापा (जे० सी० 96750 एम०), 1 अगस्त 1982।

नायब सूबेदार एक बहादुर थापा (जे० सी० 96754 के०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार गज बहादुर गुर्गंग (जे० सी० 98622 पी०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार डाम बहादुर पुन (जे० सी० 99152 एफ०), 1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लीलाम्बर राना (सं० 5739281 वाई० अब जे० सी० 129313 डब्ल्यू०), 7 जून, 1982*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1982 से दी जाएगी)।

हवलदार हरका बहादुर पुन (सं० 5744951 पी० अब जे० सी० 129314 वाई०), 5 अगस्त, 1982**।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जून, 1982 से दी जाएगी)।

हवलदार लाम बहादुर गुर्गंग (सं० 5740896 डब्ल्यू० अब जे० सी० 129315 एफ०), 1 जुलाई 1982।

हवलदार रेल बहादुर थापा (सं० 5441961 एफ० अब जे० सी० 129316 के०), 2 जुलाई, 1982।

हवलदार प्रमोद कुमार श्रेष्ठा (सं० 5744402 वाई० अब जे० सी० 129317 एम०), 2 जुलाई, 1982।

हवलदार दोरजे तमंग (सं० 5741147 एम० अब जे० सी० 129318 पी०), 9 अगस्त, 1982।

हवलदार तीरथा बहादुर तमंग (सं० 5740047 पी० अब जे० सी० 129319 एम०), 31 अक्टूबर, 1982।

9 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मन बहादुर भण्डारी (जे० सी० 42737 डब्ल्यू०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार लच्छुमन सिंह थापा (जे० सी० 54875 के०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार डमर बहादुर माही (जे० सी० 62431 ए०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मन बहादुर थापा (जे० सी० 84087 पी०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार गिब बहादुर छेत्री (जे० सी० 91865 एफ०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार थल बहादुर अधिकारी (जे० सी० 91866 ए०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मोस कीर साही (जे० सी० 91093 एल०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार नर बहादुर छेत्री (जे० सी० 92800 डब्ल्यू०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हद्रा बहादुर थापा (जे० सी० 91108 एन०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार खरका बहादुर मत्तल (जे० सी० 91641 एफ०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार जित बहादुर खत्री (जे० सी० 91109 एल०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार कमान सिंह छेत्री (जे० सी० 91640 पी०), 24 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार कियान बहादुर साही (जे० सी० 93774 एम०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार धन बहादुर साही, बी० आर० सी० (जे० सी० 91868 एल०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार नारायण सिंह मत्तल (जे० सी० 96746 एल०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार बोध बहादुर छेत्री (जे० सी० 94384 डब्ल्यू०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार देव बहादुर छेत्री (जे० सी० 92801 एफ०), 16 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार गनेश बहादुर छेत्री (जे० सी० 95409 के०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गंगा बहादुर छेत्री (सं० 5835668 एफ० अब जे० सी० 129320 एम०), 26 नवम्बर, 1982*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना अपेक्षता 1 नवम्बर, 1982 से की जायेगी)।

हवलदार खरका बहादुर छेत्री (सं० 5835210 पी० अब जे० सी० 129321 पी०), 1 नवम्बर, 1982।

हवलदार कियान बहादुर छेत्री (सं० 5835674 एम० अब जे० सी० 129322 एफ०), 1 नवम्बर, 1982।

हवलदार दिल बहादुर सेन (सं० 5840143 वाई० अब जे० सी० 129323 ए०), 1 दिसम्बर, 1982*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना अपेक्षता 1 नवम्बर, 1982 से की जायेगी)।

हवलदार छम बहादुर छेत्री (सं० 5840376 ए० अब जे० सी० 129324 एफ०), 2 दिसम्बर, 1982।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना अपेक्षता 1 दिसम्बर, 1982 से की जायेगी)।

11 जी० आर०

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) छवी लाल शर्मा गौतम (जे० सी० 8889 एल०), 1 मई, 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार आस बहादुर राई (जे० सी० 56329 डब्ल्यू०), 1 मई, 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बीर बिक्रम लिम्बु (जे० सी० 65529 एन०), 1 सितम्बर, 1983।

सूबेदार तार्थी दोर्जे लामा (जे० सी० 56332 डब्ल्यू०), 1 सितम्बर, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सन्ता बीर राई (जे० सी० 91095 डब्ल्यू०), 1 जून, 1982।

नायब सूबेदार पूर्णा बहादुर विवान (जे० सी० 91096 वाई०), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार बुकुल रामा (जे० सी० 93035 ए०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार तिरथा बहादुर राई (जे० सी० 90193 के०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हद्रा लाल लिम्बु (जे० सी० 94387 के०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार धन राज राई (जे० सी० 90195 पी०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार पुर्बा लेप्चा, बीर चक्र (जे० सी० 93039 डब्ल्यू०), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार छेम बहादुर लिम्बु (जे० सी० 95418 डी०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार मिलाभा शोर्पा (जे० सी० 90194 एम०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार जगदीश थापा (जे० सी० 93036 एफ०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार बिर भोज लिम्बु (जे० सी० 93779 एल), 01 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार बसन्त कुमार सुब्बा (जे० सी० 93037 एल), 01 अप्रैल, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार छवि लाल राई (जे० सी० 96741 एम), 01 मार्च, 1983।

प्रिनेसियर्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रामचन्द्र सिंह (जे० सी० 48958 वार्ड), 01 जून 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सबवल खां (जे० सी० 99091 पी), 01 जून, 1983।

सूबेदार अल्लाधीन खां (जे० सी० 60367 के), 01 सितम्बर, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बाल कृष्ण (जे० सी० 94206 एन), 01 जून, 1983।

नायब सूबेदार मनी राम (जे० सी० 99288 एल), 01 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार नन्द राम, बीर चक्र (जे० सी० 90249 एल), 31 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार लाल सिंह (जे० सी० 102921 एन), 08 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार समदर खां (जे० सी० 83691 एन), 01 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार गिरधर सिंह शेखायत (जे० सी० 101481 वार्ड), 06 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) गिरी चन्द (जे० सी० 100206 एम), 29 अगस्त 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मंगतु राम (जे० सी० 96551 ए), 01 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार छोटु राम धनखठ (जे० सी० 99095 एल), 01 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार कुलवीप सिंह (जे० सी० 104731 ए), 01 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी० 82008 डब्ल्यू), 12 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार रिछपाल सिंह (जे० सी० 98655 ए), 01 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी० 99286 ए), 01 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार किशन पुरी (जे० सी० 86538 एच), 21 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार चरणदेव सिंह (जे० सी० 102920 एल), 14 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार भोसू खां (जे० सी० 104720 एन), 17 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार बरीया सिंह (जे० सी० 95264 के), 01 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार सोबरन सिंह (जे० सी० 95587 एम), 01 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार अमरगर प्रली (जे० सी० 97114 एम), 01 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार इन्द्रपाल सिंह (जे० सी० 84487 एफ), 03 मई, 1983।

जाट रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार चांद राम (जे० सी० 83811 ए), 1 अगस्त, 1983।

सूबेदार जगदीश पाल सिंह (जे० सी० 66585 एल), 1 अगस्त, 1983।

सूबेदार राजे राम (जे० सी० 56263 एल), 8 अगस्त, 1983।

सूबेदार बुध सिंह (जे० सी० 70850 एफ), 1 सितम्बर, 1983।

सूबेदार निहाल सिंह (जे० सी० 66567 डब्ल्यू), 1 सितम्बर, 1983।

सूबेदार गंगा सिंह (जे० सी० 62590 एम), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ग्यान सिंह (जे० सी० 99683 वार्ड), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार अंबर सिंह (जे० सी० 92478 पी), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार सुभा चन्द (जे० सी० 94832 एम्स), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार राम फल सिंह (जे० सी० 95283 पी), 8 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी० 95285 ए), 20 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार जुग लाल (जे० सी० 96515 पी), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार हवा सिंह (जे० सी० 97462 एन), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार बयानन्द दहील (जे० सी० 103090 एम), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार मोहन लाल (जे० सी० 103091 पी), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार जय चंद (जे० सी० 103092 वार्ड), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार बनी सिंह (जे० सी० 103083 डब्ल्यू), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जे० सी० 102059 एन), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी० 87992 पी), 1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रिताल सिंह (सं० 3148123 एफ० जे० सी० 132160 एच०), 28 नवम्बर, 1982।

हवलदार रिछपाल सिंह (सं० 3154711 एल० अथ जे० सी० 132161 एल०), 7 फरवरी, 1983।

हवलदार जुग लाल (सं० 3144586 एन० अथ जे० सी० 132152 के०), 3 जनवरी, 1983।

हवलदार तारा चन्द (सं० 3143243 डब्ल्यू० अथ जे० सी० 132153 एम०), 28 मार्च, 1983।

हवलदार सिंह राम (सं० 3143879 एम्स० अथ जे० सी० 132154 पी०), 1 अप्रैल, 1983।

हवलदार फूल सिंह (सं० 3145627 के० अथ जे० सी० 132155 एम्स०), 9 मई, 1983।

हवलदार श्री कृष्ण (सं० 3145310 पी० अथ जे० सी० 132156 ए०), 12 जून, 1983।

× (नायब सूबेदार के रैंक में जेतन और अर्त्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई, 1983 से ही जायेगी)।

हवलदार रामपाल सिंह (सं० 3148647 एच० अथ जे० सी० 132157 एच०), 23 मई, 1983।

हवलदार ईश्वर सिंह (सं० 3145838 एम० अथ जे० सी० 132158 एल०), 1 जून, 1983।

हवलदार जगत सिंह (सं० 3148325 के० अथ जे० सी० 132159 एन०), 1 जून, 1983।

जम्मू और काश्मीर गार्डफ़्ल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अर्जुन सिंह (जे० सी० 61520 एफ०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सरवन राम (जे० सी० 91390 के०), 30 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी० 79889 पी०), 20 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जे० सी० 80118 एम०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी० 86474 एच०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी० 86708 एफ०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रिखी राज सेन (जे० सी० 93532 के०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार काका राम (जे० सी० 83634 एम०), 14 दिसम्बर, 1982।

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार लिपिक कुमार प्रोसाद छैली (जे० सी० 55402 एम०), 1 दिसम्बर, 1982।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक रघवीर सिंह (जे० सी० 90903 डब्ल्यू०), 1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार लिपिक हरदेव सिंह (जे० सी० 93337 एम०), 1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार लिपिक जोगीन्द्र नाथ (जे० सी० 93338 पी०), 1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार लिपिक ब्रज प्रकाश (जे० सी० 92771 एम०), 1 दिसम्बर, 1982।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार परकाश सिंह (जे० सी० 52371 एम०), 1 अप्रैल, 1983।

सूबेदार गुरवीर सिंह (जे० सी० 71267 वाई०), 1 मई, 1983।

सूबेदार राम लाल (जे० सी० 58343 एफ०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार बन्सी राम (जे० सी० 55184 के०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी० 65051 एफ०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार राय सिंह (जे० सी० 60480 वाई०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी० 79118 वाई०), 1 जुलाई, 1981।

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी० 78294 एल०), 1 दिसम्बर, 1981।

नायब सूबेदार रत्न सिंह (जे० सी० 80126 एल०), 1 दिसम्बर, 1981।

नायब सूबेदार बुधी भाम (जे० सी० 80128 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार अग्नेय प्रशाद छेत्री (जे० सी० 83428 एच०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार बास्का राम (जे० सी० 85194 एच०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार घनी राम (जे० सी० 94757 वाई०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार भगत राम (जे० सी० 90902 एन०), 2 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार सरताज सिंह गुलेरिया (जे० सी० 79953 एफ०), 28 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी० 79954 के०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार गोविन्द राम (जे० सी० 84395 एच०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जे० सी० 75401 डब्ल्यू०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार शिब राम (जे० सी० 81268 पी०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सन्वल सिंह (जे० सी० 82114 पी०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार श्याम सिंह लहे (जे० सी० 83419 एफ०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार खेराती लाल (जे० सी० 83635 पी०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी० 86308 एच०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जे० सी० 83636 एम०), 26 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार अंकार सिंह (जे० सी० 82823 के०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार राम सिंह कारकी (जे० सी० 83816 ए०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार मेजर सिंह (जे० सी० 85189 एम०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार दीना नाथ (जे० सी० 82821 एल०), 13 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार परवीन कुमार (13721717 एफ० अब जे० सी० 129327 डब्ल्यू०), 24 अगस्त, 1982।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अगस्त, 1982 से दी जायेगी)।

हवलदार परकाश सिंह (13726179 एच० अब जे० सी० 129328 वाई०), 29 नवम्बर, 1982।x

x (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 दिसम्बर, 1982 से दी जायेगी)।

हवलदार तानब सिंह (13727258 के० अब जे० सी० 129329 एफ०), 12 दिसम्बर, 1982।z

z (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अक्टूबर, 1982 से दी जायेगी)।

हवलदार मनी राम (13723271 डब्ल्यू० अब जे० सी० 129330 डब्ल्यू०), 12 नवम्बर, 1982।

हवलदार बरयाम सिंह (13720227 एफ० ब्रब जे० सी० 129331
वाई०), 4 दिसम्बर, 1982।
अ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 नवम्बर, 1982 से दी जायेगी)।

हवलदार ओम प्रकाश सिंह डोगरा (13721295 पी० ब्रब जे० सी०
129332 एफ०), 4 दिसम्बर, 1982।

अ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
1 दिसम्बर, 1982 से दी जायेगी)।

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री
सूबेदार (कल्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (कल्क) राम दाम (जे० सी० 92012 एम०), 1 अप्रैल,
1982।

नायब सूबेदार (कल्क) ओमकार सिंह (जे० सी० 461 के०), 1 अप्रैल,
1982।

नायब सूबेदार (कल्क) फेजू राम (जे० सी० 91928 एम०), 1 अप्रैल,
1982।

नायब सूबेदार (कल्क) जगीर सिंह (जे० सी० 100332 वाई०), 1 अप्रैल,
1982।

नायब सूबेदार (कल्क) अब्दुल गफार डार (जे० सी० 100482 पी०)
1 अगस्त, 1982।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गदर्ब सिंह (जे० सी० 90847 एम०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार दया राम शर्मा (जे० सी० 95799 एक्स०), 1 दिसम्बर,
1982।

नायब सूबेदार भगत राम (जे० सी० 92793 एक्स०), 1 फरवरी,
1983।

नायब सूबेदार मीर हुसैन (जे० सी० 93027 एफ०), 1 जुलाई,
1983।

नायब सूबेदार रतन लाल (जे० सी० 92015 ए०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार देव राज (जे० सी० 92016 एच०), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी० 482 ए०), 1 जून, 1982।

नायब सूबेदार करनल चन्द (जे० सी० 484 के०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार बेनी राम (जे० सी० 470 के०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार ब्रजमोहन शर्मा (जे० सी० 91769 एच०), 1 दिसम्बर,
1982।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी० 95412 के०), 1 नवम्बर,
1982।

नायब सूबेदार भुहम्मद राजम (जे० सी० 91991 के०), 19 नवम्बर,
1982।

नायब सूबेदार नियामत उल्ला कुरेशी (जे० सी० 466 एच०), 27
सितम्बर, 1983।

सूबेदार (कल्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (कल्क) प्रमानउल्ला खान (9072460 एल०), 1 मार्च,
1983।

नायब सूबेदार (कल्क) फकीर चन्द शायन (जे० सी० 107852 एम०),
15 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जे० सी० 95413 एम०), 1 अप्रैल, 1983।

कुर्माऊ, रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुन्वम सिंह बोशद (जे० सी० 49484 पी०), 1 अप्रैल, 1983।

सूबेदार प्रयाग सिंह (जे० सी० 62993 एम०), 1 अप्रैल, 1983।

सूबेदार अमर सिंह (जे० सी० 53319 एफ०), 1 मई, 1983।

सूबेदार लक्षमण सिंह (जे० सी० 56001 पी०), 1 जून, 1983।

सूबेदार बाल किशन (जे० सी० 58384 एल०), 1 जून, 1983।

सूबेदार इन्द्राज सिंह (जे० सी० 48942 एन०), 1 जून, 1983।

सूबेदार हरिहर सिंह, शीर्ष अक्र (जे० सी० 44459 एम०), 1 जून,
1983।

सूबेदार शाहमल सिंह (जे० सी० 76246 एम०), 1 जून, 1983।

सूबेदार ह्यात सिंह (जे० सी० 68958 ए०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जे० सी० 82078 पी०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार सीमा नन्द (जे० सी० 88804 पी०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार गोपाल दत्त जोशी (जे० सी० 103314 एफ०), 1 अगस्त,
1983।

नायब सूबेदार बिशन सिंह (जे० सी० 103315 के०), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार पनी राम (जे० सी० 103310 एल०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार गुलाब राम (जे० सी० 103311 एन०), 1 अक्टूबर,
1982।

नायब सूबेदार गेर सिंह (जे० सी० 97486 एम०), 1 जुलाई,
1983।

नायब सूबेदार मुरली धर (जे० सी० 92342 एल०), 28 नवम्बर,
1982।

नायब सूबेदार जय श्री राम यादव (जे० सी० 103483 एच०), 1
फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार नरेन्द्र चन्द (जे० सी० 92481 पी०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार उम्मेद सिंह (जे० सी० 85814 एन०), 1 मई, 1983।

सूबेदार (कल्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (कल्क) ईश्वर सिंह (जे० सी० 100249 एफ०), 1
अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार (कल्क) गेर मित्र यादव (जे० सी० 100672 एफ०),
1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार ह्यात सिंह (जे० सी० 99714 एन०), 23 नवम्बर,
1982।

नायब सूबेदार लुशास सिंह (जे० सी० 103305 ए०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार मोनी सिंह (जे० सी० 95656 एम०), 1 अप्रैल,
1983।

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जे० सी० 100640 वाई०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार धरम पाल (जे० सी० 96105 वाई०), 1 जून, 1983।

नायब सूबेदार भूपाल सिंह (जे० सी० 96099 डब्ल्यू०), 1 जून, 1983।

नायब सूबेदार नेज सिंह (जे० सी० 99119 के०), 1 जून, 1983।

नायब सूबेदार फूल चन्द (जे० सी० 96100 ए०), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार गंगा मिह (जे० सी० 103493 एम०) 1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार रघुवीर मिह (जे० सी० 90212 क०) 1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार गंगा मिह (जे० सी० 100059 एम०) 1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार जिन्ना नर राम (जे० सी० 97192 एम०) 1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार ध्याम लाल (जे० सी० 100646 एम०) 1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार गोराम चन्द्र (जे० सी० 100241 एम०) 1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार गणपत चन्द्र रात्रा (जे० सी० 92313 एम०) 1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार मन बहादुर पाल (जे० सी० 103486 डब्ल्यू०) 1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार खुशाल मिह (जे० सी० 114015 एम०) 6 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार प्रेम मिह (जे० सी० 96485 एम०) 1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार ध्याम चन्द्र मिह (जे० सी० 97482 एम०) 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार उमेश मिह (जे० सी० 100650 एम०), 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार प्रह्लाद मिह (जे० सी० 103484 एम०) 1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार विशाग चन्द्र (जे० सी० 103485 एम०) 1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एम० एम० हरी चन्द्र (स० 4156130 एम० अब जे० सी० 132125 एम०), 1 सितम्बर 1982।

सी० एम० एम० एम० करम मिह (स० 4157979 एम० अब जे० सी० 132126 एम०) 1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार (कर्नल) के रैंक में

इन्दरदार धरक लालक राम यादव (स० 4150085 एम० अब जे० सी० 132127 एम०) 1 अप्रैल 1983।

इन्दरदार महावीर प्रसाद (स० 4157348 एम० अब जे० सी० 129930 एम०) 1 अप्रैल, 1982।

इन्दरदार शेर मिह (स० 4149419 डब्ल्यू० अब जे० सी० 128931 सी०) 1 अक्टूबर 1982।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डालने बिना ज्योठना 1 अगस्त 1982 से दी जायेगी)।

सी० एम० एम० जोहार मिह (स० 4146033 एम० अब जे० सी० 128932 एम०) 15 अगस्त 1982।

इन्दरदार नक्षमण मिह (स० 4159045 डब्ल्यू० अब जे० सी० 129933 एम०) 20 अगस्त 1982।

सी० एम० एम० एम० गनेश दल (स० 4146940 एम० अब जे० सी० 128934 एम०) 6 अक्टूबर 1982।

इन्दरदार सावल राम (स० 4147021 सी० अब जे० सी० 129935 एम०), 2 सितम्बर 1982।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डालने बिना ज्योठना 1 अक्टूबर, 1982 से दी जायेगी)।

3—54 GI/84

इन्दरदार सावल राम यादव (स० 4147534 के० अब जे० सी० 128936 एम०) 1 सितम्बर 1982।

इन्दरदार रघुवीर मिह (स० 4149348 डब्ल्यू० अब जे० सी० 128937 डब्ल्यू०) 7 सितम्बर 1982।

इन्दरदार बहादुर मिह कर्मी (स० 4146653 डब्ल्यू० अब जे० सी० 132128 एम०)—5 अप्रैल 1983।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डालने बिना ज्योठना 2 जनवरी 1983 से दी जायेगी)

सी० एम० एम० गुमान मिह (स० 4150898 एम० अब जे० सी० 132129 डब्ल्यू०)—27 मई 1983।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डालने बिना ज्योठना 01 अप्रैल 1983 से दी जायेगी)

इन्दरदार जगन मिह (स० 4150059 के० सी० अब जे० सी० 132130 एम०)—1 जून 1983।

नयाँ सफाईद्वारा

सूबेदार मेजर (कर्नल) के रैंक में
सूबेदार मेजर (कर्नल) मोहन लाल दाह (जे० सी०-72375-सी०) 01 नवम्बर 1983।

सूबेदार (कर्नल) के रैंक में
सूबेदार (कर्नल) मोहन लाल (जे० सी०-105838-एम०)—01 नवम्बर 1983।

सूबेदार के पद में

क सूबेदार टट्टुप फन्नाक (जे० सी०-95248-एम०)—01 अक्टूबर 1982।

ख सूबेदार मोनम गोल्पो (जे० सी०-85246-एम०)—01 मई 1983।

ग सूबेदार स्नास्जिन हुट्टुप (जे० सी० 85248-डब्ल्यू०)—01 अक्टूबर 1983।

एम० के० राय अवर मन्त्रि

सूबेदार आर० टी० के पद में

क सूबेदार आर० टी० लामा लामा श्री मोक्षम मोनम (जे० सी०-42478-डब्ल्यू०)—01 मई 1983।

महान रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार नामदेव बाकोटे (जे० सी०-42117-एम०)—01 जून 1983।

सूबेदार निपय्य लालाने (जे० सी०-42115-सी०)—01 अक्टूबर 1983।

सूबेदार बलभीम बाचमारे (जे० सी०-42123-एम०)—01 अगस्त 1983।

सूबेदार पारस नाथ हुबे (जे० सी०-61817-एम०)—01 अगस्त 1983।

सूबेदार महा मिह (जे० सी०-58525-डब्ल्यू०)—01 अगस्त 1983।

सूबेदार आलम मिह रायत (जे० सी० 61045-एम०)—01 सितम्बर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दुपपा बाधमार (जे० सी०-86040-एम०)—01 मार्च 1983।

नायब सूबेदार पदम मिह (जे० सी०-112696-एम०)—01 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार सुरेश मिह (जे०सी०-99350-एम०)—07 मई 1983।

नायब सूबेदार दीनत निम्बालकर (जे०सी०-83947-एम०)—11 मई 1983।

नायब सूबेदार भूमी लाम (जे०सी०-85291-ए०)—15 मई 1983।

नायब सूबेदार मत्प्या मिगे (जे०सी०-85820-एफ०)—01 जून 1983।

नायब सूबेदार मिग्ने पाल मिह (जे०सी०-85296-वाई०)—01 जून 1983।

नायब सूबेदार जनक मिह (जे०सी०-86039-एम०)—01 जून 1983।

नायब सूबेदार उत्तम लाल झा (जे०सी०-86449-के०)—01 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह (जे०सी०-86041-एम०)—01 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार धान सिंह (जे०सी०-86042-एम०)—09 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार बबशी राम (जे०सी०-89507-एम०)—21 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार नरमन्त कुकेरी (जे०सी०-89235-वाई०)—01 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार शिव नाथ तिवारी (जे०सी०-89510-एम०)—01 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार चूहर सिंह (जे०सी०-90042-एम०)—01 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार भवाम सिंह (जे०सी०-91554-के०)—01 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार जीत सिंह (जे०सी०-91555-एम०)—05 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार जोगिन्द्र पाल (जे०सी०-91827-एफ०)—22 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार सुषाम काम्बले (जे०सी०-95683-एफ०)—25 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार पिरदान सिंह (जे०सी०-94363-ए०)—01 सितम्बर 1983।

सूबेदार के रैंक में (भार०टी०)

नायब सूबेदार (भार०टी०) कपूर सिंह (ग्रन्थी) (जे०सी०-310-85-एच०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (भार०टी०) (पन्डित) चम्पकलाल शुक्ल (जे०सी०-35210-वाई०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (भार०टी०) (पन्डित) हरक नारायण पान्डे (जे०सी०-36582-इल्यू०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (भार०टी०) (पन्डित) श्री नारायण मिश्र (जे०सी०-45168-वाई०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार (भार०टी०) (पन्डित) कैनाम नाथ (जे०सी०-48107-एम०)—01 मई 1983।

सूबेदार कर्क के रैंक में

नायब सूबेदार कर्क महेश मिह (जे०सी०-105753-एम०) 01 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार कर्क विकान्तर मिह जगराल (जे०सी०-1057554-एम०) 01 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार कर्क खान चन्द गर्मा (जे०सी०-105755-इल्यू०) 04 नवम्बर 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हुवलदार बमन्त सगलगिले (सं०-4541394-एम० अथ जे०सी०-128-910-वाई०)—18 मार्च 1982।

सी०एच०एम० गरीबदाम बाघमारे (सं०-4540426-एम० अथ जे०सी०-128911-एफ०)—04 दिसम्बर 1982।

सी०एच०एम० नन्दन सिंह (सं०-9213446-एम० अथ जे०सी०-128912-के०)—05 जनवरी 1983।

सी०एच०एम० मेघ मिह (सं०-2658662-एम० अथ जे०सी०-128913-एम०)—05 जनवरी 1983।

सी०एच०एम० हरमेश लाल (सं०-9203388-वाई० अथ जे०सी०-128907-वाई०)—01 अक्टूबर 1982।

हुवलदार उमा प्रसाद (सं०-9204266-एम० अथ जे०सी०-128-908-एफ०)—14 जनवरी 1983।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन शीर्ष भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1983)।

हुवलदार बलदेव मिह (सं०-9205544-इल्यू० अथ जे०सी०-128-909-के०)—31 जनवरी 1983।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन शीर्ष भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1983)।

हुवलदार रघुनाथ राजगुरु (सं०-4540730-मी० अथ जे०सी०-132-117-एफ०)—02 मार्च 1983।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन शीर्ष भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1983)।

हुवलदार त्रिलोक मिह (सं०-9210694-इल्यू० अथ जे०सी०-132-118-के०)—01 अप्रैल 1983।

हुवलदार तारा चन्द नथू भेशराम (सं०-4541998-वाई० अथ जे०सी०-132119 एम०)—25 अप्रैल 1983।

सी०इयू०एम०एच० साहिबराय (सं०-4536940-एम० अथ जे०सी०-132120-एफ०)—26 मई 1983।

हुवलदार विठल लाडगे (सं०-4539889-एम० अथ जे०सी०-132-115-इल्यू०)—25 मई 1983।

सी०एच०एम० जगन्नाथ बोपोटे (सं०-4540070-एच० अथ जे०सी०-132116-वाई०)—25 मई 1983।

मेकानाईजूड इन्फेंटी रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर कर्क के रैंक में

सूबेदार कर्क प्रवीन चन्द्र माना (जे०सी०-67390-एम०)—01 मई 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ब्रह्म सिंह (जे०सी०-83023-इल्यू०)—01 अक्टूबर 1983।

सूबेदार रामप्रसाद गुरूण (जे०सी०-58430-पी०)—01 अक्टूबर 1983।

सूबेदार कर्क के रैंक में

नायब सूबेदार कर्क रामेश्वर दयाल (जे०सी०-105825-के०)—01 जून 1982।

नायब सूबेदार कर्क प्रकाश मिह (जे०सी०-103782-एफ०)—01 जून 1982।

नायब सूबेदार कलकंठ हुकम सिंह (जे० सी०-109473-पी०)—01
दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार कलकंठ साधू राम (जे० सी०-106083-एफ०)—10
दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार कलकंठ बाबूजी डी० (जे० सी०-105826-एम०)—18
अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार कलकंठ इन्द्र सिंह (जे० सी०-105827-पी०)—18
अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार कलकंठ शामराव नटकर (जे० सी०-105828-एफ०)—
01 मई 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बाबू राम (जे० सी०-84296-एम०)—01 नवम्बर
1982।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र (जे० सी०-85616-एफ०)—01 दिसम्बर
1982।

नायब सूबेदार दालचन्द सिंह (जे० सी०-64579-एम०)—01 अप्रैल
1982।

नायब सूबेदार दामोदर दास (जे० सी०-86789-वाई०)—01 अप्रैल
1982।

नायब सूबेदार जयवन्त सिंह (जे० सी०-75015-के०)—01 अप्रैल
1982।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-85977-एफ०)—01 अप्रैल
1982।

नायब सूबेदार बिनोयचर नन्द बर्धवाल (जे० सी०-85096-एच०)—
01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार पेरूमल मामी नरसिमान (जे० सी०-103382-पी०)—
01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर राना (जे० सी०-101255-एफ०)—01
दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार राम पाल सिंह (जे० सी०-3145160-के०)—06 जनवरी
1983।

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जे० सी०-84161-एल०)—03 दिसम्बर
1982।

नायब सूबेदार चन्द्रभान (जे० सी०-83686-एच०)—24 जनवरी
1983।

नायब सूबेदार मूल राज थापा (जे० सी०-82862-एच०)—08
फरवरी 1983।

नायब सूबेदार फते सिंह गुरुंग (जे० सी०-85851-एफ०)—01
जुलाई 1983।

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे० सी०-91556-पी०)—27 अप्रैल
1983।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-95766-एम०)—01 मई
1983।

नायब सूबेदार कुला नन्द (जे० सी०-95767-पी०)—01 दिसम्बर
1983।

सूबेदार धार्मिक शिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार (धार्मिक शिक्षक) पिताम्बर सोहमी (जे० सी०-288-
46-एम०)—03 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार धार्मिक शिक्षक (पब्लिश) गिरधर वत शर्मा जोशी
(जे० सी०-35209-के०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार धार्मिक शिक्षक (ग्रंथी) हरबंस सिंह (जे० सी०-
31632-एम०)—01 मई 1983।

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर कलकंठ के रैंक में

सूबेदार कलकंठ दलीप सिंह (जे० सी०-87138-एफ०)—01 अप्रैल
1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लक्ष्मण शिंदे (जे० सी०-46361-के०)—01 मार्च 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शिवाजी बभे (जे० सी०-82302-डब्ल्यू०)—01
जुलाई 1982।

नायब सूबेदार प्रल्हाद शिंदे (जे० सी०-92904-एफ०)—05 फर-
वरी 1983।

नायब सूबेदार कृष्णागुजवटे (जे० सी०-92899-एफ०)—13 फरवरी
1983।

नायब सूबेदार शिवाजी नलवडे (जे० सी०-84157-एच०)—01 मार्च
1983।

नायब सूबेदार रघुनाथ कालेकर (जे० सी०-93985-पी०)—01
मार्च 1983।

नायब सूबेदार नानासाहेब भोसले (जे० सी०-95597-डब्ल्यू०)—01
मार्च 1983।

नायब सूबेदार रघुनाथ भोसले (जे० सी०-93402-एफ०)—01
मार्च 1983।

नायब सूबेदार बापु पाटील (जे० सी०-92900-एफ०)—01 मार्च
1983।

नायब सूबेदार रामचंद्र पाटील (जे० सी०-97166-एच०)—01
मार्च 1983।

नायब सूबेदार अशोक कदम (जे० सी०-97170-एल०)—01 मार्च
1983।

नायब सूबेदार अमन बाघ (जे० सी०-98166-डब्ल्यू०)—05 मार्च
1983।

नायब सूबेदार तुकाराम टकले (जे० सी०-96164-एल०)—01
अप्रैल 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रामहरी गायकवाड (जे० सी०-52344-एन०)—01 अक्टूबर
1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भोडू बाग (जे० सी०-86268-पी०)—01 अक्टूबर
1983।

नायब सूबेदार बालकृष्ण साईल (जे० सी०-92901-के०)—01 अक्टू-
बर 1983।

नायब सूबेदार भगवान पाटील (जे० सी०-79088-एम०)—01
अक्तूबर 1983।

नायब सूबेदार बाबाजी अमृतकर (जे० सी०-94861-एम०)—01
अक्तूबर 1983।

नायब सूबेदार मोलीराम पावारे (जे०सी०-97175-के०)—01 अप्रैल 1983।	नायब सूबेदार शिवाजी चव्हाण (जे०सी०-84013-ए०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार शक्रुण गावडे (जे०सी०-87385-उ०क्य०)—01 नवम्बर 1983।	नायब सूबेदार तुकाराम निराम (जे०सी०-84012-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार जयशंभू मलिक (जे०सी०-93716-ए०क्य०)—01 नवम्बर 1983।	नायब सूबेदार पांडुरंग पाथार (जे०सी०-87386-वाई०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार काशिमोथ नाईन (जे०सी०-62408-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार मानीक गायकवाड (जे०सी०-91318-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार मिनाराम मार (जे०सी०-78481-वाई०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार अक्षराम गुजर (जे०सी०-92898-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार कुण्णराव भोसले (जे०सी०-78197-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार प्रभाकर मामन (जे०सी०-92903-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार कुण्णराव उगत (जे०सी०-78576-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार भिमामा विल्लेकेट (जे०सी०-91859-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार रामचन्द्र देणमुख (जे०सी०-82044-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार गजानन जाधव (जे०सी०-83765-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार ध्यापामात्रेज हांगे (जे०सी०-82544-वाई०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार बजरंग जगताप (जे०सी०-94476-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार युगराज देसाई (जे०सी०-83375-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार भाउ जाधव (जे०सी०-84734-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार बजर पाटील (जे०सी०-84010-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार माधव करसुले (जे०सी०-90452-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार बाकासाव पाटील (जे०सी०-86045-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार उत्तम कदम (जे०सी०-94862-वाई०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार शान्तराम साहाईक (जे०सी०-86049-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार तुकाराम चव्हाण (जे०सी०-94866-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार दत्तान्न होल (जे०सी०-87388-के०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार रामा पवार (जे०सी०-93714-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार अरबाव पाटील (जे०सी०-86948-वाई०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार गोपाल जाधव (जे०सी०-86260-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार गुनाव अदम (जे०सी०-80001-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार गणपती पाटील (जे०सी०-93366-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार निधुति शारिचन्द्र (जे०सी०-83754-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार भारगाव पवार (जे०सी०-83763-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार शंभू मन्गार (जे०सी०-80025-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार अन्ना पाटील (जे०सी०-86943-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार रामचन्द्र लवाटे (जे०सी०-81193-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार रामराव फडतरे (जे०सी०-84740-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार कुष्णा कदम (जे०सी०-82040-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार बिठोबा पाटील (जे०सी०-93715-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार शिवाजी भोसले (जे०सी०-82304-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार शिवाजी भोसले (जे०सी०-86257-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार महाहर गकापाल (जे०सी०-83371-वाई०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार रामचन्द्र चोरगे (जे०सी०-93404-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार शिवाजी थारपटे (जे०सी०-82543-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार नारायण नाईक (जे०सी०-84724-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।
नायब सूबेदार परमेश्वर शर्मा (जे०सी०-83758-ए०क्य०)—01 जुलाई 1982।	नायब सूबेदार शंभुमना शिंदे (जे०सी०-91777-वाई०)—01 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार रावमाहेब जाधव (जे०सी०-84735-एम०)—01
जुलाई 1982।

नायब सूबेदार चन्द्रकान्त माणवेंकर (जे०सी०-91864-एम०)—01
जुलाई 1982।

नायब सूबेदार नागयण माटे (जे०सी०-90247-एम०)—01
जुलाई 1982।

नायब सूबेदार नायामाहेब भागना (जे०सी०-95594-एम०)—01
अगस्त 1982।

नायब सूबेदार सुरेश धमान (जे०सी०-83767-एम०)—01
अगस्त 1982।

नायब सूबेदार मनाहर अम्बे (जे०सी०-90246-एम०)—01
अगस्त 1982।

नायब सूबेदार नागयण दलवी (जे०सी०-95269-एम०)—01
अगस्त 1982।

नायब सूबेदार बालागम बालव (जे०सी०-53770-एम०)—01
सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार मास्ती जाधव (जे०सी०-86944-एम०)—01
सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार ताबाजी बालव (जे०सी०-85275-एम०)—01
सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार पन्तगा चडवाल (जे०सी०-94858-एम०)—01
सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार वामन नाईक (जे०सी०-56919-एम०)—01
अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार आनंद नाईक (जे०सी०-93372-एम०)—01
अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार आनंदराव बाब (जे०सी०-97173-आई०)—01
अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार शंकर भागवत (जे०सी०-97868-एम०)—01
नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार नारायण निगड (जे०सी०-100715-आई०)—17
नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार लक्ष्मण सरगर (जे०सी०-96531-एम०)—01
नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार रामराव पाटील (जे०सी०-93811-एम०)—13
नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार सुरलीधर बाल (जे०सी०-94477-एम०)—01
दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार महादेव पाटील (जे०सी०-83756-एम०)—01
दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार विष्णु (जे०सी०-83771-एम०)—24
दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार मास्ता मावुम्के (जे०सी०-86045-एम०)—01
जनवरी 1983।

नायब सूबेदार शंकाबाय घारपडे (जे०सी०-87389-एम०)—01
जनवरी 1983।

नायब सूबेदार सु. रमेश (जे०सी०-96531-एम०)—01
जनवरी 1983।

मद्रास रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार एम०सी० पदमनाभन मन्निवार (जे०सी०-16451-एम०)—
1 अप्रैल 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बागु विल्वे मडालिण पट्टिजाटानिल (जे०सी०-965-
70-एम०)—1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार कृष्णपा कव्वुर (जे०सी०-90451-बे०)—1
फरवरी 1983।

नायब सूबेदार अरियमनू मारिलामणि (जे०सी०-97093-एम०)—
12 फरवरी 1983।

सूबेदार (क्वॉ) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क बगेटमुन्हन शोमन मन्निवार (जे०सी०-1011-
29-एम०)—31 मार्च 1983।

नायब सूबेदार क्लर्क नटिय अन्तोपि बिल्पन्ट डी पोड (जे०सी०-
104705-एम०)—1 अप्रैल 1983।

सूबेदार टी० ए० बेन्जामिन (जे०सी०-45648-एम०)—1
मई 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नीयन्नेरि नटारन कृष्णन मन्निवार (जे०सी०-913-
45-एम०)—8 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार एलिराजुलु पान्दिडु (जे०सी०-95258-एम०)—
3 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार के० विजयन (जे०सी०-95259-बी०)—1
दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार कोळ्मुक्कु नायर श्रीधरन् नायर (जे०सी०-970-
97-एम०)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार पी० विष्णुनाथन नायर (जे०सी०-95583-एम०)—
1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार सी० कुटिकृष्णन (जे०सी०-85604-एम०)—23
फरवरी 1983।

नायब सूबेदार विष्णुनाथन (जे०सी०-86217-एम०)—1
मार्च 1983।

नायब सूबेदार कलाशन (जे०सी०-98875-एम०)—1
अप्रैल 1983।

सूबेदार मेजर (क्वॉ) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क पी०पी० सुकुमारन (जे०सी०-59116-एम०)—1
मई 1983।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क पी० कृष्णन नायर (जे०सी०-104706-एम०)
—21 अप्रैल 1983।

सूबेदार टी० एम० सिकसुब्रमणियन (जे०सी०-44697-बी०)—1
जून 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार वेदुम्बन वेन्कटन (जे०सी०-93700-एम०)—1
सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार षडकुमत परमेश्वरन् श्रीधरन् नायर (जे०सी०-90013-डब्ल्यू०)—1 अप्रैल 1983।
 नायब सूबेदार कामीकल कुट्टिडपम्मा रामकृष्ण पिल्लै (जे०सी०-93398-के०)—28 अप्रैल 1983।
 नायब सूबेदार जी० सीतागमन (जे०सी०-96555-डब्ल्यू०)—1 मई 1

सूबेदार मेजर (क्लक) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क जी० करुणाकरन् नायर (जे०सी०-58938-बी०)—1 जून 1983।
 सूबेदार पि कुट्टिट्टकृष्णन नायर (जे०सी०-46304-डब्ल्यू०)—1 अक्टूबर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भागवन गोपि नायर (जे०सी०-94872-बी०)—1 अप्रैल 1983।
 नायब सूबेदार बालकृष्ण पिल्लै सदाशिवन नायर (जे०सी०-87852-एच०)—1 जुलाई 1983।
 नायब सूबेदार अन्टोणी ए० (जे०सी०-93375-एच०)—1 अगस्त 1983।
 नायब सूबेदार एन० गोपाल कृष्ण पणिकर (जे०सी०-86168-एफ०)—1 सितम्बर 1983।
 नायब सूबेदार गणेश (जे०सी०-99269-ए०)—1 सितम्बर 1983।
 नायब सूबेदार तोमस जोर्जे जोन (जे०सी०-100727-ए०)—25 सितम्बर 1983।
 नायब सूबेदार पि भारिमुत्तु (जे०सी०-86531-बी०)—1 अक्टूबर 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क कोच्चुनालत्तरक्कल शंकर पणिकर (जे०सी०-103366-एक्स०)—1 सितम्बर 1983।
 नायब सूबेदार क्लर्क कुन्तंबन नारायणन जे० सी०-103367-ए०)—20 सितम्बर 1983।
 सूबेदार के०के० अश्वत्थम नायर (जे०सी०-18684-बी०)—1 सितम्बर 1983।
 सूबेदार क्रिजक्कर शन्करन नायर (जे०सी०-54258-एफ०)—1 सितम्बर 1983।
 सूबेदार के० गोपालन (जे०सी०-12727-एम०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार एम० हरीन्द्रम नायर (जे०सी०-92420-एक्स०)—1 अगस्त 1983।
 नायब सूबेदार गोपाना मूकराजु (जे०सी०-96571-एन०)—1 अगस्त 1983।
 नायब सूबेदार नारायण कुरुप राघवन पिल्लै (जे०सी०-105244-एम०)—3 सितम्बर 1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क के०के० माधवन तम्बियार (जे०सी०-59118-बी०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सी०एच० श्रीगम र्जनि (जे०सी०-84534-एन०)—1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार जैकब मोनमन (जे०सी०-84535-डब्ल्यू०)—1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार जी सुन्दर राजु (जे०सी०-93397-एफ०)—12 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार प्रादिमूलम (जे०सी०-93377-एन०)—15 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार कन्हवाचेरि एडविलवीटिल नारायणन नायर (जे०सी०-94221-एच०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार गोपाल पिल्लै राजन पिल्लै (जे०सी०-94222-एल०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार प्रभाकरन श्रोत्रिककल (जे०सी०-87394-एक्स०)—1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार गोपाल पिल्लै मणिकट्टन नायर (जे०सी०-98876-एम०)—20 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार के०बी० कुन्जीरामन (जे०सी०-83723-एल०)—4 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार कोच्चिवीटिल कुन्जु कुन्जु रामकृष्णन (जे०सी०-87837-एन०)—17 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार उदय बानु पणिकर (सं०-2565883-एक्स० अब जे०सी०-132163-डब्ल्यू०)—1 जनवरी 1983।

हवलदार प्रभाकरन नायर एन० (सं०-2566675-पी० अब जे०सी०-132164-वाई०)—23 फरवरी 1983।

हवलदार ब्रह्मिन रमणा (सं०-2563855-एम० अब जे०सी०-132165-एफ०)—1 मार्च 1983।

हवलदार कारी ईरप्पा रूप्पा (सं०-2565873-एन० अब जे०सी०-132166-के०)—1 अप्रैल 1983।

हवलदार सुब्बैया पलनियाडनर (सं०-2562813-एन० अब जे०सी०-132167-एम०)—13 मई 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क श्रीधरम टी०बी० (सं०-2550119-पी० अब जे०सी०-132168-एक्स०)—1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार के०पी० राजन (सं०-2570780-एच० अब जे०सी०-132168-पी०)—1 जून 1983।

पंजाब रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार स्वर्ण सिंह मनहारा (जे०सी०-44700-एन०)—01 फरवरी 1983।

सूबेदार कपूर सिंह (जे०सी०-44970-एच०)—01 फरवरी 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रमोद सिंह (जे०सी०-85975-डब्ल्यू०)—01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार सिंगारा सिंह (जे०-86924-पी०)—01 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार शक्ति शन्द (जे०सी०-98736-ए०)—01 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार गुरबकश सिंह (जे०सी०-87400-ए०)—01 फरवरी 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार श्रीर सिंह (जे०सी०-36544-के०)—01 अप्रैल 1983।

सूबेदार बनारसी दाम (जे०सी०-42299-वाई०)—01 मई 1983।

सूबेदार मेजर कलक के रूप में

सूबेदार कलक गुरदेव सिंह (जे०सी०-79777-मी०)—01 अप्रैल 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मेहर चन्द (जे०सी०-96582-ए०)—01 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार श्रीम प्रकाश भारमोयिया (जे०सी०-98700-एफ०)—01 मार्च 1983।

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जे०सी०-86922-के०)—01 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जे०सी०-90012-एन०)—01 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार करलार सिंह (जे०सी०-101372-एम०)—01 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार कशमीर सिंह (जे०सी०-73977-मी०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार प्यारा सिंह (जे०सी०-89086-मी०)—06 मई 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अजीत सिंह (जे०सी०-48829-वाई०)—01 सितम्बर 1983।

सूबेदार प्रीनम सिंह (जे०सी०-58104-एम०)—01 अक्टूबर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शम्भू राम (जे०सी०-95244-इन्फ्यू०)—01 सितम्बर 1983।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक सन्तोष सिंह सम्बयान (जे०सी०-95254-ए०)—25 सितम्बर 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार काशी राम, एम०बी०सी० (जे०सी०-100191-मी०)—01 जुलाई 1982।

नायब सूबेदार बीरबल सिंह (जे०सी०-95570-वाई०)—01 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार ग्यान चन्द (जे०सी०-103580-ए०)—01 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जे०सी०-98728-एफ०)—01 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार बलबीर चन्द (जे०सी०-100188-मी०)—01 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जे०सी०-98797-एन०)—01 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार अजायब सिंह (जे०सी०-96585-एन०)—21 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार किरपाल सिंह (जे०सी०-96583-एन०)—01 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार मन्कियत सिंह (जे०सी०-96578-एम०)—01 नवम्बर 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वेद प्रकाश शर्मा (सं०-2443244-एफ० अब जे०सी०-132170-एम०)—16 मई 1983।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 1981 से दी जायेगी।)

हवलदार करनैल सिंह (सं०-2455589-पी० अब जे०सी०-132171-पी०)—11 अप्रैल 1983।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 फरवरी 1983 से दी जायेगी।)

हवलदार नरजंत सिंह (सं०-3361193-एन० अब जे०सी०-132172-एम०)—18 अप्रैल 1983।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 फरवरी 1983 से दी जायेगी।)

हवलदार मुखेश सिंह (सं० 2457840-वाई० अब जे०सी० 132173-ए०)—19 फरवरी 1983।

हवलदार बलवैद्यो सिंह (सं० 2447154-एम० अब जे०सी० 132174-एन०)—27 मार्च 1983।

हवलदार हरभजन सिंह (सं० 2454779-पी० अब जे०सी०-132175-एन०)—01 अप्रैल 1983।

हवलदार जागर सिंह (सं० 2455233-एफ० अब जे०सी० 132176-एन०)—09 अप्रैल 1983।

हवलदार कर्म चन्द (सं० 2446329-एन० अब जे०सी० 132177-इन्फ्यू०)—13 अप्रैल 1983।

हवलदार जगीर सिंह (सं० 2453461-एन० अब जे०सी० 132178-वाई०)—29 अप्रैल 1983।

हवलदार अमर सिंह (सं० 2443800-एम० अब जे०सी० 132179-एफ०)—08 मई 1983।

हवलदार नन्द लाल (सं० 2452280-एन० अब जे०सी० 132180-इन्फ्यू०)—06 जून 1983।

हवलदार कलक ग्राम लाल (सं० 2450873-एफ० अब जे०सी० 132181-वाई०)—01 अप्रैल 1983।

हवलदार कलक मुखेश सिंह (सं० 2446438-पी० अब जे० सी०-132182-एफ०)—16 मई 1983।

(नायब सूबेदार कलक के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1983 से दी जायेगी।)

पैगमूट रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राम अमरा (जे०सी० 64580-एफ०)—01 मई 1983।

सूबेदार (कलक) विजय सिंह (जे०सी० 58998-न०)—09 अक्टूबर 1983।

सूबेदार (कलक) के रैंक में

नायब सूबेदार (कलक) नरमेम सिंह (जे०सी० 96961-इन्फ्यू०)—1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार (कलक) राजेन्द्र सिंह (जे०सी० 98740-एन०)—22 मई 1982।

नायब सूबेदार (कलकत्ता) वर्गा पंचम भाग (जे०सी० 103501
एन०)--1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

मी०अ०एम० गिरंजन मिश्र (जे०सी० 1360430० एन० अथ [जे०सी०
132183 के०)--31 मई 1983।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना
उपेक्षा 30 मई 1983 में ही लागू।

हवलदार टायर मिश्र (जे०सी० 13602015 एन० अथ जे०सी०
132181 एन०)--19 जून 1983।

राजपूताना राज्य

सूबेदार भेजरे के रैंक में

सूबेदार हवलदार मिश्र (जे०सी०-53058-एन०)--1 फरवरी
1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार फूल चन्द (जे०सी०-97431-एन०)--1 अप्रैल
1982।

नायब सूबेदार माल मिश्र (जे०सी०-97439-एन०)--27 अप्रैल
1982।

नायब सूबेदार अमर मिश्र (जे०सी०-41802-पी०)--1 दिसम्बर
1982।

नायब सूबेदार राम किशन (जे०सी०-92916-एन०)--1 फरवरी
1983।

सूबेदार भेजरे के रैंक में

सूबेदार मनपाल मिश्र (जे०सी०-46275-एन०)--1 मार्च 1983।

सूबेदार राम स्वल्प (जे०सी०-69633-वार्ट०)--1 अप्रैल 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार परवीण मिश्र (जे०सी०-97434-एन०)--1 दिसम्बर
1982।

नायब सूबेदार भगवान मिश्र (जे०सी० 91468-के०)--1 फरवरी
1983।

नायब सूबेदार राम राम मिश्र तस्का (जे०सी०-81169-एन०)--
1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार गोरधन मिश्र (जे०सी०-96162-एन०)--1 अप्रैल
1983।

सूबेदार भेजरे के रैंक में

सूबेदार हरी चन्द (जे०सी०-63020-एन०)--1 अगस्त 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ताज मोहम्मद नयाम खानी (जे०सी०-93723-वार्ट०)
--1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार हरी मिश्र (जे०सी०-78710-के०)--1 अगस्त
1982।

नायब सूबेदार मान मिश्र (जे०सी०-94464-एन०)--1 अगस्त
1983।

सूबेदार (कलकत्ता) के रैंक में

नायब सूबेदार कर्क कुरेन्द्र मिश्र (जे०सी०-99101-एन०)--1
मई 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कस्तुर मिश्र (जे०सी०-1167-एन०)--1 जन
1982।

नायब सूबेदार मनफूल मिश्र (जे०सी०-95275-के०)--1 दिसम्बर
1982।

नायब सूबेदार हरी मिश्र (जे०सी०-96520-पी०)--1 अक्टूबर
1982।

नायब सूबेदार परनाथ मिश्र (जे०सी०-99502-एन०)--1 जनवरी
1983।

राजपूत रजिमेंट

सूबेदार भेजरे के रैंक में

सूबेदार नारायण सिंह (जे०सी०-34227-एन०)--02 अगस्त 1981।

सूबेदार समशुद्दीन खान (जे०सी०-86598-एन०)--01 जून
1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कलीराम शर्मा (जे०सी०-86426-एन०)--01 फर-
वरी 1983।

नायब सूबेदार जमादार मिश्र (जे०सी० 96154-एन०)--01 मार्च
1983।

नायब सूबेदार हजारी लाल (जे०सी० 96523-एन०)--01 अक्टू-
बर 1983।

नायब सूबेदार भंडार मिश्र (जे०सी० 100810-एन०)--01 अप्रैल
1983।

नायब सूबेदार नरेन्द्र मिश्र (जे०सी० 105278-एन०)--01 अप्रैल
1983।

सूबेदार भेजरे के रैंक में

सूबेदार कौन्काल मिश्र (जे०सी० 81251-पी०)--01 अक्टूबर
1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गोली राम (जे०सी० 99979-के०)--19 दिसम्बर
1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार किशोरा राम (जे०सी० 102904-एन०)--01 फर-
वरी 1983।

नायब सूबेदार मान मिश्र (जे०सी० 102905-एन०)--01 अप्रैल
1983।

नायब सूबेदार त्रिमूखन मिश्र (जे०सी० 97860-पी०)--01 अप्रैल
1983।

नायब सूबेदार लखमन मिश्र (जे०सी० 102906-वार्ट०)--23 मई
1983।

नायब सूबेदार मंगल राम (जे०सी० 100912-एन०)--25 मई
1983।

नायब सूबेदार मिश्र (जे०सी० 116189-एन०)--01 जून 1983।

नायब सूबेदार चन्द्रपाल मिश्र (जे०सी० 100710-एन०)--01
जुलाई 1983।

नायब सूबेदार राम कंदर मिश्र परमार (जे०सी० 79782-एन०)--
01 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-98854 एन०), 01 सितम्बर, 1983
नायब सूबेदार राज क्यास पांडे (जे० सी०-105339 एम०), 23
गितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार बाबू सिंह (जे० सी०-101919 के०), 01 नवम्बर,
1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बबन सिंह (सं० 295100। एन० अब० त्रै० सी०-132109
एन०)—01 जून, 1983

सिख रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुलधन सिंह (जे० सी० 62025 पी०)—1 जून 1983

सूबेदार सुखा सिंह (जे० सी० 66045 ए०)—1 जून 1983

सूबेदार केवल सिंह (जे० सी० 55339 एन०)—1 जुलाई 1983

सूबेदार सुखदेव सिंह (जे० सी० 44462 एम०)—1 अगस्त 1983

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भूषा सिंह (जे० सी० 92491 वार्ड)—1 जुलाई 1983

नायब सूबेदार जीत सिंह (जे० सी० 85624 एफ०)—1 सितम्बर
1983

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जे० सी० 84441 एम०)—1 सितम्बर
1983

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी० 99111 एफ०)—1 सितम्बर
1983

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जे० सी० 94433 एन०)—1 सितम्बर
1983

नायब सूबेदार भजन सिंह (जे० सी० 94446 एल०)—6 सितम्बर
1983

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी० 97467 एम०)—13 सितम्बर
1983

नायब सूबेदार मनकीत सिंह (जे० सी० 97468 पी०)—1 अक्टूबर
1983

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी० 44942 डब्ल्यू०)—1 जून 1983

सूबेदार भंगन सिंह (जे० सी० 72985 एफ०)—1 सितम्बर 1983

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जे० सी० 86105 पी०)—1 जून 1983

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी० 95629 एन०)—1 जून 1983

नायब सूबेदार विकर सिंह (जे० सी० 97469 एफ०)—1 जुलाई 1983

नायब सूबेदार तरमेम सिंह (जे० सी० 98836 एल०)—1 अगस्त 1983

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क मनजीत सिंह (जे० सी० 105368 एफ०)—
25 अगस्त 1983

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जैमल सिंह (जे० सी०-86110 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल,
1982।

4-54 GI/84

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-92942 एल०), 1 जून,
1982।

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जे० सी०-91077 एन०), 1 नवम्बर,
1982।

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जे० सी०-93980 डब्ल्यू०), 1 नवम्बर
1982।

नायब सूबेदार नरमेम सिंह (जे० सी०-91154 वार्ड), 1 जनवरी,
1983।

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी०-94820 एल०), 1 जनवरी
1983।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-89350 वार्ड), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार गुरचरण सिंह (जे० सी०-89351 एफ०), 1 मार्च,
1983।

नायब सूबेदार ग्रमेम सिंह (जे० सी०-104242 पी०), 28 मार्च,
1983।

नायब सूबेदार योगिन्दर सिंह (जे० सी०-104250 वार्ड), 1 अप्रैल,
1983।

नायब सूबेदार बग्गा सिंह (जे० सी०-105364 एल०), 1 अप्रैल,
1983।

नायब सूबेदार शंभार सिंह (जे० सी०-91709 एन०), 1 अप्रैल,
1983।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-94821 एल०), 8 अप्रैल,
1983।

नायब सूबेदार अन्त सिंह (जे० सी०-96131 ए०), 8 अप्रैल, 1983

नायब सूबेदार मोहल्लत सिंह (जे० सी०-96510 डब्ल्यू०), 17 मई
1983।

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जे० सी०-94445 एल०), 1 जुलाई,
1983।

नायब सूबेदार जीत सिंह (जे० सी०-94428 एल०), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जे० सी०-96511 वार्ड), 1 जुलाई,
1983।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-97471 पी०), 1 अगस्त,
1983।

नायब सूबेदार हरकिशन सिंह (जे० सी०-85059 पी०), 1 जुलाई,
1983।

नायब सूबेदार दरबारा सिंह (जे० सी०-94432 एल०), 1 जुलाई,
1983।

नायब सूबेदार केवल सिंह (जे० सी०-94437 के०), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-94439 पी०), 16 जुलाई,
1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बनीप सिंह (सं० 3360533 एम० अब० जे० सी०-128949
एल०), 12 अक्टूबर, 1982।

हवलदार बलकार सिंह (सं० 3358450 के० अब० जे० सी०-128950
ए०), 31 अक्टूबर, 1982।

सी० एच० एम० हरबन्स सिंह (सं० 3364358 एफ० अब० जे० सी०
128951 एल०), 14 नवम्बर, 1982।

हवलदार गुरजट सिंह (सं० 3350652 डब्ल्यू अब जे० सी०-132-553 बाई), 31 दिसम्बर, 1982।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना अपेक्षता 21 अप्रैल, 1982 में दी जायेगी)।

हवलदार गुरब्रह्म सिंह (सं० 3353550 एल अब जे० सी०-132-148 एफ), 2 जनवरी, 1983।

सी० स्यू० एम० एच० जगतार सिंह (सं० 1357014 एफए अब जे० सी०-142149 के), 4 मार्च, 1983।

हवलदार अमरीक सिंह (सं० 3357592 पी अब जे० सी० 132150 बाई), 17 मई, 1983।

नायब सूबेदार कलक के रैंक में

हवलदार कलक सुबेधा पाण्ड (सं० 3355961 एच० अब जे० सी०-132151 एफ) 1 अप्रैल, 1983।

सिद्ध लार्डेट इन्फैंट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार उजागर सिंह (जे० सी०-45097 एच), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-50611 एल), 1 अगस्त, 1983।

सूबेदार गुरदयाल सिंह (जे० सी०-58213 बाई), 1 अगस्त, 1983।

सूबेदार किशन सिंह (जे० सी०-53554 ए), 1 नवम्बर, 1983।

सूबेदार (कलक) के रैंक में

नायब सूबेदार (कलक) स्वर्नसिंह (जे० सी०-99125 एफए), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार (कलक) मन्विर सिंह पान्धी (जे० सी०-99126 ए), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार (कलक) मन्मोहन सिंह बडगुजर (जे० सी०-99127 एच), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार (कलक) विशाधर कुण्डल (जे० सी०-99340 एच), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार (कलक) मन्वन सिंह (जे० सी०-105736 एल) 1 नवम्बर, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बग्गा सिंह (जे० सी०-93741 एफ), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार रेणम सिंह (जे० सी०-93744 पी), 1 नवम्बर 1983।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलबीर सिंह (सं० 1444690 एफ अब जे० सी०-128920 एच) 19 अप्रैल, 1982।

हवलदार अमरजीत सिंह (सं० 4414265 डब्ल्यू अब जे० सी०-128-921 एल), 29 अक्टूबर, 1982।

हवलदार अमर सिंह (सं० 4446177 बाई अब जे० सी०-128922 एल), 1 नवम्बर 1982।

हवलदार गुरमीत सिंह (सं० 4413571 एल अब जे० सी०-128923 डब्ल्यू), 15 नवम्बर, 1982।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना अपेक्षता 28 अगस्त, 1982 में दी जायेगी)।

हवलदार लाखा सिंह (सं० 4446782 पी अब जे० सी०-128924 बाई), 1 नवम्बर, 1982।

हवलदार हरजन्द सिंह (सं० 4449003 एफए अब जे० सी०-128929 एफ) 1 नवम्बर 1982।

हवलदार मुकन्द सिंह (सं० 4447947 एफ अब जे० सी०-128926 के), 21 जनवरी, 1983।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना अपेक्षता 1 नवम्बर, 1982 में दी जायेगी)।

हवलदार बूटा सिंह (सं० 4443457 एफ अब जे० सी०-128927 एम), 30 सितम्बर, 1982।

हवलदार गुरब्रह्म सिंह (सं० 4441342 पी अब जे० सी०-128928 पी), 6 अक्टूबर, 1982।

हवलदार हरमजन सिंह (सं० 4441913 एच) अब जे० सी०-128-929 बाई), 8 अक्टूबर, 1982।

तोपखाना रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी०-55855 एच), 01 अगस्त, 1982।

सूबेदार के पद में

नायब सूबेदार देश राम (जे० सी०-91401 ए), 01 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार सागर मल (जे० सी०-94027 एन), 01 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार माये राम (जे० सी०-94247 एफए), 01 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार बीजेन्द्र सिंह (जे० सी०-93825 पी), 01 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-84271 ए), 01 अप्रैल, 1982।

सूबेदार (एस०के० टी०) के पद में

नायब सूबेदार जैशनु दाम भासकर (जे० सी०-98998 डब्ल्यू), 01 अप्रैल, 1982।

सूबेदार के पद में

नायब सूबेदार मधुकर पाटिल (जे० सी०-101135 एन), 01 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जे० सी०-102349 एल), 01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार लाल चन्द (जे० सी०-102329 एफए) 01 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार मनोहर लक्ष्मण (जे० सी०-104559 एफ), 01 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार सुरेन्द्रा सिंह (जे० सी०-107685 एफ), 01 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार लेख राज (जे० सी०-99565 डब्ल्यू), 01 जून, 1982।

नायब सूबेदार इन्द्रपाल वर्मा (जे० सी०-105229 एफए), 01 जून, 1982।

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी०-110343 एल), 01 जून, 1982।

नायब सूबेदार गिरधारी (जे० सी०-105179 एफए), 01 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार राम सिंह राना (जे० सी०-106316 एक्स), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार सेखरन रवीन्द्रन (जे० सी०-111897 के), 1 मिनम्बर, 1982।

नायब सूबेदार जगमेल सिंह (जे० सी०-109632 वाई) 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-97044 वाई), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार नीतानन्दयादव (जे० सी०-106668 पी) 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सरजित सिंह (जे० सी०-104537 एल), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार मुख्तार सिंह (जे० सी०-109596 एफ), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार गम्पन भाऊ जाधव (जे० सी०-53374 एक्स), 1 जून, 1982।

सूबेदार ४ पद में

नायब सूबेदार देव प्रिय (जे० सी०-91173 एफ), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार जे० के० रावर्ट (जे० सी०-44028 डब्ल्यू), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार पाण्डुशर्मा धारमुगम (जे० सी०-106904 एल), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार चैन्निसिद्धी जगन्धर राव (जे० सी०-102320 एच), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार गंगा राम शर्मा (जे० सी०-111907 एच) 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार मदन लाल (जे० सी०-107531 पी), 1 जून, 1982।

नायब सूबेदार सुरम सिंह जयवाल (जे० सी०-112147 एक्स), 21 जून, 1982।*

*(सूबेदार के पद में ध्यान और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1982 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जे० सी०-105190 डब्ल्यू), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार केवल कृष्ण (जे० सी०-107515 एक्स) 1 मिनम्बर 1982।

नायब सूबेदार परमेश्वरन पिल्ले शंकरा नारायण पिल्ले (जे० सी० 107623 डब्ल्यू), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार धर्म राव पाटिल (जे० सी०-107535 एल), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार छाटे लाल सिंह (जे० सी०-112107 डब्ल्यू), 1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार राम करन वर्मा (जे० सी०-109619 एक्स), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार जग बहादुर सिंह (जे० सी०-108722 डब्ल्यू), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार शम ईकबाल सिंह (जे० सी०-100146 एच), 1 जनवरी, 1983।

सूबेदार - भारायण सिंह (जे० सी० 109316), 1 जनवरी, 1983।

सूबेदार सुखवीर सिंह (जे० सी०-77928 एफ), 1 जनवरी, 1983।

सूबेदार बोधा राम (जे० सी०-76787 एम), 1 जनवरी, 1983।

सूबेदार साहेब सिंह (जे० सी०-92386 एच), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार मणकीत सिंह (जे० सी०-53655 एन), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार हरपाल सिंह तनवर (जे० सी०-45395 वाई), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार पाटिल शंकर ईरगाडा (जे० सी०-53644 एफ), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार नौरंग लाल (जे० सी०-48367 एक्स), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार प्यारे लाल (जे० सी०-50371 वाई), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार गुरा सिंह (जे० सी०-66795 वाई), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी०-68618 के), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार (ए० आई० जी०) के रैंक में

नायब सूबेदार बनवीर सिंह (जे० सी०-89934 के), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार प्रभाकरन थोटुमुक्कु थैक्केथिल (जे० सी०-90867 डब्ल्यू), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-90416 डब्ल्यू), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार चन्दर सिंह (जे० सी०-89936 पी), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार चैम्बर्टा पुननवीटील भनियारी कुन्ही रामन नम्बवार (जे० सी०-90417 वाई), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार जनमान सिंह यादव (जे० सी०-89937 एफ), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार (बलरू जी० डी०/एस० वें० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार एम० ए० मादप्पा (जे० सी०-85733 एन), 11 मिनम्बर, 1982।*

*(नायब सूबेदार के पद में ध्यान और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1982 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार गोमेश चन्दर (जे० सी०-101523 ए), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हरबन्स सिंह (जे० सी०-106299 एच), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह रत्न पाल (जे० सी०-101840 एफ), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार तारा चन्द (जे० सी०-101524 एच), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार इन्द्र भानु सिंह (जे० सी०-102987 के) 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार पी० एन० देवकरन (जे० सी०-105476 एल), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार मधुकर मुराडे (जे० सी०-101530 डब्ल्यू), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार (एफ० जी० ए०) के रैंक में

नायब सूबेदार रणजीत सिंह पुबिन (जे० सी०-112338 एम), 1 जुलाई, 1983।

- सूबेदार (सी०एम०) के रैंक में
 नायब सूबेदार गोपालाकृष्ण दिवाकरा कुर्या (जे० सी०-114329 के), 1 जनवरी, 1983।
- सूबेदार मेजर के पद में
 सूबेदार राम आश्रय राय (जे० सी०-95003 डब्ल्यू), 1 मार्च, 1983।
- सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०/एम० के० टी०) के पद में
 सूबेदार गुरुभारायण त्रिपाठी (जे० सी०-55876 आई), 1 मार्च, 1983।
- सूबेदार गुरुबन्धन सिंह शाव (जे० सी०-49873 पी), 1 मार्च, 1983।
- सूबेदार मेजर के पद में
 सूबेदार दया राम (जे० सी०-51396 एक्स), 1 अप्रैल, 1983।
 सूबेदार सिरियाक के० टी० (जे० सी०-53649 ए), 1 अप्रैल, 1983।
- सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०/एम० के० टी०) के पद में
 सूबेदार के० श्रीकृष्णराम (जे० सी०-50944-एक्स), 1 अप्रैल, 1983।
 सूबेदार कृष्ण कुमार महाजन (जे० सी०-56466 पी), 1 अप्रैल, 1983।
- सूबेदार (क्लर्क जी० डी०/एस० के० टी०) के पद में
 नायब सूबेदार श्रद्धा राम डोगरा (जे० सी०-1025231 पी), 1 मार्च, 1983।
 नायब सूबेदार लाल सिंह यादव (जे० सी०-106661 एल), 1 मार्च, 1983।
- सूबेदार (ए० आई० जी०/टी०आई०एफ० सी०) के पद में
 नायब सूबेदार मांगे राम (जे० सी०-90418 एफ), 1 अप्रैल, 1983।
 नायब सूबेदार भगवान दाम (जे० सी०-89938 ए), 1 अप्रैल, 1983।
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-89939 एच), 1 अप्रैल, 1983।
- सूबेदार (क्लर्क जी० डी०/एस० के० टी०) के पद में
 नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह यादव (जे० सी०-101525 एल), 1 अप्रैल, 1983।
 नायब सूबेदार जमाशरत सिंह (जे० सी०-106921 एल), 1 अप्रैल, 1983।
 नायब सूबेदार सन्त लाल मायेर (जे० सी०-108256 एम), 1 अप्रैल, 1983।
- सूबेदार मेजर के पद में
 सूबेदार सी० ए० सोमईया (जे० सी०-47242 एच), 1 अगस्त, 1983।
 सूबेदार चन्द्रन के० ए० (जे० सी०-45425 एल), 1 अगस्त, 1983।
 सूबेदार पुष्पी सिंह (जे० सी०-68204 एल), 1 अगस्त, 1983।
 सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-51786 ए), 1 अगस्त, 1983।
- सूबेदार लाम सिंह सोहल (जे० सी०-55203के), 1 सितम्बर, 1983।
 सूबेदार प्रभाकरन नायर ओषायोथ (जे० सी०-54618 एम), 1 सितम्बर, 1983।
 सूबेदार पी० पी० मुकन्दन (जे० सी०-54624 ए), 1 सितम्बर, 1983।
 सूबेदार पी० कालिधरपन (जे० सी०-55862 आई), 1 सितम्बर, 1983।
 सूबेदार लछमन सिंह (जे० सी०-68183 ए), 1 सितम्बर, 1983।
 सूबेदार के० टी० जनार्दनन (जे० सी०-17920 एच), 1 सितम्बर, 1983।
 के० पी० धामजुण्डा (जे० सी०-56454ए), 1 सितम्बर, 1983।
 सूबेदार हरी नागयण (जे० सी०-53659 के), 1 सितम्बर, 1983।
 सूबेदार भैरों सिंह (जे० सी०-57574 एल), 1 सितम्बर, 1983।
 सूबेदार लछमन सिंह (जे० सी०-73409 के), 1 सितम्बर, 1983।
- सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०) के पद में
 सूबेदार सांसा राम (जे० सी०-56703 एन), 1 सितम्बर, 1983।
 सूबेदार (टी० आई० एफ० सी०) नायब सूबेदार सुदालीकशु हरीचन्द्रन (जे० सी०-100887 ए), 1 सितम्बर, 1983।
- सूबेदार (क्लर्क जी० डी०/एम० के० टी०) नायब सूबेदार राधेश्याम (जे० सी०-101842 एम), 1 सितम्बर, 1983।
 नायब सूबेदार कुलजीत सिंह चाठा (जे० सी०-105472 पी), 1 सितम्बर, 1983।
- सूबेदार मेजर के पद में
 सूबेदार पी० आर० बेलायुधन (जे० सी०-45593 के), 1 मई, 1983।
 सूबेदार मरीयम ब्रांसे एल (जे० सी०-49942 ए), 1 मई, 1983।
 सूबेदार दीलत सिंह राठीर (जे० सी०-50803 एच), 1 मई, 1983।
 सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-51303 एक्स), 1 मई, 1983।
 सूबेदार बनवारी लाल (जे० सी०-68182 एक्स), 1 मई, 1983।
 सूबेदार मंगयु राम (जे० सी०-49931 एन), 1 मई, 1983।
 सूबेदार गुलजारा सिंह (जे० सी०-68623 एच), 1 मई, 1983।
 सूबेदार पुतुला सूर्य नारायणा (जे० सी०-47909 के), 1 मई, 1983।
 सूबेदार हंस राज (जे० सी०-70090 एफ), 1 जून, 1983।
 सूबेदार गोपाल सिंह (जे० सी०-56682 एच), 1 जून, 1983।
 सूबेदार सी० के० सुभामन्या रेड्डी (जे० सी०-53415 डब्ल्यू) 1 जून, 1983।
 सूबेदार लक्ष्मण पाटिल (जे० सी०-45492 डब्ल्यू), 1 जुलाई, 1983।
 सूबेदार (ए० आई० जी०/टी० आई० एफ० सी०) के पद में
 नायब सूबेदार चन्दर सेन (जे० सी०-89110 एफ), 24 मार्च, 1983।*
- * (सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1982 से भी जाएगी)।
 नायब सूबेदार छजू राम (जे० सी०-89940 एक्स), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार नन्द लाल (जे० सी०-89941 ए), 1 जून, 1983।
नायब सूबेदार गंगा रत्न (जे० सी०-95138 एम), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार (क्लक जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार करम सिंह (जे० सी०-101526 एन), 1 जून, 1983।
नायब सूबेदार हरचरण सिंह वर्मा (जे० सी०-106331 एम) 1 अगस्त, 1983।

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार जनार्धम प्रसाद राई (जे० सी०-767.5 एन), 1 गिनाबर, 1983।
सूबेदार एम० बनेकाटा रामन (जे० सी०-56155 एच), 1 अक्टूबर, 1983।
सूबेदार सुरिन्दर सिंह मान (जे० सी०-53652 ए), 1 अक्टूबर, 1983।
सूबेदार राजागा बाहरी (जे० सी०-85317 के), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार मोहन लाल (जे० सी०-53377 एन), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार वेदत सिंह (जे० सी०-94994 एच), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार (ए० ए० जी०/टी० आई० एफ० सी०)

के पद में

नायब सूबेदार अली इमाम (जे० सी०-70075 पी), 1 नितम्बर, 1983।
नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह मुन्डी (जे० सी०-100888 एच), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार (ए० ए० जी०/टी० आई० एफ० सी०)

के पद में

नायब सूबेदार चिन्ताम्यायन कानियथाय (जे० सी०-105461 एच), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार (क्लक जी० डी०/एम० क० टी०)

के पद में

नायब सूबेदार काजान सिंह (जे० सी०-101527 डब्ल्यू), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार राज नागयण मिमरा (जे० सी०-101528 आई), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-102988 एम), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार वासुदेवन नाथ भावतिल कुनातिल नामुपिल्ले, (जे० सी०-106332 पी), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार के पद में -

नायब सूबेदार कांटे सिंह (जे० सी०-110127 एल), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जे० सी०-124068 पी), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार हरी सिंह (जे० सी०-116221 के), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार बीमा भरकार (जे० सी०-100854 पी), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार राम कुमार (जे० सी०-104379 एम), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार अम्बातीपुडी राजेश्वर राव (जे० सी०-107621 डब्ल्यू), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार नलकाग गिट्ट (जे० सी०-106928 पी), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार हरबन्त गिह (जे० सी०-120052 एम), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार इन्द्रप्रानन्द गहड़ (जे० सी०-107522 एन), 15 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार नादुवन परमबठ पानबेलारी कोरोंड भासकरम (जे० सी०-124087 ए), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार भूप सिंह (जे० सी०-110111 ए), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मंगतुराम यादव (जे० सी०-106884 एच), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार जी० प्रभाकरन नाथ (जे० सी०-112263 ए), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार जगन्नाथ सावन्त (जे० सी०-108751 एन), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार के पद में (लगानार)

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-108736 डब्ल्यू), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार कोडीयन कुञ्जेल स्कारीया मधीव (जे० सी०-107631 ए०), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार तर्देल कोण्टुटी चन्द्रन (जे० सी०-106903 एच०) 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर करकी (जे० सी०-109077 आई), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार प्रह्लाद सिंह (जे० सी०-93835 पी), 1 नितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार अमर सिंह यादवा (जे० सी०-98404 डब्ल्यू), 1 नितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार चमण्डी लाल (जे० सी०-106666 के), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार हरचरण सिंह (जे० सी०-870571 एच) 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार विजय नाथ सिंह यादव (जे० सी०-89398 एम), 1 नवम्बर, 1982।

%(सूबेदार के पद में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1982 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार दयाल सिंह (जे० सी०-95143 एम), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार भाल चन्द्र गिरी (जे० सी०-112119 एल), 1 अप्रैल 1982।

नायब सूबेदार माधवन नम्बीयर एडायन पञ्जावल (जे० सी०-107011 एग), 10 अक्टूबर, 1982।

× (सूबेदार के पद में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 अगस्त, 1982 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार पोह्लास सिंह (जे० सी०-116588 एल), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार कृष्णा विल्ले रामचन्द्रन नाथ (जे० सी०-108277 एच), 1 सितम्बर, 1982।

- नायब सूबेदार आनन्द खवान (जे० सी०-110162 एन), 1 नवम्बर, 1982।
- नायब सूबेदार गुरु मामी (जे० सी०-114471 एन), 1 नवम्बर, 1982।
- नायब सूबेदार बुढा मिह (जे० सी०-106971 डब्ल्यू), 17 जनवरी, 1983।*
- * (सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1982 से दी जायेगी)।
- नायब सूबेदार शिव सिंह (जे० सी०-108716 एन), 1 जनवरी, 1983।
- नायब सूबेदार हरबंस मिह (जे० सी०-106951 एच), 1 जनवरी, 1983।
- नायब सूबेदार जनक सिंह सौर (जे० सी०-116572 ए), 1 जनवरी, 1983।
- नायब सूबेदार शरण कुमार (जे० सी०-116579 के), 1 जनवरी, 1983।
- नायब सूबेदार जय नाथ यादव (जे० सी०-110139 ए), 11 जनवरी 1983।
- नायब सूबेदार सदाशिव कामटे (जे० सी०-108759 एक्स), 1 फरवरी, 1983।
- नायब सूबेदार भोम प्रकाश यादव (जे० सी०-110361 एफ), 1 फरवरी, 1983।
- नायब सूबेदार नथु सिंह (जे० सी०-90152 ए), 1 मार्च, 1983।
- नायब सूबेदार मारकण्डे मिह (जे० सी०-10660 एच), 1 जुलाई, 1983।
- नायब सूबेदार जैत सिंह (जे० सी०-106994 एक्स), 1 जुलाई, 1983।
- नायब सूबेदार हरबलाल चन्द्र (जे० सी०-109567 एम), 1 जुलाई, 1983।
- नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जे० सी०-97034-पी), 1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार बान सिंह गिल (जे० सी०-108645 एम), 1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार सरवन सिंघ (जे० सी०-109540 पी), 1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार साधु सिंह (जे० सी०-109555 एक्स), 1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे० सी०-108976 पी), 1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार सुरुभा सिंह गिल (जे० सी०-107646 एच), 1 अप्रैल, 1982।
- नायब सूबेदार अश्वतार सिंह (जे० सी०-91809 वाई), 1 अगस्त, 1982।
- नायब सूबेदार अमरीक मिह (जे० सी०-104125 के), 1 अगस्त, 1982।
- नायब सूबेदार बाबू सिंह राम (जे० सी०-102979 एल), 1 सितम्बर, 1982।
- नायब सूबेदार चन्द्रा देव राय यादव (जे० सी०-106679 एफ), 1 अक्टूबर, 1982।
- नायब सूबेदार मुललाल सिंह यादव (जे० सी०-106683 के), 13 जनवरी, 1983।*
- * (सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1982 से दी जायेगी)।
- नायब सूबेदार रत्ती राम (जे० सी०-109093 डब्ल्यू), 1 नवम्बर, 1982।
- नायब सूबेदार राम लक्ष्य (जे० सी०-87426 ए), 1 दिसम्बर, 1982।
- नायब सूबेदार महेश्वर मिह (जे० सी०-102331 एम), 1 दिसम्बर, 1982।
- नायब सूबेदार गोविन्द नायर पालानगोवन (जे० सी०-107628 ए), 1 दिसम्बर, 1982।
- नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-99809 एन), 1 जनवरी, 1983।
- नायब सूबेदार मुरली धर (जे० सी०-108259 ए), 1 जनवरी, 1983।
- नायब सूबेदार गंगा सिंह (जे० सी०-105188 वाई), 1 जनवरी 1983।
- नायब सूबेदार बार नाम मिह (जे० सी०-109027 एन), 1 जनवरी, 1983।
- नायब सूबेदार मधुसूदनराव सहादेवन (जे० सी०-105459 एल) जनवरी 1983।
- नायब सूबेदार चन्द्रभान (जे० सी०-106320 ए), 1 फरवरी, 1983।
- नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जे० सी०-108646 पी), 1 फरवरी, 1983।
- नायब सूबेदार कृष्ण पिल्लै गोपीनाथन नायर (जे० सी०-106626 एच), 1 फरवरी, 1983।
- नायब सूबेदार भोम दत्त (जे० सी०-107647 एल), 1 फरवरी, 1983।
- नायब सूबेदार अजमेर मिह (जे० सी०-101834 एन), 1 फरवरी, 1983।
- नायब सूबेदार आर्य मंगलाम कुट्टन प्रभाकरन (जे० सी०-106603 एफ), 1 फरवरी, 1983।
- नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जे० सी०-109625 एल), 1 मार्च, 1983।
- नायब सूबेदार विनोद चन्द तिवारी (जे० सी०-109637 ए), 1 मार्च, 1983।
- नायब सूबेदार सफीयुद्दीन (जे० सी०-106614 एन), 1 मार्च, 1983।
- नायब सूबेदार जोगीन्द्र सिंह (जे० सी०-106986 एक्स), 1 अप्रैल, 1983।
- नायब सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी०-108672 डब्ल्यू) 1 अप्रैल 1983।
- नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जे० सी०-112106 एन) 1 अप्रैल 1983।
- नायब सूबेदार भनवार सिंह (जे० सी०-112340 के), 1 अप्रैल, 1983।
- नायब सूबेदार रामचन्द्र यादव (जे० सी०-107623 एल), 1 अप्रैल, 1983।
- नायब सूबेदार वीदार सिंह (जे० सी०-108665 ए), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार गुरवेष सिंह (जे० सी०-107014 एक्स), 1 जून, 1983।

भारत (बजट जे० डी०) के पद में

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जे० सी०-104152 एन), 1 अक्टूबर, 1982।

सूबेदार के पद में

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जे० सी०-108292 एक्स), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार लाल सिंह (जे० सी०-106644 एन), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार अरजुन सिंह (जे० सी०-118248 एफ), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार डी०श्याम सिंह कार्गिया (जे० सी०-104133 एच), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार नागयमा रैजी रंगनाथम (जे० सी०-104118 एन), 28 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार मखन लाल (जे० सी०-112128 एम), 15 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अगस्थियन फ्रांसिस (जे० सी०-107667 वार्ड), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी०-106292 वार्ड), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार जगगाम सिंह यादवा (जे० सी०-112208 के), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार इन्दर सिंह (जे० सी०-109051 के), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार नैन सिंह (जे० सी०-109029 वार्ड), 2 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार प्यारा सिंह (जे० सी०-107004 एन), 13 मई, 1983।

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह (जे० सी०-106685 पी), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार मतीश चन्द्रा (जे० सी०-107517 ए), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार नखमी चन्द (जे० सी०-102315 एक्स), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार कुणियोनाल्डा क्रस्बया माछया (जे० सी०-107624 के), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार बलसीम शर्ट (जे० सी०-105225 एफ), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार हजूर सिंह (जे० सी०-106314 एम), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार ब्रजनाथर सिंह मिश्र (जे० सी०-107654 एफ), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार जीमिन्दर नागायण (जे० सी०-104122 डब्ल्यू), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार तारा सिंह (जे० सी०-108674 एन), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार चक्रपात खैर (जे० सी०-106592 ए), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार लाल भारती, (जे० सी०-102241 एन), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार बलदेव मिश्र (जे० सी०-114223 एक्स), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार शिवजी कशेरकर (जे० सी०-90874 एम), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार शीण राम (जे० सी०-84843 डब्ल्यू), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार राम अवनार सिंह चौहान (जे० सी०-112165 ए), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार शैल सिंह (जे० सी०-106687 ए), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार कर्म चन्द (जे० सी०-100863 डब्ल्यू); 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार जय पाल सिंह (जे० सी०-104139 ए), 1 अप्रैल, 1982।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-112264 एच), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जे० सी०-100880 डब्ल्यू), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राम करन (जे० सी०-110354 एन), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार बाबा सिंह (जे० सी०-110117 एफ), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-98394 एक्स), 15 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार ब्रह्मा हन्द (जे० सी०-99791 एच), 15 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जे० सी०-108657 एफ), 15 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जे० सी० 112269 एफ), 15 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-109550 वार्ड), 15 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राज करन यादव (जे० सी०-112067 ए), 15 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार पीचरिया स्वर (जे० सी०-106594 एन), 15 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार दरबारा सिंह (जे० सी०-108650 एक्स), 15 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-108708 के), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार निष्का सिंह (जे० सी०-111552 एच), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राजेश्वरी प्रसाद द्विवेदी (जे० सी०-109627 डब्ल्यू), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार जगदीश शर्मा (जे० सी०-112072 एन), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार गुरुचरण मिश्र (जे० सी०-108695 एफ), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार हरण मिश्र (जे० सी०-111550 एफ), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार मृग मिश्र (जे० सी०-109607 एफ), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार अमी लाल (जे० सी०-110949 के), 8 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी०-106677 डब्ल्यू), 10 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार मोम नाथ (जे० सी०-101051 पी), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार काश्मीर सिंह (जे० सी०-112054 एच), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार श्रीपाल सिंह (जे० सी०-108760 एफ), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार शंकरन नायर (जे० सी०-110457 वाई), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार मेधा मिश्र (जे० सी०-112278 एच), 1 जून, 1983।

नायब सूबेदार बलदेव राज शर्मा (जे० सी०-110137 पी), 1 जून, 1983।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-112190 वाई), 1 जून, 1983।

नायब सूबेदार पी० रामस्वामी (जे० सी०-106607 एफ), 1 जून, 1983।

नायब सूबेदार विलावर सिंह (जे० सी०-109629 एफ), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार रत्नी राम (जे० सी०-107490 डब्ल्यू), 1 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी०-107491 वाई), 9 जुलाई, 1983।

नायब सूबेदार पर्युता विजय कुमार (जे० सी०-106635 के), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार उमा शंकर (जे० सी०-108696 ए), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार शिवमाल सिंह कुशावाह (जे० सी०-106940 डब्ल्यू), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी०-106946 एफ), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार जो जो धामस (जे० सी०-108670 एल), 1 सितम्बर, 1983।

कश्चित्त कोर

रिसालदार भेजर के रैंक में

रिसालदार जयवन्त सिंह (जे० सी०-65212 वाई), 1 सितम्बर, 1982।

रिसालदार मन्नु शर्मा (जे० सी०-69916 ए), 1 सितम्बर, 1982।

रिसालदार पूज राज सिंह (जे० सी०-51425 एफ), 9 सितम्बर, 1982।

रिसालदार सरदार सिंह (जे० सी०-70209 एच), 1 अक्टूबर, 1982।

रिसालदार बलदेव सिंह (जे० सी०-53471 पी), 1 अक्टूबर, 1982।

रिसालदार साद सिंह (जे० सी०-58186 ए), 9 अक्टूबर, 1982।

रिसालदार मोम परकाश (जे० सी०-42966 एफ), 1 नवम्बर, 1982।

रिसालदार श्री जी० कृष्ण नायर (जे० सी०-70241 एफ), 1 दिसम्बर, 1982।

रिसालदार देवी सिंह (जे० सी०-69896 एम), 1 दिसम्बर, 1982।

रिसालदार शिवाजी नाथ (जे० सी०-66177 एच), 1 दिसम्बर, 1982।

रिसालदार मोहनन्दर सिंह (जे० सी०-70790 एम), 1 जनवरी, 1983।

रिसालदार तेज सिंह (जे० सी०-70277 डब्ल्यू), 1 जनवरी, 1983।

रिसालदार रोशन लाल (जे० सी०-73522 के), 1 जनवरी, 1983।

रिसालदार हनु राज (जे० सी०-73388 वाई), 1 फरवरी, 1983।

रिसालदार लोकनाथ सिंह (जे० सी०-59803 के), 1 फरवरी, 1983।

रिसालदार निर्मल मिश्र (जे० सी०-70207 एफ), 1 फरवरी, 1983।

रिसालदार नवी राम (जे० सी०-61360 एच), 1 अप्रैल, 1983।

रिसालदार मन्त बहादुर थिर (जे० सी०-64906 डब्ल्यू), 1 अप्रैल, 1983।

रिसालदार शादी लाल (जे० सी०-61993 ए), 1 मई, 1983।

रिसालदार जिले सिंह (जे० सी०-70270 एम), 8 मई, 1983।

रिसालदार अजीत सिंह (जे० सी०-58507 एम), 1 जून, 1983।

रिसालदार जय सिंह (जे० सी०-58187 एच), 1 जुलाई, 1983।

रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार रमेश चन्द्र उपाध्याय (जे० सी० 96787 ए०), 2 जून, 1962।

नायब रिसालदार नारायण सिंह रांगरा (जे० सी० 99665 एम०), 1 जुलाई, 1982।

नायब रिसालदार आत्मा सिंह (जे० सी० 90856 के०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब रिसालदार कुबेर भूरा सिंह (जे० सी० 106852 ए०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब रिसालदार कर्नेल सिंह विक्रम (जे० सी० 94011 एच०), 1 जनवरी, 1983।

नायब रिसालदार लखबीर सिंह (जे० सी० 100928 वाई०), 1 जनवरी, 1983।

नायब रिसालदार नाम्ने विट्ठल रविन्द्र (जे० सी० 95082 डब्ल्यू०), 1 फरवरी, 1983।

नायब रिसालदार जयपाल सिंह (जे० सी० 99763 डब्ल्यू०), 8 फरवरी, 1983।

नायब रिसालदार विजेन्द्रपाल सिंह (जे० सी० 99771 पी०), 8 फरवरी, 1983।

नायब रिसालदार प्रीतम सिंह (जे० सी० 91787 एल०), 9 फरवरी, 1983।

नायब रिसालदार भगवन्त सिंह (जे० सी० 87702 एम०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब रिजालदार कर्णेश्वर सिंह (जे० सी० 96641 एफ०) 1 अप्रैल, 1983।

नायब रिजालदार रमिल मिश्र (जे० सी० 101783 एल०) 1 अप्रैल, 1983।

नायब रिजालदार विद्याधर (जे० सी० 101801 एच०), 1 मई, 1983।

नायब रिजालदार अक्षय गोविन्दा गौड (जे० सी० 101267 डब्ल्यू०), 27 मई, 1983।

नायब रिजालदार हुकम चन्द (जे० सी० 106566 वाई०), 30 मई, 1983।

नायब रिजालदार योगेश्वरपाल मिश्र (जे० सी० 100936 डब्ल्यू०), 30 मई, 1983।

नायब रिजालदार गुरदियाल मिश्र (जे० सी० 99616 एन०), 1 जून, 1983।

नायब रिजालदार जमबन्त मिश्र नंदल (जे० सी० 102993 एफ०) 30 जून, 1983।

नायब रिजालदार होंशियार मिश्र (जे० सी० 94571 पी०), 1 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार ईशर दाम (जे० सी० 105392 एफ०) 1 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार इन्द्रा मिश्र (जे० सी० 99616 एफ०), 1 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार कल्याण मिश्र (जे० सी० 99783 के०) 1 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार खजूर मिश्र (जे० सी० 103021 डब्ल्यू०), 1 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार शम्भर राम (जे० सी० 99779 एफ०) 1 अगस्त, 1983।

नायब रिजालदार राम कुंवर मिश्र (जे० सी० 101266 एल०), 1 अगस्त, 1983।

नायब रिजालदार गुरज भान नरदल (जे० सी० 95085 के०), 1 अगस्त, 1983।

नायब रिजालदार विभूषन मिश्र पवार (जे० सी० 101824 के०), 1 सितम्बर, 1983।

रिजालदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब रिजालदार क्लर्क कटार मिश्र (जे० सी० 100916 के०), 1 अगस्त, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क करनार चन्द जमवान (जे० सी० 100917 एच०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क रामफल (जे० सी० 100918 पी०), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क हरभजन मिश्र (जे० सी० 100919 एफ०) 1 दिसम्बर, 1982।

नायब रिजालदार क्लर्क अवनार सिंह (जे० सी० 101296 एल०) 1 जनवरी, 1983।

नायब रिजालदार क्लर्क एन० परमेश्वरन पिन्ने (जे० सी० 100920 एल०), 1 जनवरी, 1983।

नायब रिजालदार क्लर्क शम्भू सिंह खंगेत (जे० सी० 101297 एल०), 1 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार क्लर्क मन्ना राम मिश्र (जे० सी० 100921 पी०), 1 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार क्लर्क राम चन्द शर्मा (जे० सी० 101298 डब्ल्यू०), 1 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार क्लर्क पुन मिश्र (जे० सी० 101828 ए०), 1 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार क्लर्क गरबचन मिश्र (जे० सी० 100922 एफ०), 5 जुलाई, 1983।

नायब रिजालदार क्लर्क जागे राम (जे० सी० 103077 एच०) 1 अगस्त, 1983।

नायब रिजालदार क्लर्क प्रियम मिश्र (जे० सी० 104403 एफ०), 1 अगस्त, 1983।

रिजालदार के रैंक में

नायब रिजालदार जगदीश परशार (जे० सी० 98317 एच०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार रोहताश सिंह (जे० सी० 98307 वाई०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार नरगोक मिश्र (जे० सी० 92400 के०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार मही लाल मिश्र (जे० सी० 91774 एल०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार मंगल जेन (जे० सी० 97119 एच०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार जार्ज टी० जे० (जे० सी० 94014 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार ब्रिज बिहारी मिश्र (जे० सी० 90111 ए०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार ब्रिज लाल (जे० सी० 90111 डब्ल्यू०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार बल्लितर मिश्र मन्थू (जे० सी० 97703 पी०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार प्रेम सिंह (जे० सी० 97154 एल०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार ईश्वर मिश्र (जे० सी० 84216 के०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार ओंकार दत्त, एम० एम० बार० (जे० सी० 87481 एल०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार दिलबाघ मिश्र मन्थोक (जे० सी० 98638 एफ०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार जम राम (जे० सी० 100932 एफ०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार नहार सिंह (जे० सी० 98326 के०), 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार हनु ब्रिजय मिश्र (जे० सी० 99786 एफ०) 1 अप्रैल, 1982।

नायब रिजालदार अमर मिश्र (जे० सी० 97138 डब्ल्यू०), 1 मई, 1982।

नायब रिजालदार मन्वान मिश्र (जे० सी० 92324 एच०) 2 मई, 1982।

नायब रिजालदार क० उमेद मिश्र (जे० सी० 97150 एफ०) 4 मई, 1982।

नायब रिजालदार प्रेम सिंह (जे० सी० 102989 पी०), 1 जून, 1982।

नायब रिजालदार हिदायत उल्लाह (जे० सी० 94466 के०), 4 जून, 1982।

नायब रिजालदार सुरभीत मिह (जे० सी० १९५२० एफ०) 1 अगस्त 1982।

नायब रिजालदार रमण मिह (जे० सी० ११७७७ एफ०), 1 जुलाई, 1982।

नायब रिजालदार लाल मिह (जे० सी० ११६२३ एफ०) 1 जुलाई, 1982।

नायब रिजालदार उत्तम मिह, एम० एम० (जे० सी० ११६५७ एफ०), 2 जुलाई, 1982।

नायब रिजालदार दिदार मिह साहा (जे० सी० १२३०१ एफ०), 1 अगस्त 1982।

नायब रिजालदार अरमपाल मिह (जे० सी० १४०१५ एफ०), 1 अगस्त 1982।

नायब रिजालदार महेंद्र मिह (जे० सी० १४६३१ एफ०), 1 अगस्त, 1982।

नायब रिजालदार बलवन्त मिह (जे० सी० १७१७३ एफ०), 1 अगस्त, 1982।

नायब रिजालदार ब्रजनाथ मिह (जे० सी० १८३३१ एफ०), 1 अगस्त, 1982।

नायब रिजालदार रामवीर मिह (जे० सी० १९३८६ एफ०), 2 अगस्त 1982।

नायब रिजालदार अजीत मिह रन्धावा (जे० सी० १९५७१ एफ०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब रिजालदार देविन्दर मिह (जे० सी० १०११६२ एफ०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब रिजालदार सुरजन मिह (जे० सी० १०११३४ एफ०), 2 सितम्बर, 1982।

नायब रिजालदार देव राज (जे० सी० ११०१३ एफ०), 10 सितम्बर, 1982।

नायब रिजालदार ह्रीणियार मिह (जे० सी० १०१७६८ एफ०), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब रिजालदार महान मिह चौहान (जे० सी० १२३२६ एफ०), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब रिजालदार जमपाल मिह सन्धू (जे० सी० १०११०५ एफ०) 1 अक्टूबर, 1982।

नायब रिजालदार मर्णा राम (जे० सी० १७१५८ एफ०) 8 अक्टूबर, 1982।

नायब रिजालदार नरसेन मिह (जे० सी० १५०९० एफ०), 1 नवम्बर 1982।

नायब रिजालदार रेशम मिह (जे० सी० १६६४३ एफ०), 1 नवम्बर 1982।

नायब रिजालदार नरान्दरपाल मिह श्रोत्रिण (जे० सी० १०१७५६ एफ०) 09 नवम्बर 1982।

नायब रिजालदार बदन मिह (जे० सी० १२८६१ एफ०), 1 दिसम्बर 1982।

नायब रिजालदार प्रियम मिह (जे० सी० १०१८१३ एफ०) 1 दिसम्बर, 1982।

नायब रिजालदार के. के. के.

रफादार कबीर मिह (जे० सी० १०१११३ एफ०) अक्टूबर 1982।

एम० सी० एम० राम मिह (जे० सी० १०१०२१६ एफ०) अक्टूबर 1982।

रफादार शशीधर नायर सी० (जे० सी० १३५५१७१ एफ०) अक्टूबर 1982।

रफादार सक्तर मिह (जे० सी० १०३९९६५ एफ०) अक्टूबर 1982।

एम० डी० एम० महावीर मिह (जे० सी० १०३७१२२ एफ०) अक्टूबर 1982।

एम० डी० एम० राज मिह (जे० सी० १०३१२४५ एफ०) अक्टूबर 1982।

एम० डी० एम० जीत मिह (जे० सी० १०४९१३२ एफ०) अक्टूबर 1982।

एम० डी० एम० सुरज मिह (जे० सी० ११५६५६४ एफ०) अक्टूबर 1982।

*(नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 नवम्बर, 1982 से दी जाएगी)।

रफादार पुरन चन्द (जे० सी० १०३५५१७ एफ०) अक्टूबर 1982।

रफादार सागर मल भागसाग (जे० सी० १०३५५३८ एफ०) अक्टूबर 1982।

एम० डी० एम० जीवन लाल (जे० सी० १०३३९१९ एफ०) अक्टूबर 1982।

** (नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर, 1982 से दी जाएगी)।

एम० डी० एम० डी० सुरसेज मिह (जे० सी० १०३९११८ एफ०) अक्टूबर 1982।

रफादार ओगिन्दर मिह (जे० सी० १०३५३१६ एफ०) अक्टूबर 1982।

*** (नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1982 से दी जाएगी)।

रफादार राम किशन (जे० सी० १०३५३७८ एफ०) अक्टूबर 1982।

एम० डी० एम० बलवार मिह (जे० सी० १०३९३३० एफ०) अक्टूबर 1982।

रफादार पयाल मिह (जे० सी० १०३६२७२ एफ०) अक्टूबर 1982।

(नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 दिसम्बर, 1982 से दी जाएगी)।

एम० डी० एम० डी० बशुधर मिह मेखीन (जे० सी० १०३९३५१ एफ०) अक्टूबर 1982।

रफादार (नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 दिसम्बर 1982 से दी जाएगी)।

रफादार जयपाल मिह (जे० सी० १०४०३९६ एफ०) अक्टूबर 1982।

एम० डी० एम० प्रहलाद मिह (जे० सी० १०३५९९६ एफ०) अक्टूबर 1982।

एम० डी० एम० रजिन्दर मिह (जे० सी० १३८११६३ एफ०) अक्टूबर 1982।

*(नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 1982 से दी जाएगी)।

एम० एम० एम० डी० सी० सी० पॉल (सं० 1033866 एन० अरब जे० सी० 132238 एन०), 1 जनवरी, 1983।

दफादार नाम सिंह (सं० 1035473 एन० अरब जे० सी० 132230 एन०), 1 जनवरी, 1983।

दफादार शिव कुमार सिंह (सं० 1038256 एन० अरब जे० सी० 132210 एन०)। 1 जनवरी, 1983।

दफादार मतवीर सिंह (सं० 1035562 एन० अरब जे० सी० 132211 एन०), 1 जनवरी, 1983।

एम० डी० एम० ईश्वर सिंह (सं० 1035926 एन० अरब जे० सी० 132242 एन०), 1 जनवरी, 1983।

एम० एम० एम० डी० ग्यान चन्द (सं० 1035506 एन० अरब जे० सी० 132243 एन०), 1 जनवरी, 1983।

दफादार फजले रसूल (सं० 1036666 ए० अरब जे० सी० 132244 डब्ल्यू०), 25 मार्च, 1983। × × ×

× × × (नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1983 से दी जाएगी)।

आर० डी० एम० नरोत्तम सिंह (सं० 1032490 एन० अरब जे० सी० 132245 वार्ड०), 3 फरवरी, 1983। =

= (नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1983 से दी जाएगी)।

एम० डी० एम० अमर नाथ गर्मा (सं० 1035767 एफ० अरब जे० सी० 132246 एफ०), 4 फरवरी, 1983।*

* (नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1983 से दी जाएगी)।

एम० डी० एम० बलदेव सिंह (सं० 1039918 एम० अरब जे० सी० 132247 के०), 12 जनवरी, 1983।

दफादार जोगिन्दर सिंह (सं० 1013141 वार्ड० अरब जे० सी० 132218 एम०), 17 जनवरी, 1983। =

× = (नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी, 1983 से दी जाएगी)।

दफादार फुल चन्द (सं० 1222360 डब्ल्यू० अरब जे० सी० 132240 पी०), 25 जनवरी, 1983।

दफादार कमर सिंह (सं० 1039231 एन० अरब जे० सी० 132250 के०), 1 फरवरी, 1983।

दफादार हरबीर सिंह (सं० 1041067 के० अरब जे० सी० 132251 एम०), 1 फरवरी, 1983।

आर० डी० एम० हाशियार सिंह हुडा (सं० 1034233 के० अरब जे० सी० 132252 पी०), 1 फरवरी, 1983।

एस० डी० एम० चरण सिंह (सं० 1036345 एक्स० अरब जे० सी० 132253 एक्स०), 2 फरवरी, 1983।

दफादार गजे सिंह (सं० 1036126 एफ० अरब जे० सी० 132254 ए०), 12 फरवरी, 1983।

दफादार रामबख्त सिंह तोमर (सं० 1035139 एम० अरब जे० सी० 132255 एन०), 20 फरवरी, 1983।

दफादार सुलतान सिंह (सं० 1037179 एम० अरब जे० सी० 132256 एन०), 12 अप्रैल, 1983। %

% (नायब रिजालदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी, 1983 से दी जाएगी)।

एम० एम० एम० डी० सुधीर राम (सं० 9207770 एम० अरब जे० सी० 132257 एन०), 1 मार्च, 1983।

आर० डी० एम० बाला वल्लभ (सं० 4149346 एफ० अरब जे० सी० 132258 डब्ल्यू०), 16 मार्च, 1983।

कोर आफ इजीनियरस

बंगाल इजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार भाधा चन्द (जे० सी० 54360 एन०), 1 नवम्बर, 1983।

सूबेदार निरमल सिंह (जे० सी० 45064 एक्स०) 1 नवम्बर, 1983

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार लदन सिंह (जे० सी० 106192 एन०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार कृमलाकर सिंह (जे० सी० 106186 ए०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह (जे० सी० 108152 एन०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार भगत सिंह (जे० सी० 105511 एन०), 1 नवम्बर, 1983

नायब सूबेदार श्रीम प्रकाश (जे० सी० 106193 डब्ल्यू०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार धनी राम (जे० सी० 105522 पी०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार अमृत लाल (जे० सी० 106190 एन०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार रसीला गर्म (जे० सी० 105514 डब्ल्यू०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी० 105506 एक्स०) 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार शांति रास (जे० सी० 108148 एन०) 1 नवम्बर, 1983।

सूबेदार (क्वॉर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार कर्क पण्डित राज सिंह (जे० सी० 90923 वार्ड०) 1 नवम्बर, 1983।

सूबेदार मेजर (क्वॉर्क) के रूप में

सूबेदार कर्क लख राज (जे० सी० 48708 एन०), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी० 106187 एन०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार हिम्मत सिंह (जे० सी० 106180 वार्ड०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार चन्द्र देव सिंह (जे० सी० 105521 एम०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार मदन साहन (जे० सी० 116365 एन०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार दरशन सिंह (जे० सी० 106177 वार्ड०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार राम मिश्रभक्तनी (जे० सी० 105518 एम०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार देवकी नन्दन सिंह (जे० सी० 106189 एन०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार विश्वनाथ सिंह (जे० सी० 105509 एन०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी० 108154 डब्ल्यू०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार गुलजारी खान (जे० सी० 105523 एफ०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र (जे० सी० 108973 ए०), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क गुलजांग सिंह (जे० सी० 83150 एम०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार क्लर्क अपाकान भरोली (जे० सी० 84608 एम०), 1 अक्टूबर, 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी० 55317 पी०), 1 अगस्त, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क विहू शोत (जे० सी० 82433 एफ०), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार मुख्तियार सिंह (जे० सी० 105500 डब्ल्यू०), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी० 105517 के०), 1 अगस्त, 1983।

नायब सूबेदार क्लर्क शशीर सिंह (जे० सी० 106179 के०), 1 अगस्त, 1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क मोहन सिंह शान बिष्ट (जे० सी० 69147 एफ०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार क्लर्क मोहन राम (जे० सी० 43757 डब्ल्यू०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क मिबा प्रसाद पी० (जे० सी० 88409 एफ०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार क्लर्क (स्टोर) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क स्टोर अमरीक सिंह (जे० सी० 72537 पी०), 1 जुलाई, 1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क हरभजन सिंह पाहड़ (जे० सी० 51838 एम०), 1 मई, 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क उमेश चन्द्र त्रिपाठी (जे० सी० 89839 एम०), 1 मई, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गुलजारी लाल (जे० सी० 99534 एल०), 1 मई, 1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क शीथ सिंह (जे० सी० 48666 डब्ल्यू०), 1 जून, 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सत पाल (जे० सी० 88888 ए०), 1 जून, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम प्रसाद (जे० सी० 99542 के०), 1 जून, 1983।

नायब सूबेदार सत्या राम सिंह (जे० सी० 106185 एम०), 1 जून, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सीता राम (जे० सी० 108151 एच०), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार राममोहन सिंह (जे० सी० 105513 एन०), 1 सितम्बर, 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क दरशन सिंह (जे० सी० 89376 एन०), 1 सितम्बर, 1983।

नायब सूबेदार क्लर्क राम प्रसाद नौदियाल (जे० सी० 63084 एन०), 2 सितम्बर, 1983।

बम्बई इन्जिनियर सुप

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार सीताराम सूबे (जे० सी० 13834 ए०), 1 नवम्बर, 1982।

सूबेदार यशकल मिहू नेगी (जे० सी० 33665 डब्ल्यू०), 1 दिसम्बर, 1982।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार लक्ष्मीराम शर्मा (जे० सी० 43767 ए०), 1 जून, 1982।

सूबेदार मुख्तियार सिंह (जे० सी० 51184 एम०), 1 अक्टूबर, 1982।

सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी० 77782 एल०), 31 जनवरी, 1983।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार मेवा सिंह (जे० सी० 79233 ए०), 1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार राम गोपाल (जे० सी० 90408 एम०), 1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार गरीब सिंह (जे० सी० 92470 एच०), 1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार प्रह्लाद घोंगड़े (जे० सी० 94507 एम०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार अजीत मिहू (जे० सी० 99832 एच०), 01 फरवरी, 1973।

नायब सूबेदार सुवम उत्तकर (जे० सी० 96977 एफ०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह बिष्ट (जे० सी० 91757 एन०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार सदानन्द पी० पी० (जे० सी० 93072 एन०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार पाल सिंह (जे० सी० 91796 एम०), 1 जून, 1983।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार यशकल कोमे (जे० सी० 76873 के०), 1 जुलाई, 1982।

नायब सूबेदार डुर्ग सिंह (जे० सी० 95188 एन०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जे० सी० 95186 एम०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार रोंशन सिंह (जे० सी० 78408 एल०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार चिमनाभट जोशी (जे० सी० 93202 एन०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार नागत्यण देसाई (जे० सी० 93068 एल०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार रिजावानउल्लाह अम्मारी (जे० सी० 93075 एल०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जे० सी० 90307 के०), 19 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी० 94505 एम०), 1 जून, 1983।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जे० सी० 95201 एफ०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार भगवान पाटिल (जे० सी० 95202 के०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार बबन सुर्जे (जे० सी० 95203 एम०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार रामराज मोटे (जे० सी० 95187 ए०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार शान्तराम कदम (जे० सी० 95178 बाई०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार भानन्दा जगताप (जे० सी० 95180 डब्ल्यू०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार मोहम्मद अमीन (जे० सी० 95181 बाई०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार बाबु लाल (जे० सी० 93122 एन०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार सुवर्षान कुमार शरोरा (जे० सी० 93076 के०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार प्रभाकर सूर्यवंशी (जे० सी० 93078 पी०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार भाग सिंह (जे० सी० 90308 एम०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार नरहर सिंह (जे० सी० 94010 ए०), 1 जून, 1983।

सूबेदार (ग्रन्थी आर० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जे० सी० 44950 पी०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जे० सी० 46372 के०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार गुरवीण सिंह (जे० सी० 45167 डब्ल्यू०), 1 मई, 1983।

सूबेदार (पंडित आर० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार अशोक सासने (जे० सी० 44451 ए०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार मधुकर मोरे (जे० सी० 46595 एल०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार राजाराम शिन्दे (जे० सी० 48048 एल०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार रामचन्द्रा भीरधने (जे० सी० 46597 एम०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार विठल जूगर (जे० सी० 48847 एफ०), 1 मई, 1983।

भद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क आर० सन्जीवा (जे० सी० 59590 एफ०), 1 मई, 1983।

सूबेदार मेजर (एस० के० टी०) के रैंक में

सूबेदार एस० के० टी० शिवानु वेनुस्वामी (जे० सी० 72890 एफ०), 1 सितम्बर, 1982।

सूबेदार एस० के० टी० गंगाधरन भरथन (जे० सी० 77074 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क गुरु जोसफ मनोहर (जे० सी० 84059 एच०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क राजाशम्भन (जे० सी० 84609 ए०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क कृष्णकाट्टिल राधाकृष्णन (जे० सी० 86373 पी०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार क्लर्क बेल माधवन पिल्लै (जे० सी० 84583 डब्ल्यू०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार क्लर्क कीन्धु चिन्मय्या (जे० सी० 86364 एन०), 1 मार्च, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार एम० नवशीलन (जे० सी० 92440 एल०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार पी० शास्त्रनम (जे० सी० 92412 बाई०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार के० सी० चिदम्बरम (जे० सी० 92413 एफ०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार गणेश (जे० सी० 92415 एम०), 1 मई, 1983।

नायब सूबेदार नटेश पाण्डुरंगम (जे० सी० 94546 डब्ल्यू०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार कुप्पम पडबट्टम कण्णन (जे० सी० 94531 एन०), 1 जनवरी, 1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्कपी० एन० गोपालन (जे० सी० 50906 एफ०), 1 जनवरी, 1983।

सूबेदार क्लर्क एन्नाहा बी० पी० (जे० सी० 49643 एफ०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार क्लर्क तायप्पगोपालराजू (जे० सी० 50908 एम०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार क्लर्क ए० प्रभाकरन तम्बी (जे० सी० 50909 पी०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार क्लर्क जी० गोविन्दराजू (जे० सी० 50913 एक्स०), 1 मार्च, 1983।

सूबेदार क्लर्क एस० गोपालकृष्णन नायर (जे० सी० 69145 डब्ल्यू०), 1 मार्च, 1983।

सूबेदार क्लर्क पानियप्पन कुरुप्पणन (जे० सी० 70973 एन०), 1 मार्च, 1983।

सूबेदार क्लर्क चन्द्रशेखरन नायर पुलिमुखल्लत्तु रामन नायर (जे० सी० 70501 एक्स०), 1 मार्च, 1983।

सूबेदार क्लर्क एस० सुब्रमणियम (जे० सी० 57313 एक्स०), 1 अप्रैल, 1983।

सूबेदार क्लर्क चन्द्रशेखर कयामल (जे० सी० 59362 बाई०), 1 अप्रैल, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार माणिक्यम मरियासेल्वम (जे० सी० 92312 एन०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अरुलनन्दम मरियादास (जे० सी० 92313 डब्ल्यू०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार आर० बालकृष्णन (जे० सी० 69930 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार एस० संकराज (जे० सी० 79697 एक्स०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार एसक कासीम (जे० सी० 92316 के०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सुन्दर राज जयपाल (जे० सी० 92886 ए०), 1 जून, 1983।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) भुरखीदरन (जे० सी० 83668 ए०), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) तनारी अन्जनेशन (जे० सी० 84987 एम०), 14 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) वीमध्य नरमण (जे० सी० 86727 एम०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) नानकण्णस बिद्यादन (जे० सी० 86731 पी०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) गुरुस्वामी कुस्तुपुस्वामी (जे० सी० 86349 वाई०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) कल्प्या योग्या राहियार (जे० सी० 86366 वाई०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) गडिपति उमामहेश्वर राऊ (जे० सी० 84576 ए०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) पीनुस्वामी चेदियार श्रीनिवासन (जे० सी० 85557 एफ०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) कुन्जु कुरण पिल्लै (जे० सी० 86654 एल०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) एम० वी० राऊ (जे० सी० 84571 पी०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) नागप्प सीदप्प कुम्बर (जे० सी० 84578 एम०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) राजशेखरन नायर (जे० सी० 86647 पी०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) मुरुगेशन कण्णन (जे० सी० 86651 एफ०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) बुनिर्याल श्रादरन (जे० सी० 86657 एम०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) राखवन पवित्रन (जे० सी० 86648 एम०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) तिनकल पडिन्ट्टित्तिल वेलापुधन गोपालन पिल्लै (जे० सी० 84610 पी०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) मणिकत्तु मोहन (जे० सी० 86998 के०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) निराककुथिल दंबस्य चाक्की (जे० सी० 86732 एफ०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) धामुदेवन पिल्लै शिवरामन पिल्लै (जे० सी० 84616 डब्ल्यू०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) वामोदरन वेदुत्तिल ककुन्नु पडिन्जारतिल कुट्टी (जे० सी० 86659 के०), 1 फरवरी, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) तिरवीतुल मलय वेक्कट्टु सुब्बाराऊ (जे० सी० 86652 ए०), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) शीर रत्नम (जे० सी० 86374 एफ०), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) बाण्टल सुरिय चन्द्र राऊ (जे० सी० 86991 ए०), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) नचुक्कुल सेनीदर रेड्डी (जे० सी० 86661 पी०), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) देवगाह गोण्डर कृष्णवामी (जे० सी० 86360 एफ०), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) अर्पाकुट्टी गोपाल (जे० सी० 86352 वाई०), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) शफरन पणिकर नागण्णन (जे० सी० 87001 के०), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) तक्केलु सीन्दर मूर्ति (जे० सी० 88408 वाई०), 1 मार्च, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) कट्टुकाणी पिम्बैय्या (जे० सी० 86730 एम०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) पेरुमालप्पट्टी गुच्चैया नाईक्कर वेनगाय (जे० सी० 86996 वाई०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) सुब्बैय्य अय्यालुस्वामी (जे० सी० 84611 के०), 1 अप्रैल, 1983।

नायब सूबेदार (क्लर्क) पौनानगी वेनकट्टु सत्यनारायण राऊ (जे० सी० 86983 एफ०), 1 अप्रैल, 1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क एम० प्रभाकरन नायर (जे० सी० 34232 एल०), 1 नवम्बर, 1982।

सूबेदार क्लर्क चाक्का पी० सी० (जे० सी० 69169 ए०), 13 नवम्बर, 1982।

• सूबेदार एम० के० टी० के रैंक में

नायब सूबेदार एम० के० टी० आर० बक्रवाणी (जे० सी० 72639 एल०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार एम० के० टी० ए० वेनुस्वामी (जे० सी० 72890 एफ०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार एम० के० टी० जी० भरदन (जे० सी० 77074 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अलफानस डि० मोसा (जे० सी० 92318 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मधुरे मुनु बालकृष्णन (जे० सी० 92311 एल०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मुनीस्वामी मनड्डी वेन्कट्टुमुनी (जे० सी० 94529 डब्ल्यू०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार एन० रामचन्द्रन (जे० सी० 76814 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार ए० पमिथनाथन (जे० सी० 86206 वाई०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार एम० केशवन प्रकाशम (जे० सी० 87083 के०), 6 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार वीरस्वामी कण्णैय्य ए० एम० (जे० सी० 92314 वाई०), 6 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार चाकोल पालम माल्थु (जे० सी० 92315 एफ०), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार देवसगायम फासिम (जे० सी० 93998 एम०), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार अश्वनाथ (जें० सी० 92409 वाई०), 1 नवम्बर, 1982।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क पैरुमाळ कृष्णाम्बामी (जें० सी० 79699 वाई०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क पी० के० गोपी (जें० सी० 93097 एम०), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क सी० टी० सुधाकाम (जें० सी० 91099 ए०), 1 अक्टूबर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क गिजन पिल्लै परमेश्वरन (जें० सी० 85556 वाई०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क रामरामन जे० (जें० सी० 96696 डब्ल्यू०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क स्वामीयाडियन एण्डाम (जें० सी० 84607 पी०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क पीडिकार्डिन वरुणाकरन विथननाथन (जें० सी० 86988 ए०), 13 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क पडियार कृष्ण पिल्लै गोपालकृष्णन नायर (जें० सी० 83862 पी०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क रंगस्वामी शारण्य नार्दकर सुब्बराज (जें० सी० 86361 ए०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क रेड्डी नागराज (जें० सी० 86643 एम०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क गणपती तम्मैथ्य (जें० सी० 86377 एल०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क तंगमस एन्ना चेल्लापट्टुरै (जें० सी० 86355 एम०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क वामु रत्नकमल (जें० सी० 86997 एफ०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार क्लर्क अश्वुथ लैक्कन अली खान (जें० सी० 86350 एन०), 21 दिसम्बर, 1982।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार एन० बीरम्बामी (जें० सी० 70770 के०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार जी० कल्याण (जें० सी० 85522 एन०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार संकरनागरयणन नारकाट हाउस संकरनागरयणन (जें० सी० 86205 डब्ल्यू०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार स्वामिय्यादियन राम्बन (जें० सी० 87075 एन०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार के० महानिगम (जें० सी० 57115 एम०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार परमेश्वर गोविन्दन (जें० सी० 92308 एल०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार विद्यापत रामनमुद्दी (जें० सी० 92309 एन०), 1 अगस्त, 1982।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) सुन्दरम कन्धम्बामी (जें० सी० 82329 एन०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) चेल्लय गणपती (जें० सी० 71070 एन०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) एमपैरुमाळ नागरयणम्बामी (जें० सी० 78509 ए०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) कौचुमटनिल अश्वपत नायर वल्लभ नायर (जें० सी० 79874 ए०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) राधाकृष्णम सी० (जें० सी० 53624 एन०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) ए० अलगरस्वामी (जें० सी० 63072 वाई०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) नट्ट यथिपरम्पीन अगर्स्टी प्रोसफ (जें० सी० 66969 एन०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) रामकृष्ण नायर पि० एम० (जें० सी० 66970 एन०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) माल्यु जेक्कड (जें० सी० 69864 पी०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार (क्लर्क) मुत्कर चन्द्रमोक्षर गज (जें० सी० 86724 वाई०), 1 अगस्त, 1982।

नायब सूबेदार एम० के० टी० ए० अप्पुकुट्टन नायर (जें० सी० 97020 पी०), 1 अगस्त, 1982।

एम० ई० एन० मिनट्टी कैडर

(सूबेदार मेजर के रैंक में)

सूबेदार श्रीनिवासन थिरुवेनगाडम (जें० सी० 40381 डब्ल्यू०), 1 नवम्बर, 1981।

सूबेदार कोचू पिल्लै अचारी मन्करन अचारी (जें० सी० 32774 डब्ल्यू०), 4 फरवरी, 1982।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरमोतिन्दर मिह पुरी (जें० सी० 51860 एन०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राजिन्दर पाल सिंह (जें० सी० 51870 ए०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार होलाम्बी तगयनागव कृष्णामति (जें० सी० 54121 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सी० एच० श्याम गव (जें० सी० 54365 एन०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार पी० एम० कृष्णामामी (जें० सी० 64233 एन०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार विन्देश्वरी निवारि (जें० सी० 64943 ए०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार श्री राम उधव नागपुरदार (जें० सी० 65599 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अर्जुन मिह (जें० सी० 64332 एन०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अमर मिह बाण (जें० सी० 69199 एन०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार गोविन्दर मिह (जें० सी० 69205 वाई०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार विकरम मिह रावत (जें० सी० 71520 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मन्वीर सिंह (जे० सी० 74170 एफ०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार विभाषण वेनकटेशन (जे० सी० 74898 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मुञ्जयार सिंह (जे० सी० 79250 ए०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मन्वीरल पुनवान भास्करन (जे० सी० 80453 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राजा राम पाण्डे (जे० सी० 79246 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रामागिरी सुब्रह्मण्य राज अर्स सुब्बाकृष्ण अर्स (जे० सी० 48407 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रमेश चन्द बाघबा (जे० सी० 51414 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार पेरी चेरला नरायणा राजू (जे० सी० 54355 वाई०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार जोह्न पी० पी० (जे० सी० 53711 एफ०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सुरेश कुमार सिंह (जे० सी० 54350 ए०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राजीव के० पी० (जे० सी० 62233 के०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार एन्टोनी ए० कोचरी (जे० सी० 64237 वाई०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राजेश्वर सिंह बिस्ट (जे० सी० 65608 एक्स०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार पी० सी० बेरियन (जे० सी० 65608 एक्स०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार कडाबा केमावा मुरथी गोपीनाथ (जे० सी० 65023 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मुकनजीराथ गोपाला फिल्स पारथामारथी फिल्स (जे० सी० 68905 एफ०) 1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार गुरबक्श सिंह (जे० सी० 74179 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार नारायणन कारथा बालाकृष्णन नायर (जे० सी० 76167 एक्स०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार कुमायूली पामगन गोपालन (जे० सी० 42452 के०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार गोपी चन्द (जे० सी० 44104 एफ०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सैयद महबूब सैयद अब्दुल सलीम (जे० सी० 54887 वाई०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार शमास्वामी रघुपाथी (जे० सी० 57555 ए०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रामाकृष्णन सी० वी० (जे० सी० 61108 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अशोक कुमार सोननी (जे० सी० 65610 ए०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार ओगिम्बर सिंह (जे० सी० 64307 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार के० जे० चक्रवर्तय विन्नी (जे० सी० 63880 ए०) 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार कुम्भुमन (जे० सी० 64764 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जे० सी० 74178 एल०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार बिमालीमल कडाथमडान कुमारन (जे० सी० 76157 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार पीम गिह (जे० सी० 68302 एम०), 1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार शास्त्रीमय घोष (जे० सी० 77744 के०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रेशम सिंह (जे० सी० 79284 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मन्तोष सिंह (जे० सी० 82310 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार जेम्स जेवियन (जे० सी० 81481 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार लक्ष्मन सिंह (जे० सी० 81499 एल०), 27 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार बिज मोहन पन्त (जे० सी० 81833 एफ०) 27 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार एम० जी० कुम्बर (जे० सी० 60779 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार जेकीव के० पी० (जे० सी० 79932 एल०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रमास्वामी धरमगुम (जे० सी० 79311 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अण्णाकुट्टी चन्नासेकरन (जे० सी० 79946 एल०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सेन्टीगो इगन सीमूथू (जे० सी० 80175 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार टाटापुडी सुब्रह्मण्यम मन्गारवि (जे० सी० 54079 एफ०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रोम्ड मल (जे० सी० 66668 के०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार भूपिन्दर सिंह नाह (जे० सी० 65828 एम०) 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार भरवत कुमार अर्मा (जे० सी० 65829 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हरजीत सिंह भाटिया (जे० सी० 65831 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सातावीन सादव (जे० सी० 66671 के०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार मरुजन सिंह कश्य (जे० सी० 65832 पी०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार सुब्रह्मण्य राज चन्द (जे० सी० 65831 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अरूप सिंह दत्त (जे० सी० 65836 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह बन्सुना (जे० सी० 65837 एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार विपेस्वामी (जे० सी० 65791 इन्डू०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार एम० ए० इकबाल अहमद (जे० सी० 65793 एफ०),
1 सितम्बर, 1 821

नायब सूबेदार एम० नारायणन (जे० सी० 65796 पी०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार एस० एच० अलावती (जे० सी० 65797 एफ०), 1
सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार श्रीधर बिन्दूराव कुलकर्णी (जे० सी० 65799 एच०),
1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार रामा कृष्णा (जे० सी० 65800 एम०)
01 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार जेम्स मोथा (जे० सी० 65403 एन०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार नाथा सिंह (जे० सी० 65399 डब्ल्यू०), 1 सितम्बर, 1982

नायब सूबेदार पराकुय पेडि नजोर माधुम रामचन्द्रन (जे० सी० 66350
एम०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार पोटलूरी वीराय (जे० सी० 66353 ए०), 1 सितम्बर
1982।

नायब सूबेदार रोशनसिंह (जे० सी० 68930 ए०), 1 सितम्बर, 1982,

नायब सूबेदार के० जनार्दन भट्ट (जे० सी० 74533 एफ०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार अरसेन सिंह (जे० सी० 76177 एफ०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार दौलत राम (जे० सी० 76178 के०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार केनेरी कुम्हीरमन (जे० सी० 76375 एम०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार वाधारनकिल प्रभाकरन नायर (जे० सी० 76180 एफ०),
1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी० 79130 एफ०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार के० के० नायर (जे० सी० 79138 एन०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार नारायण दत्त लेखक (जे० सी० 78896 आई०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जे० सी० 79895 डब्ल्यू०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार भयन सिंह गिल्ल (जे० सी० 78946 आई०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार बलराम जिपठी (जे० सी० 79908 पी०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जे० सी० 78939 एच०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार गुरदयालसिंह (जे० सी० 78932 आई०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार राजेश्वर कुमार (जे० सी० 79910 एम०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार इन्द्राज सिंह (जे० सी० 79164 पी०), 1 सितम्बर,
1982।

6-54 GI/84

नायब सूबेदार पप्पु नारायणन चेटियर (जे० सी०-64314 एच०)
01 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार इरुलुपाबा चाथा सेखरन भायर (जे० सी०-79280
एफ०) 03 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार सरजीत सिंह (जे० सी० 80153 पी०), 20 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार समर सिंह नाहर (जे० सी० 79271 डब्ल्यू०), 25 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार रामजी सिंह (जे० सी० 79905 एफ०), 23 जनवरी,
1983।

नायब सूबेदार एम० राधीनम (जे० सी० 47546 एच०), 1 जून, 1982।

नायब सूबेदार यू० आनन्दा (जे० सी० 49841 डब्ल्यू०), 1 जून,
1982।

नायब सूबेदार विसवानाथ बैनरजी (जे० सी० 57973 पी०), 1 जून,
1982।

नायब सूबेदार जाम खन्द (जे० सी० 57974 एफ०) 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार पिताम्बर दत्त (जे० सी० 57972 एम०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार मोहिनंदर सिंह (जे० सी० 59570 एम०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार मोहिनंदर सिंह (जे० सी० 62525 एम०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार फ्रांसिस के० वा० (जे० सी० 62527 एफ०), 1 सितम्बर
1982।

नायब सूबेदार पी० रघुपाथीअराव (जे० सी० 62526 पी०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार एष्टोनी मरवाय अरपुवास्वामी (जे० सी० 63074 के०),
1 सितम्बर 1982।

नायब सूबेदार कुमार घास ए० (जे० सी० 49844 के०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार एन० बी० राजागोपान (जे० सी० 57322 आई०),
1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हरदयाल सिंह (जे० सी० 79255 आई०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार चन्द्रा कान्त घोसरे (जे० सी० 51458 एम०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार नरेन्द्रा कुमारपन्त (जे० सी० 69616 आई०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार राजिन्द्र नाथ शम्भार (जे० सी० 64969 पी०),
1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार नारायणन अयासी (जे० सी० 65839 एच०), 1 सितम्बर,
1982।

नायब सूबेदार सत्येन्द्र नारायण सक्सेना (जे० सी० 66670 ए०), 1
सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार डोन्डा भक्तनी वैनकट दुर्गा प्रसन्न राव (जे० सी०
65817 ए०), 1 सितम्बर, 1982।

नायब सूबेदार शशीप सिंह (जे० सी० 68314 ए०), 1 सितम्बर, 1982

नायब सूबेदार ओल्लारिकट गोविन्दा केमल विजयन (जे० सी० 79904
वाई०), 1 सितम्बर, 1982 ।

नायब सूबेदार अथिनिकट उन्नीहृष्णन नायर (जे० सी० 79936 एफ०),
1 सितम्बर, 1982 ।

नायब सूबेदार वेयापुरी बेनकटाचालम (जे० सी० 80140 एफ०),
1 सितम्बर, 1982 ।

नायब सूबेदार नारायना पानीकर रबीन्द्रा शर्मा (जे० सी० 88375
वाई०), 27 सितम्बर, 1982 ।

नायब सूबेदार राम कुमार चौधरी (जे० सी० 65833 एफ०), 1
सितम्बर, 1982 ।

नायब सूबेदार बलभीम मगर (जे० सी० 77566 एन०), 1 सितम्बर,
1982 ।

नायब सूबेदार हरदेव सिंह चौहान (जे० सी० 76199 ए०), 1 सितम्बर,
1982 ।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश मांगी (जे० सी० 78936 पी०), 1 सितम्बर,
1982 ।

नायब सूबेदार बख्तौवर सिंह सांघा (जे० सी० 82315 एन०), 27
सितम्बर, 1982 ।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी० 80132 वाई०), 1 सितम्बर,
1982 ।

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हरी सिंह (जे० सी० 60680), 1 अगस्त, 1983 ।

सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी० 54264), 1 अगस्त, 1983 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दीवान चन्द (जे० सी० 88257 एन०), 1 जून, 1983 ।

नायब सूबेदार धर्म चन्द (जे० सी० 88341 एन०), 1 जुलाई, 1983 ।

नायब सूबेदार श्री नाथ (जे० सी० 88347 एन०), 1 जुलाई, 1983 ।

नायब सूबेदार मरवल लाल (जे० सी० 88391 डब्ल्यू०), 1 जुलाई,
1983 ।

नायब सूबेदार घयानता शिपाडे (जे० सी० 89967 पी०), 1 अगस्त,
1983 ।

नायब सूबेदार सुरजत सिंह (जे० सी० 89471 ए०), 1 अगस्त, 1983 ।

नायब सूबेदार किरपाल सिंह (जे० सी० 90336 वाई०), 1 अगस्त,
1983 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हरफूल सिंह (जे० सी० 75238), 1 मार्च, 1983 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गाधू राम (जे० सी० 85862), 1 फरवरी, 1983 ।

नायब सूबेदार दौलत सिंह (जे० सी० 85867), 1 फरवरी, 1983 ।

नायब सूबेदार राम चरित्र सिंह (जे० सी० 85871), 1 फरवरी, 1983 ।

नायब सूबेदार पी० साधयन (जे० सी० 86491 एच०), 1 मार्च, 1983 ।

नायब सूबेदार ए० कृष्णा मूर्ति (जे० सी० 86615 एम०), 1 मार्च,
1983 ।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक: महावीर सिंह (जे० सी० 93960 एच०), 1
फरवरी, 1983 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लक्षमन राम (जे० सी० 79465), 1 अप्रैल, 1983 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भारतान्द मिन्डे (जे० सी० 87201 एम०), 1 मई, 1983 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मम्पूरण सिंह (जे० सी० 85906), 1 अगस्त, 1983 ।

सूबेदार मुखदेव सिंह गुदंग (जे० सी० 86571 ए०), 1 सितम्बर, 1983 ।

सूबेदार नामदेव रावन (जे० सी० 57656), 1 अक्टूबर, 1983 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भामन सिंह (जे० सी० 93804), 1 अगस्त, 1983 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी० 92842 एच०), 1 सितम्बर,
1983 ।

नायब सूबेदार प्रमादी सिंह (जे० सी० 93954 पी०), 1 सितम्बर,
1983 ।

नायब सूबेदार इब्राहीम खान (जे० सी० 34045), 1 सितम्बर, 1983 ।

नायब सूबेदार उधम सिंह (जे० सी० 50214), 1 सितम्बर, 1983 ।

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जे० सी० 72625), 1 सितम्बर, 1983 ।

नायब सूबेदार बौके बिहारी सिंह (जे० सी० 54633), 1 अक्टूबर, 1983 ।

नायब सूबेदार मवरन सिंह (जे० सी० 48909), 1 अक्टूबर, 1983 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार एन० श्रीधरन (जे० सी० 81324), 1 जुलाई, 1981 ।

नायब सूबेदार रानी सिंह (जे० सी० 91679 एफ०), 1 जुलाई, 1982 ।

नायब सूबेदार नरेन्द्र बहादुर सिंह (जे० सी० 71989), 1 नवम्बर,
1982 ।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक प्रथम प्रकाश अतिनहोत्री (जे० सी० 93961
एन०), 1 अगस्त, 1983 ।

नायब सूबेदार लिपिक जेनेया मेन्वारज (जे० सी० 93946 डब्ल्यू०),
1 सितम्बर, 1983 ।

सैनिक शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जसबन्त सिंह (जे० सी० 58641 एम०), 1 नवम्बर, 1983 ।

सूबेदार अबामाहेब भोंगले (जे० सी० 58917 एच०), 1 नवम्बर,
1983 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सत्य नारायण खिपाठी (जे० सी० 92738 पी०), 1 जुलाई,
1983 ।

नायब सूबेदार जोगिन्दर पाल शर्मा (जे० सी० 89194 ए०), 1 अगस्त,
1983 ।*

* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना अनुमानित स्पेडला
1 अप्रैल, 1982 से ही जाएगी) ।

नायब सूबेदार घन सिंह (जे० सी० 93351 वाई०), 1 अगस्त, 1983 ।

नायब सूबेदार शिव करण सिंह चौहान (जे० सी० 91882 एम०),
1 अगस्त, 1983 ।

नायब सूबेदार श्री भूषण मिश्रा (जे० सी० 92727 एच०), 1 अगस्त,
1983 ।

नायब सूबेदार रवीन्द्र सिंह सोलंकी (जे० सी० 93341 पी०), 1 अगस्त,
1983 ।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी० 93354 एम०), 1 दिसम्बर, 1983।

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी० 92728 एल०), 1 दिसम्बर, 1983।

नायब सूबेदार मोहन चन्द्र पाण्डे (जे० सी० 93353 के०), 6 दिसम्बर, 1983।

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जे० सी० 95717 के०), 27 दिसम्बर, 1983।

नायब सूबेदार मतीश चन्द्र जोशी (जे० सी० 93340 एम०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार केशर प्रसाद झा (जे० सी० 93913 एल०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार राधे मोहन मिश्रा (जे० सी० 92739 एम०), 1 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार राम जनम सिंह (जे० सी० 92740 एम०), 11 अक्टूबर, 1983।

नायब सूबेदार जगदीश सिंह तोमर (जे० सी० 95445 पी०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार घनश्याम दाम (जे० सी० 92736 के०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार भुवन चन्द्र जोशी (जे० सी० 93342 एम०), 1 नवम्बर, 1983।

नायब सूबेदार मुन्ना सिंह भदौरिया (जे० सी० 93357 ए०), 1 नवम्बर, 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लोक मणी शर्मा (जे० सी० 55560 एन०), 1 नवम्बर, 1982।

सूबेदार राज कुमार मेहता (जे० सी० 55971 एल०), 4 नवम्बर, 1982।

सूबेदार मुद्गेशन प्रसाद प्रवाह (जे० सी० 56506 एल०), 1 दिसम्बर, 1982।

सूबेदार तुंग नाथ शुक्ला (जे० सी० 58360 एफ०), 1 जनवरी, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विष्णु प्रसाद खन्ना (जे० सी० 90381 एल०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी० 94399 आई०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार बुली राम (जे० सी० 95715 आई०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार लाल बचन यादव (जे० सी० 95443 के०), 1 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हीर सिंह (जे० सी० 90383 डब्ल्यू०), 4 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार कान्ति प्रसाद शर्मा (जे० सी० 95712 एल०), 20 नवम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हजूरदा सिंह (जे० सी० 91693 एन०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार गणेशी लाल शर्मा (जे० सी० 92745 एन०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार राज कुमार सिंह मदन (जे० सी० 91694 डब्ल्यू०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार कर्म सिंह (जे० सी० 90384 आई०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह जस्पर (जे० सी० 93339 एम०), 1 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जे० सी० 91695 आई०), 22 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार अशुभन (जे० सी० 91878 पी०), 22 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार हेम राज दत्त (जे० सी० 93345 एल०), 22 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार उदय राम (जे० सी० 91696 एफ०), 24 दिसम्बर, 1982।

नायब सूबेदार प्रभु दयाल (जे० सी० 93348 आई०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार हरबंस सिंह विक्रं (जे० सी० 96335 एम०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश त्यागी (जे० सी० 93912 एच०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार हरदयाल सिंह (जे० सी० 91880 एम०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश शर्मा (जे० सी० 93792 पी०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार चन्द्र प्रकाश गौतम (जे० सी० 93347 डब्ल्यू०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार अन्नपाल सिंह चौहान (जे० सी० 91691 एच०), 1 जनवरी, 1983।

नायब सूबेदार दर्शन राम (जे० सी० 90879 एम०), 7 जनवरी, 1983।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लायक सिंह (जे० सी० 56507 एन०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार उमा शंकर तिवारी (जे० सी० 56508 डब्ल्यू०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार भाव गोविन्द शर्मा (जे० सी० 58359 एम०), 1 फरवरी, 1983।

सूबेदार पदम घर दीक्षित (जे० सी० 58361 के०), 1 अप्रैल, 1983।

सूबेदार मुकुन्द राम ध्यानी (जे० सी० 58191 एल०), 1 मई, 1983।

सूबेदार मन्मथ लाल (जे० सी० 56514 के०), 1 जून, 1983।

सूबेदार मनोरम शर्मा (जे० सी० 58354 एन०), 1 जून, 1983।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शंकर सिंह खिरवार (जे० सी० 93346 एन०), 1 फरवरी, 1983।*

* (सूबेदार के रैंक में वेतन और सत्तों पर प्रभाव डाले बिना अनुमानित अद्येष्ठता 1 जनवरी, 1983 से ही जाएगी)।

- नायब सूबेदार रमा शंकर (जे० सी० 93794 ए०), 1 फरवरी, 1983 ।
 नायब सूबेदार राम बाबू (जे० सी० 93795 ए०), 1 फरवरी, 1983 ।
 नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जे० सी० 93797 ए०), 24 फरवरी, 1983 ।
 नायब सूबेदार कुंवर पाल सिंह पुंडीर (जे० सी० 91884 ए०), 1 मार्च, 1983 ।
 नायब सूबेदार संत लाल (जे० सी० 91883 ए०), 1 मार्च, 1983 ।
 नायब सूबेदार कीवान सिंह (जे० सी० 93349 ए०), 1 अप्रैल, 1983 ।
 नायब सूबेदार चंद्रिका प्रसाद सिंह (जे० सी० 99906 ए०), 1 मई 1983 ।
 नायब सूबेदार भुकट बिहारी (जे० सी० 93350 डब्ल्यू०), 1 जून, 1983 ।
 नायब सूबेदार हुकम सिंह (जे० सी० 93798 डब्ल्यू०), 1 जून, 1983 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

- सूबेदार सतेन्द्र कुमार मल्होत्रा (जे० सी० 58189 ए०), 1 अगस्त, 1983 ।
 सूबेदार जसबन्त सिंह (जे० सी० 58355 डब्ल्यू०), 1 अगस्त, 1983 ।
 सूबेदार देवी दयाल शतुर्वेदी (जे० सी० 58190 ए०), 1 अगस्त, 1983 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

- हवलदार थोमस के० टी० (सं० 9504065 ए०) अब जे० सी० 129333 के०), 9 सितम्बर, 1982 ।*
 हवलदार संत राज (सं० 9504127 डब्ल्यू० अब जे० सी० 129334 ए०), 26 सितम्बर, 1982 ।*
 * (नायब सूबेदार के रैंक में धेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई, 1982 से दी जाएगी) ।
 हवलदार भवन मोहन अस्तीरी (सं० 9504339 ए० अब जे० सी० 129335 पी०), 5 दिसम्बर, 1982 ।
 हवलदार अमर देव सिंह (सं० 9504351 ए० अब जे० सी० 129336 ए०), 5 दिसम्बर, 1982 ।
 हवलदार पद्मनाभन चन्द्रशेखरन पिल्लै (सं० 9504246 ए० अब जे० सी० 129337 ए०), 7 दिसम्बर, 1982 ।**
 हवलदार नरेन्द्र नाथ गोस्वामी (सं० 9504270 ए० अब जे० सी० 129338 ए०), 8 दिसम्बर, 1982 ।**
 हवलदार ध्यान सिंह वर्मा (सं० 9504281 पी० अब जे० सी० 129339 ए०), 9 दिसम्बर, 1982 ।**
 हवलदार भनादि कुमार बारीक (सं० 9504100 आई० अब जे० सी० 129340 ए०), 27 दिसम्बर, 1982 ।**
 हवलदार काशी रामशेरी (सं० 9504248 ए० अब जे० सी० 129341 ए०), 30 दिसम्बर, 1982 ।**
 हवलदार रमेश शंकर माथुर (सं० 9504330 ए० अब जे० सी० 129342 ए०), 30 दिसम्बर, 1982 ।** ;
 हवलदार श्याम किशोरसेठ (सं० 9504028 ए० अब जे० सी० 129343 ए०), 31 दिसम्बर, 1982 ।**
 हवलदार राजेन्द्र सिंह बिष्ट (सं० 9504329 ए० अब जे० सी० 129344 डब्ल्यू०), 3 जनवरी, 1983 ।**
 हवलदार किरण सिंह (सं० 3147636 के० अब जे० सी० 129345 आई०), 4 जनवरी, 1983 ।**

हवलदार रमेश चन्द्र तिवारी (सं० 9504337 ए० अब जे० सी० 129346 ए०), 6 जनवरी, 1983 ।**

हवलदार राज बहापुर सिंह चौहान (सं० 9504362 पी० अब जे० सी० 129347 के०), 6 जनवरी, 1983 ।**

हवलदार बरुंगथकल रामाङ्गणन सुकुमारन (सं० 9504338 आई० अब जे० सी० 129348 ए०), 9 जनवरी, 1983 ।**

हवलदार शेष मणि तिवारी (सं० 9504233 पी० अब जे० सी० 129349 पी०), 10 जनवरी, 1983 ।**

हवलदार जहान सिंह तोमर (सं० 9504272 ए० अब जे० सी० 129350 के०), 10 जनवरी, 1983 ।**

हवलदार नेत्र पाल (सं० 9504291 आई० अब जे० सी० 129351 ए०), 11 जनवरी, 1983 ।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में धेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 दिसम्बर, 1982 से दी जाएगी) ।**

प्रासूचना कोर

सूबेदार मेजर के पद में

- सूबेदार मिलाप सिंह (जे० सी० 37832 आई०), 1 मई, 1983 ।
 सूबेदार गुरदेव करम चन्द (जे० सी०-41698-डब्ल्यू०)—01 अक्टूबर 1983 ।
 सूबेदार दलीप सिंह (जे० सी०-36714-आई०)—01 अक्टूबर 1983 ।
 सूबेदार सुखदेव शर्मा (जे० सी०-41709-ए०)—01 अक्टूबर 1983 ।
 सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-41702-ए०)—01 अक्टूबर 1983 ।

सूबेदार मेजर/लिफिक के पद में

सूबेदार/लिफिक मन्षैया के०पी० (जे० सी०-61030-ए०)—01 अक्टूबर 1983 ।

सूबेदार के पद में

- नायब सूबेदार बनवारी सिंह (जे० सी०-100526-ए०)—01 सितम्बर 1983 ।
 नायब सूबेदार भोला सिंह अंसवाल (जे० सी०-100527-के०)—01 अक्टूबर 1983 ।
 नायब सूबेदार रामप्रसाद थापा (जे० सी०-100528-ए०)—01 अक्टूबर 1983 ।
 नायब सूबेदार प्रेम चन्द प्रेमी (जे० सी०-100529-पी०)—01 अक्टूबर 1983 ।
 नायब सूबेदार ग्यान चन्द स्नेही (जे० सी०-100530-के०)—01 अक्टूबर 1983 ।
 नायब सूबेदार चन्द्र शेखर (जे० सी०-100531-ए०)—01 अक्टूबर 1983 ।

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार सांहन सिंह (जे० सी०-38071-ए०)—01 जून 1983 ।

सूबेदार के पद में

- नायब सूबेदार धरम पाल सिंह (जे० सी०-100513-के०)—01 मई 1983 ।
 नायब सूबेदार लुति सिंह लिंगवाल (जे० सी०-100515-पी०)—01 मई 1983 ।

नायब सूबेदार कालू सिंह कर्पाट (जे०सी०-100517-ए०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार कोयपूरत जोशेफ जोशेफ (जे०सी०-100518-ए०)—01 जून 1983।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे०सी०-100522-ए०)—01 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार जागीर सिंह (जे०सी०-100516-ए०)—01 मई 1983।

नायब सूबेदार चन्दर सिंह (जे०सी०-100520-ए०)—01 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जे०सी०-108818-वाई०)—01 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे०सी०-100521-ए०)—01 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार वीलत राम (जे०सी०-100511-वाई०)—01 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार सेवा सिंह (जे०सी०-100512-ए०)—01 अप्रैल 1983।

कोर आफ मिलिट्री पुलिस में
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अर्जुन सिंह गहलावन (जे०सी०-74735-वाई०)—1 अप्रैल 1983।

सूबेदार रज बहादुर तमंग (जे०सी० 65166 पी०)—1 अप्रैल 1983।

पायनियर कोर

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक

सूबेदार (जी० डी०) ठाकरा सिंह (जे०सी० 44984 ए०)—26 जनवरी 1983।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी० डी०) अप्पला मगदुम (जे०सी०-57999-के०)—01 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार (जी० डी०) तुका राम गिर्दे (जे०सी०-58321-ए०)—01 नवम्बर 1982।

नायब सूबेदार (जी० डी०) नथमी नारायण (जे०सी०-60501-के०)—11 दिसम्बर 1982।

कोर आफ सिगनल

सूबेदार मेजर (ओपी स्पेशल) के रैंक में

सूबेदार भंवर सिंह (जे०सी०-68111-डब्ल्यू०)—1 फरवरी 1983।

सूबेदार दूध नाथ यादव (जे०सी०-70353-ए०)—1 फरवरी 1983।

सूबेदार मेजर (एफ०ऑफ ए०) के रैंक में

सूबेदार जी०ई०ई० वर्गीश जी० (जे०सी०-52104-डब्ल्यू०)—1 अगस्त 1983।

सूबेदार मेजर (ओपी सार्जफर) के रैंक में

सूबेदार मुखेन्दु चक्रवर्ती (जे०सी०-56208-ए०)—1 मई 1983।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी०डी०) के रैंक में

सूबेदार अमील कुमार शर्मा (जे०सी०-62945-ए०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार चन्द्र प्रकाश गोड़ (जे०सी०-64716-ए०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार मेजर (जी०डी०) के रैंक में

सूबेदार कृपाल सिंग नेगी (जे०सी०-73765-ए०)—1 अगस्त 1983।

सूबेदार माटू राम (जे०सी०-71741-ए०)—1 अगस्त 1983।

सूबेदार तरसेम सिंह (जे०सी०-73711-ए०)—28 अगस्त 1983।

सूबेदार हरगोविन्द पाण्डे (जे०सी०-73779-के०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार राम शरन (जे०सी०-74032-ए०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार मेजर (वाई० ऑफ ए०) के रैंक में

सूबेदार इन्द्र सिंह (जे०सी०-59533-ए०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार मेजर (एफ० ऑफ ए०) के रैंक में

सूबेदार तरशोक सिंह (जे०सी०-53252-ए०)—1 अक्टूबर 1983।

सूबेदार बलकार सिंह रंधावा (जे०सी०-49745-वाई०)—1 नवम्बर 1983।

सूबेदार मेजर (ओपी० साइफर) के रैंक में

सूबेदार टीपी० कुन्जु कुन्जु (जे०सी०-56212-ए०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार रोबैल सिंह (जे०सी०-56215-ए०)—1 नवम्बर 1983।

सूबेदार मेजर (जी०डी०) के रैंक में

सूबेदार रणपाल सिंह (जे०सी०-60675-के०)—1 दिसम्बर 1981।

सूबेदार बूटा सिंह (जे०सी०-71161-ए०)—1 अगस्त 1983।

सूबेदार रामेयवर ठाकुर (जे०सी०-73777-वाई०)—1 सितम्बर 1983।

सूबेदार गोविन्दन के० (जे०सी०-74038-वाई०)—1 अक्टूबर 1983।

सूबेदार मेजर (वाई० ऑफ ए०) के रैंक में

सूबेदार पूरन चन्द अवस्थी (बी०एम०एम०) (जे०सी०-60254-ए०)—1 मई 1983।

सूबेदार वेंसराज (जे०सी०-59530-ए०)—1 जून 1983।

सूबेदार के० दामोदरन् (जे०सी०-59531-पी०)—1 जुलाई 1983।

सूबेदार मेजर (एफ० ऑफ ए०) के रैंक में

सूबेदार जगमग सिंह (जे०सी०-52158-ए०)—1 जुलाई 1983।

सूबेदार मेजर (जी०डी०) के रैंक में

सूबेदार परकाश चन्द (जे०सी०-73763-वाई०)—1 जुलाई 1983।

सूबेदार मेजर (वाई० ऑफ ए०) के रैंक में

सूबेदार ग्यान चन्द (जे०सी०-59528-पी०)—1 जून 1983।

सूबेदार मेजर (एफ० ऑफ ए०) के रैंक में

सूबेदार श्री राम यादव (जे०सी०-52881-ए०)—1 मार्च 1983।

सूबेदार मलय नारायण सिंह (जे०सी०-52882-डब्ल्यू०)—1 मई 1983 ।

सूबेदार नवी राम (जे०सी०-53251-एन०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार ओम प्रकाश मूद (जे०सी०-53255-एफ०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार भेजर (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

सूबेदार ई०जी० सामुएल (बी०एम०एम०) (जे०सी०-71117-एच०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार ताग चन्द (जे०सी०-71216-एन०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार भेजर (क्वर्क जी०डी०) के रैंक में

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे०सी०-62686-पी०)—1 अप्रैल 1983 ।

सूबेदार शेर सिंह यादव (जे०सी०-62692-एच०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार भेजर (जी०डी०) के रैंक में

सूबेदार मोहित लाल साहा (जे०सी०-61706-एन०)—1 मार्च 1983 ।

सूबेदार प्रीतम सिंह (जे०सी०-71186-वाई०)—1 अप्रैल 1983 ।

सूबेदार मदन सिंह (जे०सी०-71728-एन०)—1 मई 1983 ।

सूबेदार संतोष कुमार खट्वा (जे०सी०-71735-एन०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार अमरजीत सिंह (जे०सी०-71738-पी०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार एन०जी० थोमस (जे०सी०-71761-पी०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार जय सिंह (जे०सी०-71764-एच०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार के० भास्करन उन्नीयन (जे०सी०-73755-ए०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार दलजीत सिंह बोला (जे०सी०-73757-एन०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार हृदयनाथ सिंह (जे०सी०-73758-एन०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार राजिन्दर शर्मा (जे०सी०-73761-एन०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार (वाई० आर० एम०) के रैंक में

नायब सूबेदार चन्द्र बल्लभ पाण्डे (जे०सी०-93501-के०)—1 मई 1983 ।

नायब सूबेदार साहब सिंह (जे०सी०-93504-एन०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे०सी०-93508-एन०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार अनीमूर रामा मामी अप्पाबू (जे०सी०-93511-एन०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार (एफ० आर० एम०) के रैंक में

नायब सूबेदार सीरी राम (जे०सी०-94920-एन०)—1 फरवरी 1983 ।

नायब सूबेदार गियान सिंह (जे०सी०-94921-डब्ल्यू०)—1 मार्च 1983 ।

नायब सूबेदार लाल चन्द शर्मा (जे०सी०-94922-वाई०)—1 मार्च 1983 ।

सूबेदार (ओपी स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार धरम राज सिंह (जे०सी०-एन०वाई०-6277531-एम०)—1 फरवरी 1983 ।

नायब सूबेदार माना दीन वर्मा (जे०सी०-116036-एफ०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे०सी०-113655-ए०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार राजिन्दर प्रसाद (जे०सी०-113656-एच०)—1 जून 1983 ।

सूबेदार (ओ पी शार्पशर) के रैंक में

नायब सूबेदार कान्ना प्रसाद ह्यूडम (जे०सी०-85673-के०)—1 मार्च 1983 ।

नायब सूबेदार रत्नीपाल सिंह चौहान (जे०सी०-85674-एम०)—1 मार्च 1983 ।

नायब सूबेदार के० शांती जून्तु सिंह (जे०सी०-85675-पी०)—1 मार्च 1983 ।

नायब सूबेदार राम सिंह यादव (जे०सी०-85677-ए०)—1 अप्रैल 1983 ।

नायब सूबेदार अरुण कुमार खट्टीपाध्याय (जे०सी०-85678-एच०)—1 जुलाई 1983 ।

सूबेदार (क्वर्क जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार निहाल सिंह (जे०सी०-97980-एन०)—1 अप्रैल 1983 ।

नायब सूबेदार रसीभान शर्मा (जे०सी०-97981-डब्ल्यू०)—1 मई 1983 ।

नायब सूबेदार गंगाधरन टी० एम० (जे०सी०-97983-वाई०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार राम देव सिंह (जे०सी०-97987-एन०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार मोहन सिंह बरियाना (जे०सी०-97991-ए०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार राम प्रसाद गिरी (जे०सी०-97992-एच०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार पवनदासभजन एन० (जे०सी०-102508-एन०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार राम कवर (जे०सी०-99082-एन०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार मोहन लाल शर्मा (जे०सी०-99083-डब्ल्यू०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार विष्णु भोटवा सुब्रामन्या मास्की (जे०सी०-102510-पी०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार बड़ी प्रसाद डैडी (जे०सी०-102512-ए०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार कागिमर सिंह (जे०सी०-102514-एन०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार ए० एम० परहार (जे०सी०-102515-एन०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार एच० एम० मेल्हा (जे०सी०-102516-डब्ल्यू०)—1 जून 1983 ।

नायब सूबेदार शम्भू प्रसाद (जे०सी०-102517-वाई०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार पीधाम्बर कुरूप (जे०सी०-102519-के०)—1 जून 1983।

सूबेदार (एम० के० टी) के रैंक में

नायब सूबेदार बुधी सिंह डोगरा (जे०सी०-102634-के०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार प्रेम शंकर (जे०सी०-104674-के०)—1 जून 1983।

सूबेदार (जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार विक्रम शिंदे (जे०सी०-90768-एम०)—1 मार्च 1983।

नायब सूबेदार रघुनाथ स्वैन (जे०सी०-90774-एम०)—1 मार्च 1983।

नायब सूबेदार नायब अली (जे०सी०-90267-एम०)—1 मार्च 1983।

नायब सूबेदार कमल सिंह (जे०सी०-93216-एम०)—1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार शान्ति स्वल्प (जे०सी०-93225-एम०)—1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार लस्कर सिंह (जे०सी०-93238-के०)—1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार संपूर्ण सिंह (जे०सी०-93239-एम०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जे०सी०-93240-एम०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार राम बदल राम (जे०सी०-93243-पी०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार ठाकुर सिंह राणा (जे०सी०-93244-एम०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार नविन्द्रा सिंह भण्डारी (जे०सी०-93246-एम०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार राम बृष राम (जे०सी०-93249-डब्ल्यू०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार केवल सिंह (जे०सी०-93250-एम०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह नेगी (जे०सी०-93251-एम०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार रामी नेमी रामाकोटेश्वरा राव (जे०सी०-93254-एम०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार प्रधान सिंह राठौर (जे०सी०-93261-एम०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार शिव किशोर त्रिवेदी (जे०सी०-90265-एम०)—1 अक्टूबर 1982।

नायब सूबेदार गौरी शंकर सिंह (जे०सी०-79513-एम०)—1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार राम कुबेर पान्डेय (जे०सी०-88976-के०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार दयान सिंह (जे०सी०-89125-के०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार नाम देव बारगे (जे०सी०-89451-एम०)—1 फरवरी 1983।

सूबेदार (वाई० आर० एम०) के रैंक में

नायब सूबेदार महा देव घोष (जे०सी०-93498-पी०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार राजिन्द्र सिंह (जे०सी०-93499-एम०)—1 फरवरी 1983।

सूबेदार (एफ० आर० एम०) के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार मलिक (जे०सी०-94915-एम०)—1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार मेजर सिंह लाम्सा (जे०सी०-94916-एम०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार जसबल्ल सिंह राणा (जे०सी०-94917-एम०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार आत्मा सिंह (जे०सी०-94891-के०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार पालक राम (जे०सी०-94919-वाई०)—1 फरवरी 1983।

सूबेदार (ओपी स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार राम चन्द्र मेहता (जे०सी०-107167-एम०)—1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार रामजी लाल शर्मागिया (जे०सी०-113645-डब्ल्यू०)—1 दिसम्बर 1982।

नायब सूबेदार चेरुवरी गंगाधरन (जे०सी०-113646-वाई०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र चौहान (एम०-6283442-के०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार रविन्द्रा चक्रवर्ती (जे०सी०-113649-एम०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार आर० कृष्णा पिल्लै (जे०सी०-113650-एम०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार राम देव सिंह (जे०सी०-113652-एम०)—1 फरवरी 1983।

नायब सूबेदार कैलाश प्रसाद (जे०सी०-113653-पी०)—1 फरवरी 1983।

सूबेदार (बलर्क जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार राजिन्द्र पाल (जे०सी०-99079-एम०)—1 फरवरी 1983।

सूबेदार (एम०के०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जे०सी०-102631-डब्ल्यू०)—1 फरवरी 1983।

सूबेदार (वाई० आर० एम०) के रैंक में

नायब सूबेदार राजा गोपालन पी०के० (जे०सी०-94934-एम०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार कीशल सिंह धरवाल (जे०सी०-64761-एम०)—25 अक्टूबर 1983।

सूबेदार (एफ० ऑफ एल०) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम चन्द्र चौधरी (जे०सी० 94926 पी०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार मानकीन मिह (जे०सी० 94929 एच०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार मौलानी शौक (जे०सी० 94931 ए०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार पृथी सिंह बन्नेल (जे०सी० 98030 एल०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार घूप सिंह (जे०सी० 98032 इन्फ्यू०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार श्री कृष्णा सिंह (जे०सी० 98033 बार्ड०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार भारायणन एम०के० (जे०सी० 98035 के०)—28 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार तोता राम वर्मा (जे०सी० 99062 ए०)—1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार मोहम्मद बान आर०एम० (जे०सी० 98038 एम०)—1 अक्टूबर 1983।

सूबेदार (कनक जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार जनार्दन कुन्ज कृष्णा पिल्लै (जे०सी० 102522 के०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद (जे०सी० 102525 एक्स०)—1 नवम्बर 1983।

नायब सूबेदार सोम परकाश गुप्ता (जे०सी० 102526 ए०)—29 नवम्बर 1983।

सूबेदार (ओपी० स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार अम्बिका राय (जे०सी० 87776 एफ०)—1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार अशर्फी लाल (जे०सी० 85681 एच०)—1 अक्टूबर 1983।

सूबेदार (ओपी० स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार राम दिया (जे०सी० 113657 एल०)—1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार मुदरंजन कुमार (जे०सी० 113659 इन्फ्यू०)—1 नवम्बर 1983।

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे०सी० 104673 एफ०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार जैनाथ पाण्डेय (जे०सी० 83316 एच०)—3 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार देवी शंकर त्रिपाठी (जे०सी० 85508 बार्ड०)—1 नवम्बर 1983।

सूबेदार (जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार जगदीश नारायण शुक्ला (जे०सी० 90765 ए०)—1 मार्च 1983।

नायब सूबेदार राम कुमार सिंह (जे०सी० 93237 एफ०)—1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार डी० अरुण दास (जे०सी० 93428 इन्फ्यू०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार दर्शन कुमार मोबली (जे०सी० 94057 एल०)—1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार के० बी० गुन्ही रामन नायर (जे०सी० 94059 इन्फ्यू०)—1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार ध्यान चन्द्र (जे०सी० 94063 बार्ड०)—1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे०सी० 94064 एफ०)—1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार मनोहर रूद्रा पाल (जे०सी० 94066 एम०)—1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार आर० गोपीनाथा पिल्लै (जे०सी० 94075 एन०)—7 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार डी०सी०एम० पिल्लै (जे०सी० 94078 एफ०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार जगमेल सिंह (जे०सी० 94079 के०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार दरब सिंह वर्मा (जे०सी० 94080 बार्ड०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार गिब सूरन सिंह (जे०सी० 94082 के०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार अमर देव सिंह (जे०सी० 94083 एम०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार दीना लाल खन्ना (जे०सी० 94084 पी०)—1 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार मन्वितानन्द सिंह (जे०सी० 94894 एक्स०)—3 सितम्बर 1983।

नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण यादव (जे०सी० 94090 एम०)—1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार पारस नाथ शुक्ला (जे०सी० 84895 ए०)—1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार राधम सिंह (जे०सी० 94896 एच०)—1 अक्टूबर 1983।

नायब सूबेदार शक्ती सिंह मेहता (जे०सी० 94092 एम०)—1 नवम्बर 1983।

नायब सूबेदार कुन्दु पराम्बिल माधवी कृष्णन (जे०सी० 94093 इन्फ्यू०)—1 नवम्बर 1983।

सूबेदार (एफ० ऑफ एल०) के रैंक में

नायब सूबेदार जगदीश साहू (जे०सी० 94923 एफ०)—17 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार अण्णा साहेब निम्बालकर (जे०सी० 94924 के०)—1 मई 1983।

नायब सूबेदार मत्या नन्द पूजे (जे०सी० 694925 एम०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार जुगल किशोर शर्मा (जे०सी० 94927 एक्स०)—1 जून 1983।

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जे०सी० 94932 एच०)—1 जून 1983।

सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जे०सी० 85679 ए०) — 1 अगस्त 1983।

सूबेदार (एल के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार राम सुनि (जे०सी० 97984 के०) — 1 मई 1983।

नायब सूबेदार गुरमीत चन्द (जे०सी० 97999 ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार रविन्द्रन मन्दी० (जे०सी० 99080 ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार जय कृष्ण उपाध्याय (जे०सी० 97989 ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद मिश्रा (जे०सी० 97993 ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार के०बी० चन्द्रसेखरन नायर (जे०सी० 97994 ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार हरी प्रकाश (जे०सी० 99081 ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार रत्न चन्द चौधरी (जे०सी० 99084 आई०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार किशोरी नाल (जे०सी० 102509 ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार परम सिंह चौधरी (जे०सी० 102511 ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार हरी शंकर त्रिपाठी (जे०सी० 102518 ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार शेर सिंह राणा (जे०सी० 102520 आई०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार शोम प्रकाश वर्मा (जे०सी० 102521 ए०) — 1 जून 1983।

सूबेदार (जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार ब्रिजलाल बलूडा (जे०सी०-93211-ए०) — 1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार सुलतान सिंह (जे०सी०-93215-ए०) — 1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार राम फल (जे०सी०-93247-ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार दीना माथ (जे०सी०-93252-ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार राम आश्रय सहाय (जे०सी०-93253-आई०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार छजू राम (जे०सी०-93255-के०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार श्री राम पाल (जे०सी०-93257-पी०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार योहानन ए० (जे० सी०-93258-ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार बनारसी दास (जे०सी०-93259-ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार बलदेव राज (जे० सी०-93260-पी०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार राम शरान (जे०सी०-94051-के०) — 1 जून 1983।

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे०सी०-102635-ए०) — 1 जून 1983।

सूबेदार (आई० गॉफ ए०) के रैंक में

नायब सूबेदार गेरीगेटलमार्ड कृष्णा (जे०सी०-93500-ए०) — 4 मार्च 1983।

नायब सूबेदार मोहन राम शोकर (जे०सी०-93512-ए०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार म्यू बीटिन गोविन्दन (जे०सी०-93516-ए०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे०सी०-93518-ए०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार के०पी०एस० कुरुन (जे०सी०-94113-आई०) — 1 अगस्त 1983।

सूबेदार (एफ० थॉफ ए०) के रैंक में

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे०सी०-98024-ए०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार पिला फूतायिन बालाकृष्णन (जे०सी०-98026-ए०) — 1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार हुकम सिंह नेगी (जे०सी०-98027 ए०) — 1 अगस्त 1983।

सूबेदार (कलक जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार सुरीन्दर सिंह (जे०सी०-97982-आई०) — 1 मई 1983।

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार पी०एन० दिवाकरन् (जे०सी०-102632-आई०) — 1 मई 1983।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह पटियाल (जे० सी०-107136-ए०) — 1 अगस्त 1983।

सूबेदार (जी०डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार शोम प्रकाश जोशी (जे०सी०-90785-ए०) — 1 मार्च 1983।

नायब सूबेदार जनार्दन राउन (जे०सी०-93226-पी०) — 1 अप्रैल 1983।

नायब सूबेदार जीवा राज शर्मा (जे०सी०-93256-ए०) — 1 जून 1983।

नायब सूबेदार नागायण सिंह गुप्तेन (जे० सी०-94052-ए०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार रामा प्रसाद राँय (जे० सी०-94053-पी०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार डी० प्रसादा राव (जे० सी०-94054-ए०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार भानू दास बोलेंकर (जे०सी०-94055-ए०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार जय सिंह शर्मा (जे०सी०-94058-ए०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार नारायण शर्मा (जे० सी०-94061-ए०) — 1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार लोहरी मरगारण आदित्य (जे०सी०-93430-एन०)—
1 जनवरी 1983।

नायब सूबेदार शीश राम शीशोकन्द (जे०सी०-94062-इन्फ्यू०)—
1 जुलाई 1983।

नायब सूबेदार संतोष मिह (जे०सी०-94885-इन्फ्यू०)—1 अगस्त
1983।

नायब सूबेदार विपुलारी राय (जे०सी०-94065-के०)—1 अगस्त
1983।

नायब सूबेदार गुल्ला राम (जे०सी०-94067-पी०)—1 अगस्त
1983।

नायब सूबेदार संतोष मिह (जे०सी०-94693-पी०)—1 अगस्त
1983।

नायब सूबेदार हनुमन्ता राय पवार (जे०सी०-94069-ए०)—1
अगस्त 1983।

नायब सूबेदार जयवन्त सिंह गोपाय (जे०सी०-94070-पी०)—
1 अगस्त 1983।

नायब सूबेदार मंगन मिह संया (जे० सी०-94071-एफएम०)—1
अगस्त 1983।

नायब सूबेदार मोची राम स्वानथी (जे०सी०-94072-ए०)—1
अगस्त 1983।

नायब सूबेदार सी० नारायणन नायर (जे०सी०-94076-इन्फ्यू०)—
12 अगस्त 1983।

सं० 779, तारीख 21 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित
परिष्कारियाँ करेगे हैं :—

नियमित सेना

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर

नाम पदोन्नति की तारीख
हवलदार मेजर टेक्नीकल से नायब सूबेदार टेक्नीकल (ए एंड बी
इंजीनर) के रैंक में

जगपाल गोरया (सं०-7102938-एच० अथ जे०सी०-134829-
एच०)—06 दिसम्बर 1983।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

बन्नीम पी०एम० (सं०-7103631-के० अथ जे०सी० 134830-
एफएम०)—10 दिसम्बर 1983।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

गोपाल मोलाधरम गोविन्दस्वामी (सं०-7079298-पी० अथ जे०
सी०-134831-ए०)—07 दिसम्बर 1983।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

ब्रान बहादुर थापा (सं०-7080995-एफ० अथ जे०सी०-134832-
एच०)—02 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

राम कुमार (सं०-7083917-पी० अथ जे०सी०-134833-एच०)—
21 दिसम्बर 1983।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

इन्द्रवर्मा सेनजैनकोई (सं०-7085274-पी० अथ जे०सी०-134834-
एच०)—14 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

रतन लाल राधी (सं० 7086649 एच० अथ जे० सी०-134835
इन्फ्यू०) 04 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

राशन लाल (सं०-7090323-एच० अथ जे०सी०-134836-आई०)—
10 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

कुलदीप चन्द (सं०-7090860-एच० अथ जे०सी०-134837-एफ०)
—05 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

हरप्रवतार मिह (सं०-7095046-एच० अथ जे०सी०-134838-
के०)—16 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

राम मीरोमनी (सं०-7096205-एच० अथ जे०सी०-134839-
एच०)—05 जनवरी 1984।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

बादल चन्द्र पाठ (सं०-7100465-इन्फ्यू० अथ जे० सी०-
134840-एफ०)—04 जनवरी 1984।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1984 से दी जायेगी)

बमल मिह (सं०-7107747-एफएम० अथ जे० सी०-134841-के०)—
16 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

शोभायल के० आर० (सं०-7108123-एफएम० अथ जे०सी-134-
842-एच०)—30 दिसम्बर 1983।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

अगत राम चौहान (सं०-7109219-एच० अथ जे० सी०-134843
पी०)—10 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

निहान मिह (सं०-7085520-एफ० अथ जे० सी-134844-एफएम०)
—09 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

ब्रम लाल (सं०-7086184-एच० अथ जे०सी०-134845-ए०)—
05 जनवरी 1984।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

सुकुमार मोडल (सं०-7085844-ए० अथ जे०सी०-134846-
एच०)—04 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

रमो राम (सं०-7097348-एफ० अब जे०सी०-134847-एल०)—
09 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

मेर सिंह (सं०-7098740-के० अब जे०सी०-134848-एल०)—
04 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

राम सिंह (सं०-7100071-एफ० अब जे०सी०-134849-इक्यू०)—
07 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

कपील दीपो सिंह (सं०-7100378-एफ० अब जे०सी०-134850-एल०)—
10 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

जोगीन्द्र सिंह (सं०-7074002-एफ० अब जे०सी०-134851-एन०)—
14 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

आर० रागवन पिल्लै (सं०-7074027-एन० अब जे०सी०-134-
852-इक्यू०)—03 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

अमकोर सिंह (सं०-7085933-एल० अब जे०सी०-134853-
बार्ड०)—05 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

हवलदार मेजर टेक्नीकल से नायब सूबेदार टेक्नीकल (इन्सट्रुमेंट) के
रैंक में

क्रिष्ण देव कुबे (सं०-7095750-एफ० अब जे०सी०-134854-
एफ०)—15 दिसम्बर 1983।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

बनारसी दाम (सं०-7095805-पी० अब जे०सी०-134855-के०)—
15 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

वाल चन्द (सं०-7105336-ए० अब जे०सी०-134856-एन०)—
14 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

श्रवण सिंह भट्टी (सं०-7075218-पी० अब जे०सी०-134857-
पी०)—03 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1984 से दी जायेगी)

हवलदार मेजर टेक्नीकल से नायब सूबेदार टेक्नीकल (रडार) के
रैंक में

गोविन्दा लाल पॉले (सं०-7107997-बार्ड० अब जे०सी०-134-
58-एकस०)—25 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

देवदू बल शर्मा (सं०-7108011-एफ० अब जे०सी०-134859-
ए०)—25 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

विन्ग्ले भीम राव (सं०-7108226-इक्यू० अब जे०सी०-134-
860-पी०)—25 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

बिलेन्द्र सिंह (सं०-7110843-एकस० अब जे०सी०-134861-एकस०)—
25 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1984 से दी जायेगी)

हवलदार मेजर टेक्नीकल से नायब सूबेदार टेक्नीकल (रेडियो) के
रैंक में

राम पाल (सं०-7093665-एफ० अब जे०सी०-131862-ए०)—
02 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

रघवीर प्रसाद मंगला (सं०-7095890-पी० अब जे०सी०-134-
863-एक०)—05 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

धान सिंह (सं०-7093568-के० अब जे०सी०-134864-एल०)—
26 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

अरविन्द किशोर श्रीवास्तवा (सं०-7109631-ए० अब जे०सी०-
134865-एन०)—16 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1984 से दी जायेगी)

सुरेन्द्रा सिंह (सं०-7076790-पी० अब जे०सी०-134866-इक्यू०)—
16 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1984 से दी जायेगी)

राम प्रवेश सिंह (सं०-7088494-इक्यू० अब जे०सी०-134867-
एकस०)—06 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1984 से दी जायेगी)

हवलदार मेजर टेक्नीकल से नायब सूबेदार टेक्नीकल (जी०सी०
ई०) के रैंक में

मुरेश चन्दा जोशी (सं०-7107866-एन० अब जे०सी०-134-
868-एफ०)—02 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

लखनन सिंह (सं०-7108529-एल० अब जे०सी०-134869-के०)—18 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

अशोक कुमार बनरजी (सं०-7109454-एल० अब जे०सी०-134-870-आई०)—27 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

सुरेश नान (सं०-7108053-के० अब जे०सी०-134871-एफ०)—25 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

हवलदार मेजर टेक्नीकल से नायब सूबेदार टेक्नीकल (लाइन) के रैंक में

तरलोच मिह (सं०-7106769-आई० अब जे०सी०-134872-के०)—23 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

बुद्धलाल मारायणा राव (सं०-7109714-एल० अब जे०सी०-134-873-एम०)—19 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

सुरेश प्रसाद पाठक (सं०-7105563-ए० अब जे०सी०-134874-पी०)—25 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

हवलदार मेजर टेक्नीकल से नायब सूबेदार टेक्नीकल (गन) के रैंक में

अशोक कुमार शर्मा (सं०-7073490-एच० अब जे०सी०-134-875-एफ०)—28 नवम्बर 1983।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

बिस्वनाथ प्रसाद मिह (सं०-7095427-एम० अब जे०सी०-134-876-ए०)—30 नवम्बर 1983।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

बाल राम (सं०-7105914-के० अब जे०सी०-134877-एच०)—09 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 1983 से दी जायेगी)

अवतार मिह (सं०-7106409-एन० अब जे०सी०-134878-एल०)—13 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

रमेश ब्रह्मदुर मिह (सं०-7106600-पी० अब जे०सी०-134879-एन०)—21 जनवरी 1984।*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 1983 से दी जायेगी)

मेवा लाल शौरसिया (सं०-7104188-एन० अब जे०सी०-134-880-एच०)—25 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1984 से दी जायेगी)

हरबन्स सिंह (सं०-704765-पी० अब जे०सी०-134881-एल०)—21 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1984 से दी जायेगी)

के०ए० माधवन (सं०-7106071-एन० अब जे०सी०-134882-एन०)—19 जनवरी 1984।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1984 से दी जायेगी)

एस, एस, सेठ

सं० 780, दिनांक 16 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति सहृदय मेजर अनरल गमकृष्ण (आई०सी०-5114) ए०बी०एम०एम० (रिटायर्ड) को 29 फरवरी, 1984 (ए०एन०) से आनाम रजिमेंट के कर्नल के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

महेश्वर सहगल, लिफ्टनेन्ट अनरल सैनिक सचिव

सं०-781, दिनांक 16 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति सहृदय निम्नलिखित अफसर को सेना से मुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दत्त विक्रिस्ता कार

(स्थायी कर्मीगन)

कैप्टन मर्जन लिफ्टनेन्ट (डी०)ए० घामम (डी०आर०-10285-एल०) (79023-आई०)—आई०एम० 10-5-82।

डी०के० श्री वास्तव, अवसर सचिव

गुद्धि पत्र

सं०-782, तारीख 12 अप्रैल 1984—रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 279/79 के अन्तर्गत जो कि तिथि 17 फरवरी 79 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमिशन कैप्टन से मेजर में प्रकाशित किया गया था।

के लिये—ए०एस० मन्धू (आई०सी०-18126) आरमड कोर—15 जुलाई 1978।

पढ़ा जाए—ए०एम० मन्धू (आई०सी०-18126) आरमड कोर 25 जनवरी 1978।

गुद्धि पत्र

सं०-783, तारीख 12 अप्रैल 1984—रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 755/80 के अन्तर्गत जो कि तिथि 29 मार्च 1980 के शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमिशन लिफ्टनेन्ट से कैप्टन में प्रकाशित किया गया था।

के लिये—ए०के० चौधरी (आई०सी०-32880), ए०के० श्रीवास्तव (आई०सी०-32885), एम०पी०एस० परमार (आई०सी०-32918), एस०के० मुञ्जुमदार (आई०सी०-32934), इन्फेन्ट्री 10 मई 1979।

ए०एन० मिह (आई०सी०-32955), ए०ई०सी० 10 मई 1979।

पढ़ा जाए—ए०एस०के० चौधरी (आई०सी०-32880), ए०के० श्रीवास्तव (आई०सी०-32885), एम०पी०एस० परमार (आई०सी०-329-

18), एम०के० मुजुमदार (आई०सी०-32934) इन्फैन्ट्री 10 नवम्बर 1978।

एच०जे० मिह (आई०सी०-32955) ए०ई०सी० 10 नवम्बर 1978।

आर० पंडित, ले० कर्नल ए०एम०एम०

शुद्धि पत्र

सं०-784, तारीख 12 अप्रैल 1984—रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 859/82 के अन्तर्गत शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमिशन, लैफ्टिनेंट से कैप्टन में प्रकाशित किया गया था। तिथि के लिये :— 17 अप्रैल 1982।

.... ए. वर्मा (आई०सी०-36457)..... इन्फैन्ट्री..... 20 नवम्बर 1981।

पढ़ा जाए :—.....ए० वर्मा (आई०सी०-36457)..... ए०ओ०सी०..... 20 नवम्बर 1981।

आर० पंडित, ले० कर्नल, ए० एम० एम०

सं० 793, तारीख 16 अप्रैल 1984—2 जुलाई 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1511 तारीख 8 जून 1983 में शीर्षक (नियमित सेना) उपशीर्षक (इन्फैन्ट्री) और (डोगरा रेजिमेन्ट) के अन्तर्गत (नायब सूबेदार के रैंक में) के नीचे :—

“हवलदार ज्ञान चन्द (सं०-3953036-वाई० अब जे०सी०-122070 एन०)—12 अप्रैल 1982 के स्थान पर।

“हवलदार ज्ञान चन्द (सं०-3953036-वाई० अब जे०सी०-122070-एन०)—12 अप्रैल 1981 पढ़ा जाए।

सं०-794, तारीख 16 अप्रैल 1984—18 जून 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1405 तारीख 18 मई 1983 में शीर्षक (नियमित सेना) उपशीर्षक (इन्फैन्ट्री) और (डोगरा रेजिमेन्ट) के अन्तर्गत (नायब सूबेदार के रैंक में) के नीचे :—

“हवलदार अमर सिंह (सं०-3955987-पी० अब जे०सी०-118-383-वाई०)—5 अगस्त 1981*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अगस्त 1981 से दी जायेगी) के स्थान पर।

“हवलदार अमर सिंह (सं०-3955987-पी० अब जे०सी०-118-393-वाई०)—5 अगस्त 1981*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अगस्त 1981 से दी जायेगी) पढ़ा जाये।

“हवलदार प्रीतम सिंह (सं०-39535216-एच० अब जे०सी०-118452-ए०)—23 जुलाई 1981**।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 जुलाई 1981 से दी जायेगी) के स्थान पर।

“हवलदार प्रीतम सिंह (सं०-3953516-एच० अब जे०सी०-118-452-ए०)—23 जुलाई 1981**।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 जुलाई 1981 से दी जायेगी) पढ़ा जाए।

सं०-798, तारीख 16 अप्रैल 1984—23 जुलाई, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं०-1666

तारीख 5 जुलाई, 1983 में शीर्षक “नियमित सेना” उपशीर्षक “सैनिक शिक्षा कोर” के अन्तर्गत “नायब सूबेदार के रैंक में” के नीचे :—

“हवलदार प्रियम सिंह (सं० 503748-एच० अब जे०सी०-114-710-एल०)—के स्थान पर।

“हवलदार प्रियम सिंह (सं०-9503748-एच० अब जे०सी०-124-710-एल०)—पढ़ा जाए।

सं०-796, तारीख 16 अप्रैल 1984—23 अप्रैल 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 891 दिनांक 22 मार्च 1983 के अन्तर्गत शुद्धि पत्र सं० (ii) के नीचे :—

“हवलदार मन्शा राम (सं०-3961858-ए० अब जे०सी०-103515-

“हवलदार मन्शा राम (सं० 3961858-ए० अब जे०सी०-103515-ए०) के स्थान पर”।

“हवलदार मन्शा राम (सं० 3961758-ए० अब जे०सी०-1035-15-ए०) पढ़ा जाए”।

सं०-797, तारीख 16 अप्रैल 1984—23 जुलाई 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1666 तारीख 05 जुलाई 1983 में शीर्षक “नियमित सेना” उपशीर्षक “इन्फैन्ट्री” और “द्वि कुमाऊं रेजिमेन्ट” के अन्तर्गत सूबेदार के रैंक के नीचे :—

(क) “नायब सूबेदार गमी चन्द (जे०सी०-85114-ए०)—01 अप्रैल 1982” के स्थान पर।

“नायब सूबेदार रामी चन्द (जे०सी०-85114-ए०)—01 अगस्त 1981” पढ़ें।

(ख) “नायब सूबेदार महावीर (जे०सी०-85113-एक्स०)—01 अप्रैल 1982” के स्थान पर :—

“नायब सूबेदार महावीर (जे०सी०-85113-एक्स०)—01 अप्रैल 1981”

सं० 798, तारीख 16 अप्रैल 1984—रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 2379 दिनांक 18 नवम्बर 1982 में शीर्षक “नियमित सेना” उपशीर्षक “इन्फैन्ट्री—प्रिन्सिपल” के अन्तर्गत—

नायब सूबेदार के रैंक के नीचे :—

हवलदार श्यो रत्न सिंह (2653446-ए० अब जे०सी०-115744-एक्स०)—20 मई 1981।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1981) के स्थान पर

हवलदार श्यो रत्न सिंह (2653446-ए० अब जे०सी०-115744-एक्स०)—20 मई 1981।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 सितम्बर 1980) पढ़ा जाए।

सं० 799, तारीख 16 अप्रैल 1984—13 अगस्त 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं०-1797 तारीख 27 जुलाई 1983 में शीर्षक “नियमित सेना” उपशीर्षक “इन्फैन्ट्री” और “गारद ब्रिगेड” के अन्तर्गत “सूबेदार के रैंक में” के नीचे :—

“नायब सूबेदार के०पी० अर्पाचू (जे०सी०-87799-एच०)—24 अप्रैल 1982 के स्थान पर।

“नायब सूबेदार के०पी० अर्पाचू (जे०सी०-87799-एच०)—01 अप्रैल 1982 पढ़ा जाए।

“नायब सूबेदार पुरन सिंह (जे०सी०-78807-पी०)—01 मई 1982 के स्थान पर।

“नायब सूबेदार पुरन सिंह (जे०सी०-78807-पी०)—01 अप्रैल 1982 पढ़ा जाए।

"नायब सूबेदार सन्तोष सिंह (जे०सी०-80940-इड्यू०)—01 जून 1982 के स्थान पर।

"नायब सूबेदार सन्तोष सिंह (जे०सी०-80940-इड्यू०)—01 अप्रैल 1982 पढ़ा जाए।

"नायब सूबेदार कृशन दास (जे०सी०-92443-आई०)—01 जून 1982 के स्थान पर।

"नायब सूबेदार कृशन दास (जे०सी०-92443-आई०)—01 अप्रैल 1982 पढ़ा जाए।

"नायब सूबेदार चुनचूला धम्मप्पा (जे०सी०-90294-के०)—01 जून 1982 के स्थान पर।

"नायब सूबेदार चुनचूला धम्मप्पा (जे०सी०-90294-के०)—24 अप्रैल 1982 पढ़ा जाए।

"नायब सूबेदार रिसाल सिंह (जे०सी०-98695-एफ०)—01 जुलाई 1982 के स्थान पर

"नायब सूबेदार रिसाल सिंह (जे०सी०-98695-एफ०)—01 जून 1982 पढ़ा जाए।

"नायब सूबेदार भवदेश बहादुर सिंह (जे०सी०-82643-एफ०)—17 जुलाई 1982 के स्थान पर

"नायब सूबेदार भवदेश बहादुर सिंह (जे०सी०-82643-एफ०)—01 अप्रैल 1982 पढ़ा जाए।

"नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह बडोरिया (जे०सी०-89955-ए०)—01 अगस्त 1982 के स्थान पर

"नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह बडोरिया (जे०सी०-89955-ए०)—01 अप्रैल 1982 पढ़ा जाए।

सं० 800, तारीख 16 अप्रैल 1984—23 जुलाई 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1666 तारीख 5 जुलाई 1983 में शीर्षक "नियमित सेना" उप शीर्षक "इन-फोर्मी" और "दि कुमांऊ रेजिमेंट" के अन्तर्गत :—

(क) सूबेदार के रैंक में

"नायब सूबेदार दान सिंह (जे०सी०-98483-एफ०)—01 अप्रैल 1982 के स्थान पर"

"नायब सूबेदार दान सिंह (जे०सी०-98483-एफ०)—01 अप्रैल 1982 पढ़ा जाए"

(ख) सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

"नायब सूबेदार क्लर्क जसोद सिंह अधिकारी (जे०सी०-100247-इड्यू०)—01 अप्रैल 1982 के स्थान पर,

"नायब सूबेदार क्लर्क जसोद सिंह अधिकारी (जे०सी०-100247-इड्यू०)—01 अप्रैल 1982 पढ़ा जाए"

(ग) नायब सूबेदार के रैंक में

"सी०एच०एम० पूरन सिंह (सं०-4149447-पी० अथवा जे०सी०-124656-ए०)—9 फरवरी, 1982 के स्थान पर।

"सी०एच०एम० पूरन सिंह (सं०-4149447-पी० अथवा जे०सी०-124656-ए०)—9 जनवरी 1982 पढ़ा जाए"

सं० 801, तारीख 16 अप्रैल 1984—24 सितम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं०-2137, तारीख 5 सितम्बर, 1983 में शीर्षक "नियमित सेना" उपशीर्षक "सैनिक शिक्षा कोर" के अन्तर्गत "नायब सूबेदार के रैंक में" के नीचे :—

"हवलदार राम भरण लला अग्रवाल (सं०-9503629-एम० अथवा जे०सी०-122970-एफ०)—के स्थान पर।

"हवलदार राम भरण लला अग्रवाल (सं०-9503629-एम० अथवा जे०सी०-122970-एफ०)—पढ़ा जाए।

सं० 802, तारीख 16 अप्रैल 1984—9 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं०-774 तारीख 14 मार्च, 1983 में शीर्षक "नियमित सेना" उपशीर्षक "सैनिक शिक्षा कोर" के अन्तर्गत "नायब सूबेदार के रैंक में" के नीचे :—

"हवलदार दलीप सिंह महला (सं०-9503440-पी० अथवा जे०सी०-117416-एफ०)—2 सितम्बर, 1981** के स्थान पर।

"हवलदार दलीप सिंह महला (सं०-9503440-पी० अथवा जे०सी०-117416-एफ०)—15 सितम्बर, 1981" पढ़ा जाए।

और "नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में" के नीचे :—

"हवलदार क्लर्क दर्शन कुमार (सं०-9501650-इड्यू० अथवा जे०सी०-17420-एल०)—के स्थान पर।

"हवलदार क्लर्क दर्शन कुमार (सं०-9501650-इड्यू० अथवा जे०सी०-17420-एल०)—पढ़ा जाए।

एम०के० राय, अवर सचिव

(भौतिका विभाग)

सं० 803, दिनांक 9 अप्रैल 1984—श्री एम० सी० अहमद, सिविलियन राजपत्रिन अधिकारी, 31 मार्च 1984 (अपराह्न) की सेवा निवृत्त हुए।

आर०डी० राजवन्शी, अवर सचिव

(वायु शाखा)

सं० 804, तारीख 10 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/8755/42/पी को 2/5814/पी (ए) तारीख 28 अप्रैल 52 के साथ पक्षीय यथा संगोषित वा से अनु 28/76 के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित को स्थायी कमीशन (एक वर्ष के लिए परबन्धीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेविगेशन) शाखा

(भूतपूर्व उड़ान क्रेडिट, पायलट अफसर के रूप में)

(621952) राम प्रबल कुमार (16839)—04 जून 82 से

सं० 805, तारीख 7 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की, जिन्हें स्थायी कमीशन (परबन्धीन) प्रदान किया गया था 04 जून 82 से पुष्टि करते हैं। उन्हें उनके नाम के सामने लिखी तारीख से परबन्धीन अफसर के मूल रैंक में पदोन्नत भी किया जाता है।

भारतीय वायु सेना

क्वाड्रन (नेविगेशन) शाखा

पायलट अफसर आर०पी० कुमार (16839)—04 जून 83 में।

एम०के० मिश्रा, सूत्राङ्गन सचिव

सहायक सचिव (3/डी)

सं० 806, तारीख 8 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

वे ई० शाखा

ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडोर के मूल रैंक में।

आर०के० नेहरा वि से मे (4518) वे ई (यां)—01 नव० 82।

एन० बलबर्नी (4528) वे ई० (यां०)—01 नव० 82।

एच०के० शर्मा, त्रिवि० सिवि, स्टा० ग्रफ

उप निदेश का (ग्रफ)—2

सं० 807, तारीख 9 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

उड़ान शाखा

विंग कमाण्डर, ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

आर० टंडन वा में (5391)—उड़ान (पायलट)—08 जुलाई 1981।

एन०जे० मिसेविबट्टा, वा में (5314)—उड़ान (पायलट)—08 दिसम्बर 1981।

रवीन्द्र कुमार, वा में (5315)—उड़ान (पायलट)—11 जनवरी 1982।

ई०एन० गाडरे (5378)—उड़ान (पायलट)—11 जनवरी 1982।

डी० आनंद (5588)—उड़ान (पायलट)—01 फरवरी 1982।

ए०एम० सेठी (5682)—उड़ान (पायलट)—01 मार्च 1982।

एच०एम० भूमन, वा में (5692)—उड़ान (पायलट)—02 मई 1982।

एन०आर० वेशपांडे, वा में (5694)—उड़ान (पायलट)—01 जून 1982।

बी०एस० पठानिया, वीरचक्र, वा में (5198)—उड़ान (पायलट)—02 जून 1982।

बी० पांयम (5274)—उड़ान (पायलट)—02 जून 1982।

डी०एम० बेन्म (5297)—उड़ान (नेवि०)—21 जून 1982।

बी०के० बागची (5583)—उड़ान (नेवि०)—21 जून 1982।

एम०डी० लालवनी, वा में (5658)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

जे०पी० मिह (5672)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

एम०ए० रहमान, वि०से०मे० (5711)—उड़ान (नेवि०)—21 जून 1982।

डी०एन० राठोर, वीरचक्र, वि०से०मे० (5780)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

जगवीर सिंह, वीरचक्र (5783)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

एस०के० बहल, वा में (5786)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

सरत कुमार (5787)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

बी० बैनजी (5800)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

ए०एन० मेहतानी, वा में (5804)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

ए०के० अवस्थी, वा में (5805)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

ए०एम० लाल (4760)—उड़ान (पायलट)—21 जून 1982।

ए०ए० शर्मा (4867)—उड़ान (नेवि०)—21 जून 1982।

एम०एम० शर्मा (5108)—उड़ान (पायलट)—01 अक्तूबर 1982।

बी० मुबट्टी (5196)—उड़ान (पायलट)—30 दिसम्बर 1982।

सं० 808, तारीख 7 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्यकारी पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडोर के कार्यकारी रैंक में

नरेश कुमार, वा में (5057)—09 जनवरी, 1984।

प्रशासन शाखा

विंग कमाण्डर, ग्रुप कैप्टन के कार्यकारी रैंक में

बी०मी० ठाकुर (5497)—16 जनवरी, 1984।

के०एम० शमोदरन, महा०निदेश० का० अ-2(ए)

सं० 809, तारीख 10 अप्रैल 1984—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, उनके नाम के सामने दी गई तारीख में स्वेच्छापूर्वक वा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

शिक्षा शाखा

ग्रुप कैप्टन बी०एम० श्रीवास्तव (4849)—30 अगस्त, 1983 (पूर्वाह्न)।

सौम्य विज्ञान शाखा

विंग कमाण्डर बी० कुमार पंजियर (7587)—01 जुलाई 1984 (पूर्वाह्न)।

उड़ान (पायलट)

स्वाइडन लीडर एन०एम० शर्मा (10461)—10 जुलाई 1984 (पूर्वाह्न)।

वे ई० (हैलिकॉप्टर शाखा)

स्वाइडन लीडर टी० माधव राव (8507)—01 मई 1984 (पूर्वाह्न)।

स्वाइडन लीडर ए०के० गम्वा (11200)—15 जुलाई 1984 (पूर्वाह्न)।

वे ई० (यां०) शाखा

विंग कमाण्डर बी० मुबर्जी (6566)—28 जुलाई 1984 (पूर्वाह्न)।

स्वाइडन लीडर (कार्यकारी विंग कमाण्डर) जी० एस० मुबीजा (6557)—10 जुलाई, 1984 (पूर्वाह्न)।

के०एम० एस० यादव, सिस्टा अफ महा०निदेश० का० अ-3(एफ)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th May 1984

MINISTRY OF DEFENCE, DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 762, dated 3rd April 1984.—The President is pleased to make the following appointment:—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

Dr. P. Sambhu Venkata Rao to be temporary Scientist 'C' in Naval Science & Technological Lab., Visakhapatnam on probation for a period of 2 years with effect from 09-12-1983 (FN).

Shri B. Vishwanath to be temporary Scientist 'C' in Defence Materials & Stores Research & Development Establishment, Kanpur on probation for a period of two years w.e.f. 12-1-1984 (FN).

Shri O. Subrahmanyam to be temporary Scientist 'C' in Naval Science & Technological Lab., Visakhapatnam on probation for a period of two years w.e.f. 31-1-1984 (FN).

Shri S. V. Rangarajan to be temporary Scientist 'C' in Naval Science & Technological Lab., Visakhapatnam on probation for a period of 2 years with effect from 05-1-1984 (FN).

M. C. SCARIA

Assistant Director (Pers)

No. 763, dated 26th March 1984.—The President is pleased to make the following appointments:—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

Shri B. SURESH KUMAR, JSO, NSTL, Visakhapatnam to be temporary Scientist 'B' in the same Estt. on probation for a period of two years 27 Feb '84 (FN).

Shri T. KRUSHNA CHANDRA PATRO to be temporary Scientist 'B' NSTL Visakhapatnam on probation for a period of two years, 23 Feb 84 (FN).

Shri T. V. DURGAPRASADA RAO, SSA, NSTL, Visakhapatnam to be temporary Scientist 'B' in the same Estt. on probation for a period of two years, 18 Feb 1984 (FN).

Shri D. S. RAJAGOPAL temporary Scientist 'B' (Ad-hoc), NSTL, Visakhapatnam to be temporary Scientist 'B' in the same Estt. on probation for a period of two years, 24 Feb '84 (FN).

Shri RAGHUVIR PRASAD MATHUR, to be temporary Scientist 'B', DMRL, Hyderabad on probation for a period of 2 years, 20 Feb '84 (FN).

Shri AMARENDRA NATH DAS, to be temporary Scientist 'B' DRDL, Hyderabad on probation for a period of 2 years, 16 Jan '84 (FN).

Shri M V K V PRASAD to be temporary Scientist 'B', DRDL, Hyderabad on probation for a period of 2 years 31 Jan '84 (FN).

Shri ARUN KUMAR to be temporary Scientist 'B' DRDL, Hyderabad on probation for a period of 2 years, 7 Jan '84 (FN).

Shri G. RAJESWARA RAO to be temporary Scientist 'B', DRDL, Hyderabad on probation for a period of 2 years, 7 Jan '84 (FN).

Shri B. RAMA KRISHNA RAO to be temporary Scientist 'B', DRDL, Hyderabad on probation for a period of 2 years, 18 Feb '84 (FN).

Shri S. JAYATHIRTHA to be temporary Scientist 'B', DRDL, Hyderabad on probation for a period of 2 years, 30 Jan '84 (FN).

S. S. JAMWAL,

Assistant Director (Personnel)

No. 764, date 31st March 1984.—Shri P. A. Trivedi, Office Supdt Gde I, Defence Materials & Stores Research & Development Establishment, Kanpur is promoted as Officiating Administrative Officer in Defence Research & Development Laboratory, Hyderabad with effect from 24-2-1983 (FN).

Shri Ram Parshad, Office Supdt. Gde I, Electronics & Radar Development Establishment, Bangalore is promoted as Officiating Administrative Officer in the same establishment with effect from 28-7-1982 (FN).

T. P. S. ANAND

Deputy Director (Pers)

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

No. 765, dated 3rd April 1984.—Consequent on acceptance of the voluntary retirement by the competent authority, Shri D. VITTAL, Scientist 'C', Explosives Research & Development Laboratory, Pune retired from service and transferred to pension establishment with effect from 31-3-1983 (AN).

M. C. SCARIA

Assistant Director (Pers)

RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 766, dated 7th April 1984.—On attaining the age of superannuation Sh. Ram Rattan Madan, SCSO retired from service, w.e.f. 31-3-1984 (AN) and transferred to pension establishment w.e.f. 01-4-1984.

G. D. VATSYA

Deputy Chief Administrative Officer

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE
CORRIGENDUM

No. 767, dated 5th April 1984.—Ministry of Defence Gazette Notification No. 1851 dated 31st July, 1982 published in Part I Section IV of Gazette of India dated 04-9-1982 in so far as it relates to Shri B. R. MARATHE is amended as follows:—

FOR

B. R. MARATHE,

READ

R. B. MARATHE

Ministry of Defence Gazette Notification No. 1851 dated 31st July '82 published in Part I Section IV of Gazette of India dated 04-9-1982 is amended as follows:—

FOR

The undermentioned Scientist 'B', Armament Research & Development Establishment, Pune to be officiating Scientists 'C' in the same Establishment w.e.f. 01st

July, 1982 (FN).

READ

The undermentioned Scientists 'B', Armament Research & Development Establishment, Pune to be officiating Scientists 'C', in the same Establishment w.e.f. 01st July, 1981 (FN).

M. C. SCARIA

Assistant Director (Pers)

NATIONAL CADET CORPS

No. 768, dated 12th April 1984.—The President is pleased to grant commission to the following:—

Senior Division (Army Wing)

To be Lt

Tamil Nadu

Gopalakrishnan Baskararajan (NCC|14384), 01 Jul 83 with seniority for promotion as 21st from 06th Dec 76 and Lt from 06th Dec 79.

To be 2/Lts

Madhya Pradesh

Rajendra Kumar SHUKLA (NCC|18062), 01st Jul 83, with seniority for promotion from 20th Oct 81.

Gujarat

Madhubhai Dalsukhbhai BARIA (NCC|15600), 01st Jul 83, with seniority for promotion from 08th Sep 81.

Gopal Singh RAO (NCC|15601), 01st Jul 83, with seniority for promotion from 19th Mar 82.

Bihar

Tarni Prasad SINGH (NCC|17538), 15th Oct 82, with seniority for promotion from 12th Jun 82.

V. K. MURTHY
Dir of Pers

ARMY BRANCH

No. 769, dated 16th April 1984.—The President is pleased to make the following appointments:—

ARMY HEADQUARTERS

(GS BRANCH)

Shri K. B. BATRA, Pt Research Officer to be Offg Senior Research Officer on local basis wef 20th March, 1984 (FN) for a period of three months or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

Shri Probho Singh, Pt Junior Research Officer to be Offg Research Officer on local basis wef 20th March, 1984 (FN) for a period of three months or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

Dr. Tej Prakash, Pt Senior Technical Asstt. to be Offg Junior Research Officer on local basis wef 20th March, 1984 (FN) for a period of three months or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

Shri S. Venugopalan, Permanent Stenographer Grade 'C' Air Headquarters to be Offg Stenographer Grade 'B' (SPA) in the AFHQ Stenographers' Service wef 2nd April, 1984 (FN) until further orders.

No. 770, dated 11th April 1984—1. On attaining the age of superannuation on 4-3-84, Shri ID Aggarwal, SCSO, OS Dte, MGO Branch, Army HQs retired from service wef 31-3-84 and transferred to pension establishment wef 1-4-84.

2. On attaining the age of superannuation on 21-3-84, Shri NKV Subramanian, CSO, OS Dte, MGO Branch, Army HQs retired from service wef 31-3-84 and transferred to pension establishment wef 1-4-84.

3. On attaining the age of superannuation on 31-3-84, Shri R.R. Bhaduri, CSO, OS Dte, MGO Branch, Army HQs, retired from service wef 31-3-84 and transferred to pension establishment wef 1-4-84.

(FINC'S BRANCH)

On attaining the age of superannuation (viz 58 years) Shri R. B. Iha SCSO, FinC's Branch Army Headquarters, retired from Govt. service with effect from 31-3-84 (AN) and transferred to Pension Establishment with effect from 1-4-84.

G. N. TRIPATHI
Up Mukhya Prashasan Adhikari

(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 771, dated 21st April 1984.—The undermentioned officers retired from service with effect from the date indicated against their name:—

MES-3190 Shri Ram Parkash Sharma AO II (Ty), UDC (Pt), 28 Feb 82 (AN).

MES-4753 Shri Dev Dutt Sharma AO II (Ty), UDC (Pt), 30 Apr 83 (AN).

MES-8458232 Shri HS Parwar SBSO (Ad-hoc), Supvr B/S Gde I (Pt), 31 Jul 83 (AN).

MES-139008 Shri PN Raghavan Pillai BSO (Offg), SK Gde II (Pt), 29 Feb 84 (AN).

MFS-105224 Shri Kolupaka Swamy SBSO (Ad-hoc), Supvr B/S Gde I (Pt), 29 Feb 84 (AN).

RD RAJVANSHI
Under Secretary

(ARMY BRANCH)

No. 772, dated 16th April 1984.—The President is pleased to appoint Maj. Gen. Ranbir Singh (IC-5833) as Colonel of the Assam Regiment with effect from 01st March, 1984.

No. 773, dated 11th April 1984.—The President is pleased to appoint Brig N S Malik (IC 11804) as the Colonel of 86 Armoured Regiment with effect from 2nd April, 1984.

SCHDEV SAHGAL
Lt Gen
Military Secretary

No. 774, dated 16th April 1984.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned is granted Permanent Commission in the rank 2Lt with effect from 16 Dec 1978 under the provisions of AI 4[S]67. He is also granted two years ante-date of seniority for pay and promotion i.e. from 16 Dec 76 under AI 4[S]67 as amended and he is promoted to the rank of Lt from 16 Dec 78.

NAMAKUZHJYIL MATHEN KOSHY (IC-35186P), SIGS with seniority next below Chigarapalli Ravichandra REDDY (IC-35860M), Sias whose name has been published in the Gazette of India Min of Def Notification No. 2054 dated 10 Sep 80.

SUBHASH CHANDER

Lt Col
AMS 8B

No. 775, dated 17th April 1984.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

Special List

The MARATHA LI

To be Sub (RT)

Nb Sub (Pandit) Mahadeo Dattatraya Gaikwad (IC 34010W), 1st May 1983

Nb Sub (M ulvi) Abdul-Rehman (IC-42259X), 1st May 1983.

Nb Sub (Pandit) Rajaram Padval (IC-42946N), 1st May 1983.

Nb Sub (Pandit) Lakshman Shince (IC-42947W), 1st May 1983.

Nb Sub (Pandit) Anant Parashram Kugji (IC-45077P), 1st May 1983.

Nb Sub (Pandit) Aba Gende (JS-49256M), 1st May 1983.

*The Punjab Regiment**To be Sub (Religious Teacher)*

Nb Sub (Granthi) Trilochan Singh Pradesi (JC-28549K), 03rd Feb 1983.

Nb Sub (Pandit) Prem Chand (JC-38184N), 01 May 83.

Nb Sub (Pandit) Moti Ram (JC-41598M), 01 May 83.

Nb Sub (Pandit) Yashwant Kumar (JC-48097N), 01 May 83.

No. 776, dated 17th April 1984.—The President is pleased to make the following appointments direct as Nb Sub:—

REGULAR ARMY**CORPS OF ENGINEERS****MES MILITARISED CADRE***(To be Nb Sub)*

Nb Sub Anand Singh Sijwali (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Madho Singh (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Lalit Mohan Sharma (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Jai Paul (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Hari Raj Singh (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Narendra Kumar (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Basawa Nand Chandola (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Jayendra Singh (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Niranjan Singh (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Sunil Kumar Arora (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Shashi Dhar Semwal (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Narayan Singh (JC-), 24 Jun 1983.

Nb Sub Hans Raj Gulia (JC-), 24 Jun 1983.

S. K. RAY

Under Secy.

No. 777, dated 16th April 1984.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY**ARMY DENTAL CORPS****(PERMANENT COMMISSION)***Maj to be Lt Col*

R K Sethi (DR-10180F), 5-10-83.

S. N. Mehta (DR-10210N), 25-10-83.

S K Puri (DR-10214K), 25-10-83.

ARMY DENTAL CORPS**(PERMANENT COMMISSION)***Maj (Surg Lt Cdr) to Lt Col (Surg Cdr)*

K U C RAO (DR-10201M) (79014K), 27-12-83.

Capt (Surg Lt (D) to be Maj (Surg Lcdr (D)

A S BHAGWAT (DR-10289F) (79027F), IN, 10-9-1983.

V. K. SRIVASTAVA

Under Secy.

No. 778, dated 16th April 1984.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY*Special List**To be Ris (Religious Teachers)*

Nb Ris Ram Bhagat Sharma (JC-30754K), 03rd Feb 1983,

*The Assam Regiment**To be Subedar Major (Religious Teacher)*

Subedar (Pandit) Dayaraj Upadhyaya (JC-13522F), 1st May 1983.

Subedar (Pandit) Vishwa Nath Tiwari (JC-36049F), 1st May 1983.

Subedar (Padre) Lalthanzauva (JC-9851N), 1st May 1983.

To be Subedar (Religious Teacher)

Nb Sub (Padre) Darkhuma (JC-30055Y), 3rd Feb 1983.

Nb Sub (Pandit) Tulshi Ram Upadhyaya (JC-30056F), 31d Feb 1983.

Nb Sub (Padre) L. Kungliana (JC-32970W), 1st May 1983.

*Brigade of The Guards**To be Sub (Religious Teacher)*

Nb Sub (RT) Brahma Datt (JC-38072P), 01st May 1983.

Nb Sub (RT) Rattan Chand Shashtri (JC-38073W), 01st May 1983.

Nb Sub (RT) Jai Ram Shukla (JC-49082X), 01st May 1983.

*The Garhwal Rifles**To be Sub Maj (Religious Teacher)*

Sub (RT) Bishamber Datt Sharma (JC-10491P), 1st May 1983.

1 GR*To be Sub Maj (Religious Teacher)*

Sub Krishan Dev Sharma (JC-54231A), 1st May 1983.

3 GR*To be Subedar (Religious Teacher)*

Nb Sub (RT) Suresha Nand Khankriyal (JC-29522X), 03rd Feb 1983.

4 GR*To be Sub Maj (Religious Teacher)*

Sub Bishu Nath Upadhyaya Regmi (JC-10298H), 1st May 1983.

5 GR*To be Sub (Religious Teacher)*

Nb Sub (RT) Bhim Prasad Gainwali (JC-29317X), 3rd Feb 1983.

Nb Sub (RT) Chhaya Datt Sharma Gautam (JC-41664H), 1st May 1983.

8 GR*To be Sub Maj (Religious Teacher)*

Sub (RT) Bhesht Raj Poudail (JC-62503N), 1st May 1983.

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Dhananjay Sharma (JC-31086L), 1st May 1983.

*The Grenadiers**To be Sub Maj (Religious Teacher)*

Sub (RT) Mahabir Prasad Sharma (JC-9617X), 01 May 83.

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Chandrika Prasad Dwivedi (JC139025L), 01 May 1983.

Nb Sub (RT) Kiteshwar Nath Upadhyaya (JC-33544P), 01 May 1983.

Nb Sub (RT) Jaswant Singh (JC-44005Y), 01 May 1983.

Nb Sub (RT) Hafiz Abdul Sattar Khan (JC-44792L), 01 May 1983.

Nb Sub (RT) Rameshwar Dayal Mishra (JC-49281L), 01 May 1983.

The Jat Regt

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (RT) Anand Singh (JC-9618A), 1st May 1983.

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Babu Ram Sharma (JC-34388X), 1st May 1983.

JAK RIF

To be Subedar Major (Pandit)

Sub (Pandit) Ram Datt Sharma (JC-8933K) 01 May 1983.

To be Subedar Major (Pandit)

Nb Sub (Pandit) Durga Datt Sharma (SC-27152L), 3rd Feb 1983.

The Parachute Regiment

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Matu Ram (JC-28315A), 2nd Feb 1983.

Nb Sub (RT) Ram Nath Sharma (JC-28316H), 2nd Feb 1983.

The Rajput Regiment

To be Sub (Religious Teacher)

Sub R T Sukhdev Prasad Dvivedi (JC-10917L), 1st May 1983.

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Nb Sub RT Kali Sahai (JC-31105L), 3rd Feb. 1983.

(The Raj Rif)

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub Pandit Ram Avtar Sharma (JC-13571X), 1st May 1983.

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub Maulvi Muhammed Idrees (JC-30507W), 3rd Feb 1983.

The Sikh LI

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub Harbhajan Singh (RT) (JC-32191N), 3rd Feb 1983.

Regiment of Artillery

To be Subedar (Religious Teacher)

Nb Sub Hari Singh (JC-28408P), 03 Feb 1983.

Nb Sub Ganpati Sharma (JC-28313P), 03 Feb 1983.

Nb Sub Jaswant Singh (JC-28246P), 03 Feb 1983.

Nb Sub Raj Kumar Dwivedi (JC-3040110), 03 Feb 83.

Nb Sub Sardool Singh Ghuman (JC-29521W), 03 Feb 1983.

Nb Sub Jagdish Prasad Bhardwaj (JC-30403P), 03 Feb 1983.

Corps of Engineers

Bengal Engineer Group

To be Sub Maj (religious Teacher)

Sub Avtar Singh (JC-13417Y), 1st May 1983.

Sub Sita Ram (JC-9143F), 1st May 1983.

Sub Ram Datt Tripathi (JC-11187X), 1st May 1983.

Sub Som Datt (JC-12357H), 1st May 1983.

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub Bhaskra Nand (JC-31868F), 1st May 1983.

Nb Sub Man Singh (JC-48945F), 1st May 1983.

Corps of Electrical and Mechanical Engineers

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub Murlidhar (JC-10509-A), 1st May 1983.

Sub Ram Nandhan Jha (JC-10868-N), 1st May 1983.

Sub Harishwar Nath Sharma (JC-66328-P), 1st May 1983.

Sub Ramehwar Dass (JC-22036-A), 1st May 1983.

Sub Ram Yagya Tripathi (JC-10296-X), 1st May 1983.

Sub Babu Ram Mishra (JC-11189-H), 1st May 1983.

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub Ram Prasad Sharma (JC-36048Y), 03 Feb 83.

Nb Sub Jagat Narayan Pathak (JC-28593N), 03 Feb 1983.

Nb Sub Bhaskara Nand Sharma (JC-34887)X, 03 Feb 1983.

Corps of Signals

To be Sub Maj (Religious Teacher) (Pandit)

Sub Bhuwan Chandra (JC-10295 P), 1st May, 1983.

Sub Rama Kant Tripathi (JC-12166 N), 1st May, 1983.

To be Sub Maj (Religious Teacher) (Granthi)

Sub Pritam Singh (JC-10294 M), 1st May, 1983.

Sub Gian Singh (JC-13568 X), 1st May, 1983.

Infantry

The Assam Regiment

To be Sub Maj

Sub Pamawia (JC-45882Y), 1st Mar 1983.

To be Sub

Nb Sub Lalngailova Lushai (JC-94316H), 1st Apr. 1982.

Nb Sub Lalohhuanawma Sailo Lushai (JC-95665Y), 1st Apr. 1982.

Nb Sub Ananda Ram Boro (JC-97826P), 1st Sep 1982.

Nb Sub Rajendra Chandra Das (JC-98825Y), 1st Mar 1983.

Nb Sub Lunden Anal (JC-99122K), 1st Aug 1983.

Nb Sub Paukhaolal Vaiphoi (JC-99703F), 1st Sep 1983.

To be Nb Sub

Hav Gunadhar Sinha (No 4345961L now JC-132123P), 12th Aug 1982

To be Subedar (Bandmaster)

Nb Sub (Bandmaster) Ratneswar Ray (JC-73260N), 1st Apr 1982

To be Nb Sub

Hav Banuranjan Sharma (No 4338503M now JC-132124X), 1st Jan 1983

Hav Wilber Sangma (No 4340858W now JC-132121K), 13th Jan 1983.*

*(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 1st Jan. 1983).

Hav Dharani Dhar Ray (No. 4345955X now JC-132122M), 6th May 1983.@

@(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub with effect on pay and allowance wef 3rd Jan 1983.)

The Bihar Regt

To be Subedar Major

Sub (RT) Ram Kumar Tripathi (JC-10752X), 1st May 1983.

To be Nb Sub

DHM Sri Krishna Singh (No. 4244236X now JC-128914P), 28th Apr 1982.

Hav Shree Jee Singh (No. 4239253N now JC-12891X), 04th Nov 1982.

Hav Sadhav Thakur (No. 4244815K now JC-128916A), 31st Dec. 1982.

CHM Marcus Sanga (No. 4236705A now JC-128917H), 11th Dec. 1982.

Hav Hare Karishan Bandhiya (No. 4251709N now JC-128918L), 11th Dec. 1982.

Hav Suresh Kumar Singh (No. 4244477X now JC-128919N), 10th Jan 1983.

*Brigade of The Guards**To be Sub Maj*

Sub Rambir Singh (JC-50357M), 01st Apr 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Ram Prasad Singh (JC-67539W), 01st Apr 1983.

To be Sub

Nb Sub Jaswant Singh (JC-86565M), 01st Apr 1982.

Nb Sub Deep Chand (JC-90005F), 01st Aug 1982.

Nb Sub Chandra Dee Pandey (JC-87165M), 01st Dec. 1982.

Nb Sub Rattan Singh (JC-91067K), 01st Dec. 1982.

Nb Sub Gopal Datt (JC-87791W), 11th Dec. 1982.

Nb Sub Sum Raghbir Singh (JC-81985H), 01st Feb 1983.

Nb Sub Jagir Singh (JC-81987M), 01st Mar 1983.

Nb Sub Prem Ballabh (JC-79073L), 01st Mar 1983.

Nb Sub Lakhpat Singh (JC-79816M), 01st Apr 1983.

Nb Sub Sadhoo Ram (JC-83659Y), 01st May 1983.

Nb Sub Tribhuban Prasad (JC-48452L), 07th May 1983.

Nb Sub Balbir Singh (JC-100746L), 20th May 1983.

Nb Sub (Clk) Sri Ram Misra (JC-96177H), 01st Apr 1983.

*The Dogra Regt**To be Sub Maj*

Sub Santokh Singh (JC-81590F), 1st Aug 1983.

To be Sub

Nb Sub Sampuran Singh Pathania (JC-95637M), 1st Apr 1983.

Nb Sub Bikram Singh (JC-99325N), 1st Apr 1983.

Nb Sub Kashmir Singh (JC-99326W), 1st July 1983.

Nb Sub Amar Nath (JC-99327Y), 1st Aug 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Jaswant Singh (JC-77049W), 1st Oct 1983.

To be Sub

Nb Sub Kanhya Lal (JC-95640M), 1st Aug 1983.

Nb Sub Dev Raj (JC-96498A), 1st Aug 1983.

To be Sub (Clerk)

Nb Sub Clk Raghbir Chand Chakranian (JC-97843P), 1st Aug 1983.

Nb Sub Clk Amar Singh (JC-97844X), 1st Aug 1983.

Nb Sub Clk Krishan Chand Sharma (JC-99329K), 1st Oct. 1983.

To be Sub

Nb Sub Kishori Lal (JC-100222K) 1st Mar 1983.

Nb Sub Pritam Chand (JC-103343W) 1st June 1983.

Nb Sub Kuldip Chand, (JC-90309P), 1st July 1983.

Nb Sub Harnam Singh (JC-100631X) 1st July 1983.

Nb Sub Rattan Singh (JC-95291N) 1st July 1983.

Nb Sub Prem Chand (JC-103345F), 1st June 1983.

Nb Sub Babu Ram (JC-95642X), 1st July 1983.

Nb Sub Duni Chand (JC-100798F) 1st July 1983.

Nb Sub Pars Ram (JC-100639K) 1st Sep 1983.

Nb Sub Rup Singh (JC-99320P) 1st Sep 1983.

Nb Sub Puni Chand (JC-101941P) 1st Sep 1983.

Nb Sub Hardial Singh (JC-104348F) 6th Sep 1983.

Nb Sub Balkrishan Sharma (JC-95292W) 1st Oct 1983.

To be Nb Sub

Hav Prem Singh (No. 3953007K Now JC 132141X) 28th Oct 1982.

Hav Dharam Singh (No. 3955961A Now JC 132142A), 11th Apr 1983.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Ajaib Singh Sanghu (No. 3957002H Now JC 132143H) 3rd May 1983*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st Apr 1983 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Jagdish Chander Rana (No. 3957008K Now JC 132144L) 12th Apr 1983**.

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st Apr 1983 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Kundan Lal (No. 3957031X Now JC 132145N) 1st Apr 1983.

Hav Clk Ved Parkash Sharma (No. 3957119F Now JC 132146W) 1st Apr 1983.

Hav Clk Brahma Nand Saunkhla (No. 3957121Y Now JC 132147Y). 1st Apr 1983.

Hav Inder Singh (No. 3953148Y Now JC 132138X), 27th Dec 1982*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10th Dec 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Gian Chand Dhadwal (No. 3961577P Now JC 132139A), 1st Apr 1983.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Manwar Singh (No. 3957080A Now JC-131240P) 1st Apr 1983.

*The Garhwal Rifles**To be Sub Maj*

Sub Chander Singh Sajwan (JC-50010A), 1st Aug 1982.

Sub Umed Singh Rawat (JC-50764P), 1st Jan 1983.

To be Sub

Nb Sub Gopal Singh (JC-85593M), 1st Apr 1982.

Nb Sub Kalam Singh (JC-96494K), 1st Apr 1982.

Nb Sub Bakhtawar Singh (JC-86406P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Nain Singh (JC-86898Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Bhagawan Singh (JC-86588N), 1st Apr 1982.

Nb Sub Dharam Singh (JC-90530N), 1st Apr 1982.

Nb Sub Kunwar Singh (JC-90238Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Raghbir Singh (JC-94330Y), 1st May 1982.

Nb Sub Natha Singh (JC-95651Y), 1st May 1982.

Nb Sub Kundan Singh Kandwal (JC-97834N), 1st May 1982.

Nb Sub Ram Singh Rawat (JC-103330Y), 1st June 1982.
 Nb Sub Shyam Singh Thapliyal (JC-90239F), 1st June 1982.

Nb Sub Puran Singh (JC-94337Y), 19th June 1982.
 Nb Sub Ratan Singh (JC-103332K), 1st July 1982.
 Nb Sub Amar Singh Rawat (JC-88072K), 1st July 1982.
 Nb Sub Balwant Singh (JC-86404K), 1st July 1982.
 Nb Sub Gobind Ram (JC-99690P), 1st July 1982.
 Nb Sub Bag Singh (JC-99687P), 1st July 1982.
 Nb Sub Balbir Singh (JC-99686M), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Sultan Singh (JC-86412H), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Prem Singh Rawat (JC-86904F), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Magna Nand (JC-85594P), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Pushkar Singh Rawat (JC-86905K), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Shankar Singh Rawat (JC-90531W), 7th Aug 1982.

Nb Sub Gulab Singh (JC-90533F), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Asha Ram (JC-91366H), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Meharwan Sinfh Bisht (JC-91367L), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Deb Singh Rawat (JC-91365A), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Gopal Singh (JC-94813M), 2nd Oct 1982.
 Nb Sub Darwan Singh (JC-93737Y), 27th Oct 1982.
 Nb Sub Hayat Singh Bist (JC-92487W), 31st Oct 1982.
 Nb Sub Kirpal Singh Negi (JC-95301M), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Ram Krishan Dhyani (JC-96136Y), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Chandī Prasad (JC-94185H), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Kripal Singh Gusain (JC-96490N), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Bhagwan Singh (JC-94812K), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Manbar Singh (JC-97477W), 1st Jan 1983.

To be Sub (Clerk)

Nb Sub (Clk) Shobha Ram (JC-101360X), 1st June 1982.
 Nb Sub (Clk) Raghbir Singh Rawat (JC-103341L), 30th Jan 1983.
 Sub Rai Singh Makhloga, (JC-50350X), 1st May 1983.
 Sub Gobind Singh Gusain, (JC-55416X), 1st May 1983.
 Sub Mahabir Singh Lingwal, (JC-63029X), 1st May 1983.

To be Sub

Nb Sub Harendra Singh Negi, (JC-95304A), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Girdhar Prasad Nautiyal, (JC-95649F), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Anand Singh, (JC-95299A), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Puran Singh, (JC-96493F), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Bhawani Singh Bhandari, (JC-97833L), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Umed Singh, (JC-97835W), 19th Jan 1983.
 Nb Sub Umrao Singh Kathait, (JC-98828M), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Jash Ram, (JC-99691X), 22nd Mar 1983.
 Nb Sub Shain Singh, (JC-100788X), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Mansa Ram, (JC-103474F), 1st May 1983.
 Nb Sub Bhawan Singh Rawat, (JC-103449H), 1st May 1983.
 Nb Sub Mahipal Singh Pimoli, (JC-103451A), 1st May 1983.
 Nb Sub Data Ram, (JC-103448A), 11th June 1983.
 Nb Sub Shyam Singh Negi, (JC-100236K), 18th June 1983.
 Nb Sub Sishpal Singh Rawat, (JC-104087Y), 1st July 1983.
 Nb Sub Himmat Singh, (JC-104092K), 1st July 1983.

Nb Sub Jai Singh, (JC-103480P), 1st July 1983.
 Nb Sub Bachan Singh, (JC-106767X), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Arjun Singh Gusain, (JC-103333M), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Jaikirat Singh Rawat, (JC-104097H), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Bholā Datt Deorari, (JC-93738F), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Chandar Singh, (JC-98827K), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Autar Singh Pundir, (JC-99693H), 12th Sep 1983.

To be Nb Sub

Hav Pushkar Singh Negi, (No. 4040429W now JC-128938Y), 18th Sep 1982*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17th May 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Harendar Singh, (No. 4041118P now JC-128939), 26th May 1982.

Hav Bhupal Singh (No. 4038279M now JC-128940W), 19th June 1982.

Hav Soban Singh Gusain, (No. 4039259L now JC-128941Y), 21st July 1982.

Hav Shispal Singh Chauhan, (No. 4040435K now JC-128942F), 10th Aug 1982.

Hav Jagat Singh Bisht, (No. 4045986Y now JC-128943K), 8th Sep 1982.

Hav Chhatar Singh Rana, (No. 4038144L now JC-128943K), 17th Oct 1982.

Hav Alam Singh Negi, (No. 4043872P now JC-128945P), 27th Dec 1982*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27th Oct 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Mangal Singh Gusain, (No. 4039888H now JC-128946X), 12th Dec 1982*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1982 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Shoorbeer Singh Rawat, (No. 4042816K now JC-128947A), 14th Jan 1983*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 1st Jan 1983 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Balbir Singh Bisht, (No. 4043090Y now JC-128948H), 30th Jan 1983.

Hav Dhanvir Singh, (No. 4050446K now JC-132131N), 30th Dec 1982*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th July 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Partap Singh, (No. 4041905W now JC-132132W), 4th Dec 1982.

Hav Gaur Singh, (No. 4046632H now JC-132133Y), 4th Dec 1982.

Hav Dhan Singh, (No. 4046582H now JC-132134F), 10th Jan 1983*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Dec 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Magna Nand, (No. 4041879A now JC-132135K), 12th Mar 1983.

Hav Yashpal Singh, (No. 4038773H now JC-132136M), 20th May 1983.

Hav Kishor Singh, (No. 4042699K now JC-132137P), 1st June 1983.

1 GR

To be Sub

Nb Sub Kubir Singh Golay, (JC-89207M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sant Ram Kunwar, (JC-93327H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Harka Bahadur Gurung, (JC-80986Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Eman Singh Thapa, (JC-94661W), 1st May 1982.
 Nb Sub Hira Bahadur Magar, (JC-89208P), 1st July 1982.
 Nb Sub Deb Bahadur Pun, (JC-90702X), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Nanda Bahadur Thapa, (JC-89210N), 1st Nov 1982.

- Nb Sub Beg Bahadur Ale, (JC-92829Y), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Gagan Bahadur Pun, (JC-90700M), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Mani Chander, (JC-90701P), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Ram Darshan Sahi, (JC-89209X), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Kishan Singh Chhetri, (JC-89506L), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Amar Bahadur Gurung, (JC-93420K), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Jit Bahadur Thapa, (JC-93421M), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Jagat Bahadur Gurung, (JC-95686P), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Run Kaji Gurung, (JC-95687X), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Pirthi Man Gurung, (JC-88193L), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Parta Singh Gurung, (JC-90706N), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Basant Kumar Tamang, (JC-9020 6W), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Darshan Singh Thapa, (JC-88198K), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Thaman Singh Rana, (JC-88822X), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Kul Bahadur Gurung, (JC-93422A), 1st Feb 1983.

To be Sub (Clk)

- Nb Sub (Clk) Tripur Bahadur Gurung, (JC-92830N), 1st June 1982.
 Nb Sub (Clk) Kashmir Singh Gularia, (JC-99663L), 1st Nov 1982.

To be Nb Sub

- Hav Man Bahadur Thapa, (No. 5033899P now JC-129280W), 16th Oct 1982.
 Hav Mangal Singh Limbu, (No. 5036643X now JC-129281Y), 16th Oct 1982.
 Hav Kharka Bahadur Rana, (No. 5033852K now JC-129282F), 1st Nov 1982.
 Hav Chakra Bahadur Roka, (No. 5035295P now JC-129283), 1st Dec 1982.
 Hav Dev Singh Thapa, (No. 503433Y now JC-129284M), 1st Dec 1982.

*3 GR**To be Subedar Major*

- Sub Prem Bahadur Thapa, (JC-73021Y), 01st Mar 1983.
 Sub Partiman Thapa, (JC-64623L), 01st July 1983.
 Sub (Clk) Santosh Kumar Joshi, (JC-67387A), 01st June 1983.

To be Subedar (Clk)

- Nb Sub (Clk) Sheo Muni Rai, (JC-100268M), 01st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Roshan Lal, (JC-NYA) (5235638K), 01st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Ram Niwas Rai, (JC-105660W), 01st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Santosh Narain Joshi, (JC-101323K), 01st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Dharam Pal Singh, (JC-101324M), 01st Apr 1982.
 Nb Sub Ram Kailash Pandey, (JC-105662F), 01st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Balmiki Singh, (JC-105773Y), 01st Apr 1982.
 Nb Sub (Clk) Mangla Prasad Shukla, (JC-105774F), 01st Sep 1982.

To be Nb Sub

- Hav Top Bahadur Thapa, (5238757L now JC-129285P), 15th June 1982.
 Hav Indra Bahadur Thapa, (5240386M now JC-129286X), 05th Sep 1982.

- Hav Sher Bahadur Thakuri, (5237835L now JC-129287A), 01st Nov 1982.
 Hav Dor Bahadur Gurung, (5238043X now JC-129288H), 30th Nov 1982.
 Hav Ram Prasad Gurung, (5237753H now JC-129389L), 01st Dec 1982.
 Hav Nima Dorjee Sherpa, K C, SM, (5840308M now JC-129290), 01st Dec 1982.
 Hav Hasta Bahadur Thapa, (5237551F now JC-129291H), 01st Oct 1982.

*4 GR**To be Sub Maj*

- Sub Jag Bahadur Rana, (JC-61937F), 1st Sep 1983.
 Sub Purna Bahadur Gurung, (JC-61940F), 1st Sep 1983.
 Sub Dal Bahadur Gurung, (JC-61941K), 1st Sep 1983.

To be Sub

- Nb Sub Nathu Ram Gurung, (JC-88219P), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Min Bahadur Gurung, (JC-88222P), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Bishnu Parsad Gurung, (JC-88223X), 1st Sep 1983.

- Nb Sub Chakra Bahadur Thapa, (JC-82107Y), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Debi Prasad Gurung, (JC-95326Y), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Padam Bahadur Thapa, (JC-91886N), 1st Jun 1983.
 Nb Sub Pradhuman Singh Thapa, (JC-91887N), 1st Jan 1983.

To be Sub Clk

- Nb Sub Clk Bhagwan Singh Verma, (JC-94650X), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Jit Bahadur Gurung, (JC-91660H), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Clk Bodh Raj Aggerwal, (JC-94369F), 1st Oct 1983.

To be Nb Sub

- Hav Bir Bahadur Thapa, (No. 5235915Y now JC-129292L), 1st Nov 1982.
 Hav Baldev Singh Gutung, (No. 5339627K now JC-129293N), 1st Nov 1982.
 Hav Karua Bahadur Pun, (No. 5336491A now JC-129284W), 1st Dec 1982.
 Hav Pushkar Singh Gurung, (No. 5339140W now JC-129295Y), 1st Dec 1982.
 Hav Bhabisor Gurung, (No. 5336760F now JC-129296F), 14th Jan 1983*.

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 82).

- Hav Kul Bahadur Gurung, (No. 5337102F now JC-129297K), 15th Jan 1983@.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 82).

To be Sub Maj

- Sub Dal Bahadur Gurung, Vrc, (JC-65760W), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Chitra Bir Thapa, (JC-94373K), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bhagwan Singh Thapa, (JC-94374M), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Bala Singh Thapa, (JC-92843L), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Hasta Bahadur Thapa, (JC-92844N), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Agam Bahadur Gurung, (JC-93964Y), 1st Mar 1983.

To be Sub Maj

Sub Bal Bahadur Gurung, (JC-53633P), 1st Sep 1983.

To be Sub

Nb Sub Krishna Bahadur Gurung, (JC-93965F), 1st July 1983.

Sub Chandra Bahadur Gurung, (JC-54682K), 1st Oct 1983.

Sub Nar Bahadur Gurung, (JC-68485M), 1st Nov 1983.

To be Sub

Nb Sub Gau Bahadur Pun, (JC-95694N), 1st Sep 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Madho Singh Chettri, (JC-71904K) 1st Dec 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Narain Dutt Nautiyal, (JC-101147X), 1st Dec 1983.

To be Sub

Nb Sub Amar Bahadur Gurung, (JC-95695W), 1st Feb 1983.

Nb Sub Lal Bahadur Gurung, (JC-97337K), 1st Oct 1983.

Nb Sub Jit Bahadur Thapa, (JC-97341M), 1st Oct 1983.

Nb Sub Dam Bahadur Thapa, (JC-95696Y), 1st Oct 1983.

Nb Sub Bal Bahadur Pun, (JC-99638M), 1st Nov 1983.

Nb Sub Resam Bahadur Thapa, (JC-95697P), 1st Nov 1983.

Nb Sub Jang Bahadur Thapa, (JC-95698K), 1st Nov 1983.

Nb Sub Jhanka Bir Thapa, (JC-96365Y), 1st Nov 1983.

Nb Sub Bal Bahadur Gurung, (JC-92782Y), 1st Jan 1983.

Nb Sub Lachhim Bahadur Gurung, (JC-90228P), 1st Feb 1983.

Nb Sub Kharka Singh Gurung, (JC-91870H) 1st Apr 1983.

To be Nb Sub

Hav Bhakta Bahadur Thapa, (No. 5438235Y now JC-129298M), 1st Dec 1982.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Pratap Singh Sontial, (No. 5439609W now JC-129299P), 6th Dec 1982*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 2nd Nov 1982 without effect on pay and allowances).

8 GR

To be Sub Maj

Sub Gang Bahadur Thapa, (JC-58432A), 1st Sep 1983.

To be Sub

Nb Sub Dil Bahadur Gurung, (JC-103224A), 1st Apr 1982.

Nb Sub Vaishno Rana, (JC-86860P), 1st July 1982.

Nb Sub Shib Singh Thapa, (JC86861X), 1st July 1982.

Nb Sub Nauras Ghale, (JC-103431M), 1st Jan 1983.

Nb Sub Tirtha Bahadur Rana, (JC-89817Y), 1st Feb 1983.

Nb Sub Tul Bahadur Rana, (JC-93768Y), 1st Feb 1983.

Nb Sub Dhan Bahadur Nepali, (JC-87539X), 1st Feb 1983.

Nb Sub Pahal Singh Ale, (JC-95770W), 1st Feb 1983.

Nb Sub Tika Bahadur Pradhan, (JC-104278N), 5th Apr 1983.

Nb Sub Namgyal Sherpa, (JC-98623X), 1st July 1983.

Nb Sub Sad Bahadur Rana, (JC-86848W), 1st Dec 1982.

Nb Sub Bhim Bahadur Thapa, (JC-94642L), 1st Feb 1983.

Nb Sub Nar Bahadur Gurung, (JC-94643N), 1st Apr 1983.

Nb Sub Durga Bahadur Thapa, (JC-89202N), 1st Aug 1983.

Nb Sub Gauriman Gurung, (JC-88825L), 1st Sep 1983.

Nb Sub Puran Singh Rana, (JC-88181W), 1st May 1982.

Nb Sub Ran Bahadur Thapa, (JC-96750N), 1st Aug 1982.

Nb Sub EK Bahadur Thapa, (JC-96754K), 1st Nov 1982.

Nb Sub Gaj Bahadur Gurung, (JC-98622P), 1st Jan 1983.

Nb Sub Dam Bahadur Pun, (JC-99152F), 1st Jan 1983.

To be Nb Sub

Hav Lilambar Rana, (5739281Y now JC-129313W), 7th June 1982*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.f 1st Mar 1982 without effect on pay and allowances).

Hav. Harka Bahadur Pun, (5744051P now JC-129314Y), 5th Aug 1982**.

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22nd June 1982 without effect on any and allowances).

Hav Lam Bahadur Gurung, (5740896W now JC-129315F), 1st July 1982.

Hav Rel Bahadur Thapa, (5441961X now JC-129316K), 2nd July 1982.

Hav Promod Kumar Shrestha, (5744402Y now JC-129317M), 2nd July 1982.

Hav Dorje Tamang, (5741147M now JC-129318P), 9th Aug 1982.

Hav Tirtha Bahadur Tamang, (5740047P now JC-129319X), 31st Oct 1982.

9 GR

To be Subedar Major

Sub Man Bahadur Bhandari, (JC-42737W), 01st July 1983.

Sub Lachhuman Singh Thapa, (JC-54875K), 01st July 1983.

Sub Damar Bahadur Sahi, (JC-62431A), 01st July 1983.

To be Sub

Nb Sub Ran Bahadur Thapa, (JC-84087P), 01st Apr 1982.

Nb Sub Shib Bahadur Chhetri, (JC-91865X), 01st Nov 1982.

Nb Sub Dhal Bahadur Adhikari, (JC-91866A), 01st Nov 1982.

Nb Sub Shes Bir Sahi, (JC-91093L), 01st Nov 1982.

Nb Sub Nar Bahadur Chhetri, (JC-92800W), 01st Dec 1982.

Nb Sub Rudra Bahadur Thapa, (JC-91108N), 01st Dec 1982.

Nb Sub Kharka Bahadur Mall, (JC-91641X), 01st Dec 1982.

Nb Sub Jit Bahadur Khattri, (JC-91109L), 01st Jan 1983.

Nb Sub Kaman Singh Chhetri, (JC-91640P), 24th Jan 1983.

Nb Sub Kishan Bahadur Sahi, (JC-93774M) 01st Feb 1983.

Nb Sub Ghan Bahadur Sahi, Vrc, (JC-91868L), 01st Feb 1983.

Nb Sub Narain Singh Mall, (JC-96746L), 01st Feb 1983.

Nb Sub Bodh Bahadur Chhetri, (JC-94384W), 01st Feb 1983.

Nb Sub Deb Bahadur Chhetri, (JC-92801X), 16th Apr 1983.

Nb Sub Ganesh Bahadur Chhetri, (JC-95409K), 01st May 1983.

To be Nb Sub

Hav Ganga Bahadur Chhetri (5835669F now JC-129320 M), 26th Nov 1982.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Kharka Bahadur Chhetri (583520P now JC-129321 P), 01st Nov 1982.

Hav Kishna Bahadur Chhetri (5835674M now JC-129322 X), 01st Nov 1982.

Hav Dil Bahadur Sen (5840143Y now JC-129323A), 01st Dec. 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Chham Bahadur Chhetri (5840376A) now JC-129324 H), 02nd Dec 1982.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 1982 without effect on pay and allowances).

11 GR

To be S/Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (Religious Teacher) Chhabi Lal Sharma Gautam (JC-8889L), 1st May 1983.

11 GR

To be S/Sub Maj

Sub As Bahadur Rai (JC-56329W) wef 1st May 1983.

To be S/Sub Maj

Sub Bir Bikram Limbu (JC-65529N) wef 1st Sep 1983.

Sub Tashi Dorje Lama (JC-56332W) wef 1st Sep 1983.

To be S/Sub

Nb Sub Santa Bir Rai (JC-91095W) wef 1st Jun 1982.

Nb Sub Purna Bahadur Dewan (JC-91096Y) wef 1st Oct 1982.

Nb Sub Dukul Rana (JC-93035A) wef 1st Nov 1982.

Nb Sub Tirtha Bahadur Rai (JC-90133K) wef 1st Dec 1982.

Nb Sub Indra Lal Limbu (JC-94387K) wef 1st Dec 1982.

Nb Sub Dhan Raj Rai (JC-90195P) wef 1st Dec 1982.

Nb Sub Phurba Lepcha, VrC (JC-93039W) wef 1st Sep 1983.

Nb Sub Khem Bahadur Limbu (JC-95418L) wef 1st Oct 1983.

Nb Sub Mingma Sherpa (JC-90194M) wef 1st Nov 1983.

Nb Sub Jagdish Thapa (JC-93036H) wef 1st Nov 1983.

Nb Sub Bir Dhoj Limbu (JC-93779L) wef 1st Jan 1983.

Nb Sub Basant Kumar Subba (JC-93637L) wef 1st Apr 1983.

To be Sub

Nb Sub Chhabi Lal Rai (JC-96741M) wef 1st Mar 1983.

The Grenadiers

To be Sub Maj

Sub Ramchandra Singh (JC-48958Y), 01st June 1983.

To be Sub

Nb Sub Sabdal Khan (JC-99091P), 01st June 1983.

To be Sub Maj

Sub Allahdeen Khan (JC-60367K), 01st Sep 1983.

To be Sub

Nb Sub Bal Krishan (JC-94206N), 01st June 1983.

Nb Sub Mani Ram (JC-99288L), 01st Jul 1983.

Nb Sub Nand Ram, VrC (JC-90249L), 31st Jul 1983.

Nb Sub Lal Singh (JC-102921N), 08th Sep 1983.

Nb Sub Samdar Khan (JC-83691N), 01st Oct 1938.

Nb Sub Girvar Singh Shekhawat (JC-101481Y), 06th Oct 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Shiri Chand (JC-100206M), 29th Aug 1983.

To be Sub

Nb Sub Mangtu Ram (JC-96551A), 01st Apr 1982.

Nb Sub Chhotu Ram Dhaner (JC-99095L), 01st Jan 1983.

Nb Sub Kuldip Singh (JC-104731A), 01st Apr 1983.

Nb Sub Ram Singh (JC-82008W), 12th Apr 1983.

Nb Sub Richpal Singh (JC-98655A), 01st Feb-1983.

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-99286A), 01st Apr 1983.

Nb Sub Kishan Puri (JC-86538H), 21st Jul 1983.

Nb Sub Charan Dev Singh (JC-102920L), 14th Aug 1983.

Nb Sub Bholu Khan (JC-104720N), 17th Aug 1983.

Nb Sub Dariya Singh (JC-95264K), 01st Sep 1983.

Nb Sub Sobaran Singh (JC-95587M), 01st Sep 1983.

Nb Sub Asgar Ali (JC-07114M), 01st Apr 1983.

Nb Sub Inderpal Singh (JC-84487F), 03rd May 1983.

The Jat Regt

To be Sub Maj

Sub Chand Ram (JC-63811A), 1st Aug 1983.

Sub Jagdish Pal Singh (JC-66565L), 1st Aug 1983.

Sub Raje Ram (JC-56263L), 8th Aug 1983.

Sub Budh Singh (JC-70850F), 1st Sep 1983.

Sub Nihal Singh (JC-66567W), 1st Sep 1983.

Sub Ganga Singh (JC-62590M), 1st Oct 1983.

To be Sub

Nb Sub Gian Singh (JC-99683Y), 1st Aug 1983.

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-92478P), 1st Aug 1983.

Nb Sub Subha Chand (JC-94832X), 1st Aug 1983.

Nb Sub Ram Phal Singh (JC-95283P), 8th Aug 1983.

Nb Sub Balbir Singh (JC-95285A), 20th Aug 1983.

Nb Sub Jug Lal (JC-96515P), 1st Sep 1983.

Nb Sub Hawa Singh (JC-97462N), 1st Sep 1983.

Nb Sub Dava Nand Ruhil (JC-103090M), 1st Sep 1983.

Nb Sub Mohan Lal (JC-103091P), 1st Sep 1983.

Nb Sub Tai Chand (JC-103092Y), 1st Sep 1983.

Nb Sub Rani Singh (JC-103083W), 1st Oct 1983.

Nb Sub Hoshiar Singh (JC-102059N), 1st Oct 1983.

Nb Sub Bhim Singh (JC-87992P), 1st Oct 1983.

To be Nb Sub

Hav Rich Singh (No 3148123F now JC-132160H), 28th Nov 1982.

Hav Ribhendu Singh (No 3154711I now JC-132161I), 07th Feb 1983.

Hav Jug Lal (No. 3144586N now JC-132152K), 3rd Jan 1983.

Hav Tata Chand (No. 3143243W now JC-132153M), 28th Mar 1983.

Hav Singh Ram (No. 3143879X now JC-132154P), 1st Apr 1983.

Hav Phool Singh (No. 3145627K now JC-132155X), 9th May 1983.

Hav Shri Krishan (No. 3145310P now JC-132156A), 12th June 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th May 1983 without effect on pay and allowances).

Hav Rampal Singh (No. 3148647H now JC-132157H), 23rd May 1983.

Hav Ishwar Singh (No. 3145838M now JC-132158I), 1st June 1983.

Hav Teat Singh (No. 3146325K now JC-132159N), 1st June 1983.

JAK RIF

To be Sub Maj

Sub Atian Singh (JC-61520F), 1st Feb 1983.

To be Subedar

Nb Sub Sarwan Ram (JC-94390K), 30th Sep 1982

Nb Sub Baldev Singh (JC-79889P), 20th Oct 1982

Nb Sub Jagdev Singh (JC-80118M), 13th Dec 1982

Nb Sub Prem Singh (JC-86474H), 13th Dec 1982.

Nb Sub Ajit Singh (JC-86708F), 13th Dec 1982

Nb Sub Rikhi Raj Sen (JC-93322K), 13th Dec 1982

Nb Sub Kaka Ram (JC-83634M), 14th Dec 1982

To be Sub Maj Ck

Sub Ck Kumar Prasad Chhetri (JC-55402X), 1st Dec 1982

To be Sub Ck

Nb Sub Ck Raghbir Singh (JC-90903W), 1st July 1982.

Nb Sub Ck Hardev Singh (JC-93337M), 1st July 1982

Nb Sub Ck Joginder Nath (JC-93338P), 1st July 1982.

Nb Sub Ck Om Parkash (JC-92771M), 1st Dec 1982

To be Sub Maj

Sub Parkash Singh (JC-52371X), 01st Apr 1983.

Sub Gurdip Singh (JC 71267Y), 01st May 1983.

Sub Ram Lal (JC-58343F), 01st July 1983.

Sub Bansi Ram (JC-55184K), 01st Jul 1983.

Sub Pritam Singh (JC-65051F), 01st Jul 1983

Sub Rai Singh (JC-60480Y), 01st Jul 1983

To be Subedar

Nb Sub Prem Singh (JC-79118Y), 1st July 1981.

Nb Sub Ram Singh (JC-78294L), 1st Dec 1981.

Nb Sub Rattan Singh (JC-80126L), 1st Dec 1981.

Nb Sub Budhi Man (JC-80128W), 1st Apr 1982

Nb Sub Ugen Parshad Chhetri (JC-83428H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Binka Lam (JC-85194H), 1st Apr 1982.

Nb Sub Dhani Ram (JC-94757Y), 1st Apr 1982.

Nb Sub Bhaent Ram (JC-90902N), 2nd July 1982

Nb Sub Sartai Singh Guleria (JC-79953F), 28th Nov 1982

Nb Sub Mehar Singh (JC-79954K), 1st Dec 1982

Nb Sub Govind Ram (JC-94395H), 1st Dec 1982.

Nb Sub Bahadur Singh (JC-75401W), 13th Dec 1982.

Nb Sub Shiv Ram (JC-81268P), 13th Dec 1982.

Nb Sub Sandal Singh (JC-82114P), 13th Dec 1982.

Nb Sub Shyam Singh Lahe (JC-83419F), 13th Dec 1982.

Nb Sub Kherati Lal (JC-83635P), 13th Dec 1982.

Nb Sub Sohan Singh (JC-96308H), 13th Dec 1982.

Nb Sub Krishan Lal (JC-83636X), 26th Jan 1983.

Nb Sub Onkar Singh (JC-82823K), 1st Feb 1983.

Nb Sub Ram Singh Karki (JC-83816A), 1st Feb 1983.

Nb Sub Major Singh (JC-85189X), 1st Feb 1983.

Nb Sub Dina Nath (JC-82821L), 13th Dec 1982.

To be Nb Sub

Hav Pravin Kumar (13721717F Now JC-129327W), 24th Aug 1982.+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12th Aug 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Parkash Singh (13726179H Now JC-129328Y), 29th Nov 1982.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th Sep 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Talab Singh (13727258K Now JC-129329F), 12th Dec 1982.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Oct 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Mani Ram (13723271W Now JC-129330W), 12th Nov 1982.

Hav Warvam Singh (13720227F Now JC-129331Y), 4th Dec 1982.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Nov 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Om Parkash Singh Dogra (13721205P Now JC-129332F), 4th Dec 1982.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1982 without effect on pay and allowances).

JAK LI

TO BE SUBFDAR (CLERKS)

Nb Sub (Ck) Ram Dass (JC-92012M), 1st Apr 82.

Nb Sub (Ck) Omkar Singh (JC-461K), 1st Apr 82.

Nb Sub (Ck) Feju Ram (JC-91928P), 1st Apr 82.

Nb Sub (Ck) Jafir Singh (JC-100332Y), 1st Apr 82.

Nb Sub (Ck) Abdul Gaffar Dar (JC-100482P), 1st Aug 82.

TO BE SUBEDAR

Nb Sub Gandhlab Singh (JC-90847H), 1st Apr 82.

Nb Sub Dava Ram Sharma (JC-95799X), 1st Dec 82.

Nb Sub Bhagat Ram (JC-92793X), 1st Feb 83.

Nb Sub Mir Hussain (JC-93027F), 1st Jul 83.

Nb Sub Rattan Lal (JC-92015A), 1st Apr 82.

Nb Sub Dev Raj (JC-92016H), 1st Jul 83.

Nb Sub Joinder Singh (JC-482A), 1st Jun 82.

Nb Sub Karnail Chand (JC-484X), 1st Sep 82.

Nb Sub Beli Ram (JC-470K), 1st Dec 82.

Nb Sub Brij Mohan Sharma (JC-91769H), 1st Dec 82.

Nb Sub Om Parkash (JC-95412K), 1st Nov 82.

Nb Sub Mohd Azam (JC-91991K), 19th Nov 82

Nb Sub Nainetullah Qureshi (JC-466H), 27th Sep 83.

TO BE SUBEDAR (CLERK)

Nb Sub (Ck) Amanulla Khan (No 9072460L3, 1st Mar 83

Nb Sub (Ck) Faqir Chand Aryan (JC-107852M), 15th Sep 83.

TO BE SUBEDAR

Nb Sub Gopal Singh (JC-95413M), 1st Apr 83.

*The Kumaon Regt**To be Sub Maj*

Sub Kundan Singh Doshad (JC-49484P), 1st Apr 1983.

Sub Prayag Singh (JC-6993M), 1st Apr 1983.

Sub Amar Singh (JC-53319 F) 1st May 1983.

Sub Lakshman Singh (JC-56001 P) 1st June 1983.

Sub Bal Kishan (JC-58384 L) 1st June 1983.

Sub Indraaj Singh (JC-48942 N) 1st June 1983.

Sub Harihar Singh, SC (JC-44459 M) 1st June 1983.

Sub Shahamal Singh (JC-76246 M) 1st June 1983.

Sub Hayat Singh (JC-68958 A) 1st July 1983.

To be Sub

Nb Sub Dalip Singh (JC-82078 P)^{1/2} 1st Apr 1982.

Nb Sub Khima Nand (JC-88804 P) 1st Feb 1983.

Nb Sub Gopal Datt Joshi (JC-103314 F) 1st Aug 1983.

Nb Sub Bishan Singh (JC-103315 K) 1st Aug 1983.

Nb Sub Pati Ram (JC-103310 L) 1st Sep 1982.

Nb Sub Gulab Ram (JC-103311 N) 1st Oct 1982.

Nb Sub Sher Singh (JC-97486 X) 1st July 1983.

Nb Sub Murli Dhar (JC-92342 L) 28th Nov 1982.

Nb Sub Jai Shri Ram Yadava (JC-103483 H) 1st Feb 1983.

Nb Sub Narendra Chand (JC-92481 P) 1st Apr 1983.

Nb Sub Umed Singh (JC-85814 N) 1st May 1983

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Ishwar Singh (JC-100249 F) 1st Aug 1983.

Nb Sub (Clk) Sher Singh Yadava (JC-100672 F) 1st Aug 1983.

Nb Sub Hayat Singh (JC-99714 N) 23rd Nov 1982.

Nb Sub Khushal Singh (JC-103305 A) 1st Jan 1983.

Nb Sub Moti Singh (JC-95656 X) 1st Apr 1983.

Nb Sub Hira Singh (JC-100640 Y) 1st Apr 1983.

Nb Sub Dharam Pal (JC-96105 Y) 1st June 1983.

Nb Sub Bhupal Singh (JC-96099 W) 1st June 1983.

Nb Sub Tej Singh (JC-99119 K) 1st June 1983.

Nb Sub Phul Chand (JC-96100 A) 1st July 1983.

Nb Sub Hayat Singh (JC-103493 M) 1st July 1983.

Nb Sub Raghbir Singh (JC-90212 K) 1st Aug 1983.

Nb Sub Gangan Singh (JC-106059 L) 1st Aug 1983.

Nb Sub Sheo Chand Ram (JC-97492 L) 1st Sep 1983.

Nb Sub Shyam Lal (JC-100646 A) 1st Oct 1983.

Nb Sub Gokal Chand (JC-100244 H) 1st Oct 1983.

Nb Sub Gopal Chand Raja (JC-92343 N) 01 Apr 1983.

Nb Sub Man Bahadur Pal (JC-103486 W) 01 Sep 1983

Nb Sub Khushal Singh (JC-114015 H) 06 Sep 1983.

Nb Sub Prem Singh (JC-96495 H) 1st Apr 1983.

Nb Sub Bal Chandra Singh (JC-97482 F) 1st July 1983.

Nb Sub Umed Singh (JC-100650 H) 1st July 1983.

Nb Sub Prahlad Singh (JC-103484 L) 1st Aug 1983.

Nb Sub Balam Chand (JC-103485 N) 1st Aug 1983.

To be Nb Sub

CHM Hari Chand (No 4156130 H now JC-132125 A) 1st Sep 1982.

COMH Karam Singh (No 4157873 X now JC-132126 H) 1st Oct 1982.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Layak Ram Yadava (No 4150085 L now JC-132127 L) 1st Apr 1983.

Hav Mahabir Prasad (No 4157348 F now JC-128930 M) 1st Apr 1982.

Hav Sher Singh (No 4148419 W now JC-182931 P) 1st Oct 1982.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1982 without effect on pay and allowances).

CHM Johar Singh (No 4146033 F now JC-128932 X) 15th Aug 1982.

Hav Laxman Singh (No 4158045 Y now JC-128933 A) 20th Aug 1982.

COMH Ganesh Datt (No 4146940 X now JC-128934 H) 6th Oct 1982.

Hav Sanwal Ram (No 4147021 P now JC-128935 L) 2nd Dec 1982.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th Oct 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Sanwal Ram Yadava (No 4147534 K now JC-128936 N) 1st Dec 1982.

Hav Raghbir Singh (No 4148338 W now JC-128937 W) 7th Dec 1982.

Hav Bahadur Singh Karki (No 414654 W now JC-132128 N) 5th Apr 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2nd Jan 1983 without effect on pay and allowances).

CHM Guman Singh (No 4150888 X now JC-132129 W) 27th May 1983.**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1983 without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Singh (No 4150059 K now JC-132130 L) 1st June 1983.

LADAKH SCOUTS

To be Subedar Major (Clk) (GD)

PA Sub Major (Clk) Mohan Lal Dhar (JC-72375 P) 01 Nov 1983.

To be Subedar (Clk) (GD)

PA Subedar (Clk) Sohan Lal (JC-108838 M) 01 Nov 1983.

To be Subedar (GD)

PA Sub Tundup Phunchok (JC-85245 L) 01 Oct 1982.

P. Sub Sonam Gonbo (JC-85246 N) 01 May 1983.

PA. Sub Stanzin Hundup (JC-85248 Y) 01 Oct 1983.

To be Subedar Religious Teacher (Lama)

PA Sub (RT) (Lama) Lama Shri Labang Sonam (JC-42478 Y) 01 May 1983.

Authority: Army Headquarters letter No. 89648/III/Sub¹ Org 2 (MP) (a) dated 01 Nov 1983.

*The Mahar Regiment**To be Sub Maj*

Sub Namdeo Wakode (JC-42117 A) 1st June 1983.

Sub Tippanna Lakhane (JC-42115 P) 1st June 1983.

Sub Balbhim Waghmare (JC-42123 N) 1st Aug 1983.
 Sub Paras Nath Dubey (JC-61817 H) 1st Aug 1983.
 Sub Maha Singh (JC-56525 W) 1st Aug 1983.
 Sub Alam Singh Rawat (JC-61945 A) 1st Sep 1983.

To be Sub

Nb Sub Dudhappa Waghmare (JC-86040 H) 1st Mar 1983.
 Nb Sub Padam Singh (JC-112696 X) 1st Apr 1983.
 Nb Sub Surendra Singh (JC-99350 M) 7th May 1983.
 Nb Sub Daolat Nimbalkar (JC-83947 L) 11th May 1983.
 Nb Sub Chuni Lal (JC-85291 A) 15th May 1983.
 Nb Sub Muttappa Singh (JC-85820 F) 1st June 1983.
 Nb Sub Pirthe Pal Singh (JC-85296 Y) 1st June 1983.
 Nb Sub Janak Singh (JC-86039 N) 1st June 1983.
 Nb Sub Uttam Lal Jha (JC-86449 K) 1st July 1983.
 Nb Sub Trilok Singh (JC-86041 L) 1st July 1983.
 Nb Sub Dhan Singh (JC-86042 N) 9th July 1983.
 Nb Sub Bakshi Ram (JC-89507 N) 21st July 1983.
 Nb Sub Hanmant Hukeri (JC-89235 Y) 1st Aug 1983.
 Nb Sub Shiv Nath Tiwari (JC-89510 N) 1st Aug 1983.
 Nb Sub Chuhr Singh (JC-90042 L) 1st Aug 1983.
 Nb Sub Bhawan Singh (JC-91554 K) 1st Aug 1983.
 Nb Sub Jit Singh (JC-91555 M) 5th Aug 1983.
 Nb Sub Jogindar Pal (JC-91827 F) 22nd Aug 1983.
 Nb Sub Sudam Kamble (JC-95683 F) 25th Aug 1983.
 Nb Sub Pirdan Singh (JC-94363 A) 1st Sep 1983.

To be Subedar (RT)

Nb|Subedar (RT) (Granthi) Kapoor Singh (JC-31085 H) 1st May 1983.
 Nb|Subedar (RT) (Pandit) Champak Lal Shukla (JC-35210 Y) 1st May 1983.
 Nb|Subedar (RT) (Pandit) Shri Narayan Mishra (JC-36582 W) 1st May 1983.
 Nb|Subedar (RT) (Pandit) Shri Narayan Mishra (JC-45168 Y) 1st May 1983.
 Nb|Subedar (RT) (Pandit) Kailash Nath (JC-48107 N) 1st May 1983.

To be Sub Ck (GD)

Nb Sub Ck Mohinder Singh (JC-105753 L) 1st July 1983.
 Nb Sub Ck Sikandar Singh Jugral (JC-105754 N) 1st Oct 1983.
 Nb Sub Ck Khan Chand Sharma (JC-105755 W) 4th Nov 1983.

To be Nb Sub

Hav Vasant Sagalgile (No 4541394 A now JC-128910 Y) 18th Mar 1982.
 CHM Garibdas Waghmare (No 4540426 L now JC-128911 F) 04th Dec 1982.
 CHM Nandan Singh (No 9213446 L now JC-128912 K) 05th Jan 1983.
 CHM Med Sing (No 2658662 X now JC-128913 M) 05th Jan 1983.
 CHM Harbans Singh (No. 3364359F now JC-128951H), 1st Oct 1982.

Hav Uma Prasad (No 9204266 F now JC-128908 F) 14th Jan 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 83 without effect on pay and allowances).

Hav Baldev Singh (No 9205544 W now JC-128909 K) 31st Jan 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 1983 without effect on pay and allowances).

Hav Raghunath Rajguru (No 4540730 P now JC-132117 F) 2nd Mar 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 1983 without effect on pay and allowances).

Hav Tarlok Singh (No 9210694 W now JC-132118 K) 1st Apr 1983.

Hav Tara Chand Nathu Meshram (No 4541998 Y now JC-132119 M) 25th Apr 1983.

COMH Sahebrao (No 4536940 X now JC-132120 F) 26th May 1983.

Hav Vithal Landge (No 4539889 N now JC-132115 W) 25th May 1983.

CHM Jagannath Bobhate (No 4540070 H now JC-132116 Y) 25th May 1983.

*The Mechanised Infantry Regiment**To be Subedar Major Clerk*

Sub Ck Pravin Chandra Sata (JC-67390 A) 1st May 83.

To be Subedar Major

Sub Braham Singh (JC-63023 W) 1st Oct 1983.

Sub Ramparsad Gurung (JC-58430 P) 1st Oct 1983.

To be Subedar Clerk

Nb Sub Ck Rameshwar Dayal (JC-105825 K) 1st Jun 1982

Nb Sub Ck Prakash Singh (JC-103782 F) 1st Jun 1982.

Nb Sub Ck Hukam Singh (JC-109473 P) 1st Dec 1982.

Nb Sub Ck Sadhu Ram (JC-106083 F) 10 Dec 1982.

Nb Sub Ck Babuji D (JC-105826 M) 18 Apr 1983.

Nb Sub Ck Indar Singh (JC-105827 P) 18 Apr 1983.

Nb Sub Ck Shamrao Katkar (JC-105828 X) 1st May 1983.

To be Sub

Nb Sub Babu Ram (JC-84296 M) 1st Nov 1982.

Nb Sub Jagdish Chand (JC-85616 H) 1st Dec 1982.

Nb Sub Dal Chand (JC-64579 M) 1st Apr 1982.

Nb Sub Damodar Dass (JC-86769 Y) 1st Apr 1982.

Nb Sub Jayawant Singh (JC-75015 K) 1st Apr 1982.

Nb Sub Baldev Singh (JC-85977 F) 1st Apr 1982.

Nb Sub Bindeshwar Nand Barthwal (JC-85096 H) 1st Apr 1982.

Nb Sub Parumalsamy Narasimman (JC-103382 P) 1st Apr 1982.

Nb Sub Prem Bahadur Rana (JC-101255 F) 1st Dec 1982.

Nb Sub Ram Pal Singh (No 3145160 K) 6th Jan 1983.

Nb Sub Ramesh Chand (JC-84161 L) 03rd Dec 1982.

Nb Sub Chander Bhan (JC-83686 H) 24th Jan 1983.

Nb Sub Mul Raj Thapa (JC-82862 H) 8th Feb 1983.

Nb Sub Fate Singh Gurung (JC-85851 F) 1st July 1983.

Nb Sub Sardar Singh (JC-91556 P) 27th Apr 1983.

Nb Sub Rajinder Singh (JC-95766 M) 1st May 1983.

Nb Sub Kula Nand (JC-95767 P) 1st Dec 1983.

To be Sub (RT)

Nb Sub (RT) Pitambar Lohumi (JC-28846. X) 3rd Feb 1983.

Nb Sub (RT) (Pandit) Girdhar Datt Sharma Joshi (JC-35209 K) 1st May 1983.

Nb Sub (RT) (Granthi) Harbans Singh (JC-31632 M) 1st May 1983.

The Maratha Li

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Dalip Singh (JC-67138 F) 1st Apr 1983.

To be Sub Maj

Sub Laxman Shinde (JC-46361 K) 1st Mar 1983.

To be Sub

Nb Sub Shiwaji Waze (JC-82302 W) 1st July 1982.

Nb Sub Pralhad Shinde (JC-92904 X) 5th Feb 1983.

Nb Sub Krishna Gunjawate (JC-92899 X) 13th Feb 1983.

Nb Sub Shivaji Nalwade (JC-84157 H) 1st Mar 1983.

Nb Sub Raghunath Kalekar (JC-93985 P) 1st Mar 1983.

Nb Sub Nanasahab Bhosle (JC-95597 W) 1st Mar 1983.

Nb Sub Raghunath Bhosle (JC-93402 F) 1st Mar 1983.

Nb Sub Bapu Patil (JC-92900 F) 1st Mar 1983.

Nb Sub Ramchandra Patil (JC-97166 H) 1st Mar 1983.

Nb Sub Ashok Kadam (JC-97170 L) 1st Mar 1983.

Nb Sub Chagan Wagh (JC-96166 W) 5th Mar 1983.

Nb Sub Tukaram Takale (JC-96164 L) 1st Apr 1983.

To be Sub Maj

Sub Ramhari Gaikwad (JC-52344 N) 01st Oct 1983.

To be Sub

Nb Sub Dhondhu Ghag (JC-86258 P) 01st Oct 1983.

Nb Sub Balkrishna Sail (JC-92901 K) 01st Oct 1983.

Nb Sub Bhagwan Patil (JC-79088 N) 01st Oct 1983.

Nb Sub Babaji Amunekar (JC-94861 M) 01st Oct 1983.

Nb Sub Motiram Palande (JC-97175 K) 01st Oct 1983.

Nb Sub Ankush Gawade (JC-87385 W) 01st Nov 1983.

Nb Sub Jai Ram Mulik (JC-93716 H) 01st Nov 1983.

To be Sub

Naib Sub Kashinath Naik (JC-62408F), 1st July 1982.

Naib Sub Sitaram More (JC-78381Y), 1st July 1982.

Naib Sub Krishnarao Bhosle (JC-78197N), 1st July 1982.

Naib Sub Krishna Ingle (JC-78576K), 1st July 1982.

Naib Sub Ramchandra Deshmukh (JC-82044F), 1st July 1982.

Naib Sub Appasaheb Dhage (JC-82544Y), 1st July 1982.

Naib Sub Youraj Desai (JC-83375P), 1st July 1982.

Naib Sub Shankar Patil (JC-84010H), 1st July 1982.

Naib Sub Kakasaheb Patil (JC-86048P), 1st July 1982.

Naib Sub Shantaram Mahadik (JC-86049X), 1st July 1982.

Naib Sub Dattatraya Dhole (JC-87388K), 1st July 1982.

Naib Sub Bhargao Paul (JC-86948Y), 1st July 1982.

Naib Sub Gulab Kadam (JC-30004F), 1st July 1982.

Naib Sub Niwari Hanchandre (JC-83754L), 1st July 1982.

Naib Sub Shamu Salgar (JC-80025X), 1st July 1982.

Naib Sub Ramchandra Lawate (JC-81195N), 1st July 1982.

Naib Sub Krishna Kaoam (JC-82040L), 1st July 1982.

Naib Sub Shivaji Bhosle (JC-82304F), 1st July 1982.

Naib Sub Manohar Sakpal (JC-83371Y), 1st July 1982.

Naib Sub Shivaji Ghoipade (JC-82542N), 1st July 1982.

Naib Sub Gajanan Jadhav (JC-83765X), 1st July 1982.

Naib Sub Arvind Desai (JC-83758F), 1st July 1982.

Naib Sub Shivaji Chavan (JC-84013A), 1st July 1982.

Naib Sub Tukaram Nikam (JC-84012F), 1st July 1982.

Naib Sub Pandurang Powar (JC-87386Y), 1st July 1982.

Naib Sub Manik Gaikwad (JC-91318H), 1st July 1982.

Naib Sub Akram Gujar (JC-92898P), 1st July 1982.

Naib Sub Prabhakar Samant (JC-92903P), 1st July 1982.

Naib Sub Bhumappa Killoket (JC-94859P), 1st July 1982.

Naib Sub Bajrang Jagtap (JC-94476H), 1st July 1982.

Naib Sub Bhatu Jadhav (JC-84734F), 1st July 1982.

Naib Sub Madhav Karanjule (JC-90452F), 1st July 1982.

Naib Sub Uttam Kadam (JC-94862Y), 1st July 1982.

Naib Sub Tukaram Chawan (JC-94866L), 1st July 1982.

Naib Sub Rama Pawar (JC-93714X), 1st July 1982.

Naib Sub Gopal Jadhav (JC-86260M), 1st July 1982.

Naib Sub Ganpati Patil (JC-93366F), 1st July 1982.

Naib Sub Bhargao Powar (JC-83763M), 1st July 1982.

Naib Sub Aba Patil (JC-86943A), 1st July 1982.

Naib Sub Ramrao Fadatac (JC-84740X), 1st July 1982.

Naib Sub Vithoba Patil (JC-93715A), 1st July 1982.

Naib Sub Shivaji Bhosle (JC-86257M), 1st July 1982.

Naib Sub Ramchandra Choige (JC-93404M), 1st July 1982.

Naib Sub Narayan Naik (JC-84724A), 1st July 1982.

Naib Sub Hanumant Shinde (JC-94855Y), 1st July 1982.

Naib Sub Raosaheb Jadhav (JC-84735M), 1st July 1982.

Naib Sub Chandrakant Manglekar (JC-94864A), 1st July 1982.

Naib Sub Narayan Mote (JC-90247A), 1st July 1982.

Naib Sub Tatyasaheb Bhosle (JC-95594H), 1st Aug 1982.

Naib Sub Suresh Dhamal (JC-83767H), 1st Aug 1982.

Naib Sub Manohar Ambre (JC-90246X), 1st Aug 1982.

Naib Sub Narayan Dalvi (JC-95269H), 1st Aug 1982.

Naib Sub Balaram Chalke (JC-83770H), 1st Sep 1982.

Naib Sub Maruti Jadhav (JC-86944H), 1st Sep 1982.

Naib Sub Tabaji Kalap (JC-85275H), 1st Sep 1982.

Naib Sub Patanga Chavan (JC-94858M), 1st Sep 1982.

Naib Sub Waman Naik (JC-86949F), 1st Oct 1982.

Naib Sub Anandu Naik (JC-93372P), 1st Oct 1982.

Naib Sub Anandrao Wagh (JC-97173Y), 1st Oct 1982.

Naib Sub Shamkar Bhagwat (JC-97868F), 1st Oct 1982.

Naib Sub Narayan Nigade (JC-100718Y), 17 Oct 1982.

Naib Sub Laxman Sargar (JC-96531M), 1st Nov 1982.

Naib Sub Shamrao Patil (JC-93814P), 13th Nov 1982.

Naib Sub Murlidhar Kale (JC-94477L), 1st Dec 1982.

Naub Sub Mahadeo Patil (JC-83756W), 1st Dec 1982.
 Naub Sub Vishnu (JC-83771L), 24th Dec 1982.
 Naub Sub Maruti Salunkhe (JC-86045F), 1st Jan 1983.
 Naub Sub Shukracharya Ghoipade (JC-87389M), 1st Jan 1983.
 Naub Sub Dattu Radokar (JC-96534A), 1st Jan 1983.

*The Madras Regt**To be Sub Maj*

Sub M C Padmanabhan Nambiar (JC-46351N), 1st Apr 1983.

To be Sub

Naub Sub Vasu Pillai Madathil Padinjatathil (JC-96570L), 1st Oct 1982.

Naub Sub Dundappa Kabbure (JC-90451Y), 1st Feb 1983.
 Naub Sub Ariamuthu Masillamani (JC-97093F), 12th Feb 1983.

To be Sub (Clk)

Naub Sub (Clk) Varotmundath Koman Nambiat (JC-10112P), 31st Mar 1983.

Naub Sub (Clk) Thattil Antony Vincent De Paul (JC-104705A), 1st Apr 1983.

To be Sub Maj

Sub I A Benjamin (JC-45648H), 1st May 1983.

To be Sub

Naub Sub Theeyanchery Thattaiath Krishnan Nambiar (JC-94345X) 8th Apr 1982.

Naub Sub Ithirajulu Pandidurai (JC-95258W), 3rd Oct 1982.

Naub Sub K Vijayan (JC-95259Y), 1st Dec 1982.

Naub Sub Kochukunju Nair Sreedharan Nair (JC-97097X), 1st Jan 1983.

Naub Sub P Viswanathan Nair (JC-95583W), 1st Jan 1983.

Naub Sub C Kuttikrishnan (JC-85804K), 23rd Feb 1983.

Naub Sub Viswanathan (JC-86217L), 1st Mar 1983.

Naub Sub Kesavan (JC-98875K), 1st April 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) P P Sukumaran (JC-59116N), 1st May 1983.

To be Sub (Clk)

Naub Sub (Clk) P Krishnan Nair (JC-104706F), 21st Apr 1983.

To be Sub Maj

Sub T S Sivasubramanian (JC-44697Y), 1st June 1983.

To be Sub

Naub Sub Velumban Chellappan (JC-93700X), 1st Sep 1982.

Naub Sub Vadakkunnath Parameswaran Sreedharan Nair (JC-90013W), 1st Apr 1983.

Naub Sub Kaleekal Kuttyamma Ramakrishna Pillai (JC-93398K), 28th Apr 1983.

Naub Sub G Seetharaman (JC-96555W), 1st May 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) G Karunakaran Nair (JC-58938Y), 1st June 1983.

To be Sub Maj

Sub P Kuttikrishnan Nair (JC-46304W), 1st Oct 1983.

To be Sub

Naub Sub Bhatgavan Gopi Nair (JC-94872Y), 1st Apr 1983.

Naub Sub Balakrishna Pillai Sadasivan Nair (JC-87852H), 1st July 1983.

Naub Sub Antony S (JC-93375H), 1st Aug 1983.

Naub Sub N Gopala Krishna Panicker (JC-96168F), 1st Sep 1983.

Naub Sub Ganesha (JC-99269A), 1st Sep 1983.

Naub Sub Thomas George John (JC-100727A), 25th Sep 1983.

Naub Sub P Marimuthu (JC-86531Y), 1st Oct 1983.

To be Sub (Clk)

Naub Sub (Clk) Kochuthazhathakkal Sankara Panikar (JC-103366X), 1st Sep 1983.

Naub Sub (Clk) Kunnambath Narayanan (JC-103367A), 20th Sep 1983.

To be Sub Maj

Sub K K Achuthan Nair (JC-48684Y), 1st Sep 1983.

Sub Kuzhakkeri Sankaran Nair (JC-54258F), 1st Sep 1983.

Sub K Gopalan (JC-42727M), 1st Sep 1983.

To be Sub

Naub Sub Haicendran Nair (JC-92420X), 1st Aug 1983.

Naub Sub Koppana Nookaraju (JC-96571N), 1st Aug 1983.

Naub Sub Narayana Kuuup Raghavan Pillai (JC-105244M), 3rd Sep 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) K K Madhavan Nambiar (JC-59118Y), 1st Sep 1983.

To be Sub

Naub Sub C H Sreerama Murthy (JC-84534N), 1st Sep 1982.

Naub Sub Jacob Solomon (JC-84535W), 1st Apr 1983.

Naub Sub G Sundara Raju (JC-93397F), 12th Apr 1983.

Naub Sub Adimoolam (JC-93377N), 15th Apr 1983.

Naub Sub Karuvucheri Edayilveetil Narayanan Nair (JC-94221U), 1st May 1983.

Naub Sub Gopala Pillai Rajan Pillai (JC-94222L), 1st June 1983.

Naub Sub Mathakatan Ollickal (JC-87394X), 1st Aug 1983.

Naub Sub Gopala Pillai Manikantan Nair (JC-98876M), 20th Aug 1983.

Naub Sub K V Kunjhiraman (JC-83723L), 4th Sep 1983.

Naub Sub Kochiveetil Kunjukunju Ramakrishnan (JC-87873N), 17th Sep 1983.

To be Nb Sub

Hav Udhaya Bantu Panicker (No. 2565883X now JC-132163W), 1st Jan 1983.

Hav Prabhakaran Nair N (No. 2566675P now JC-132163Y), 23rd Feb 1983.

Hav Ballina Ramana (No. 2563855M now JC-132165F), 1st Mar 1983.

Hav Kati Trappa Rudrappa (No. 2565873N now JC-132166K), 1st Apr 1983.

Hav Subbiah Palaniandavar (No. 2562813N now JC-132167M), 13th May 1983.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Sreedharan T V (No. 2550119P now JC-132169X), 1st Apr 1983.

To be Nb Sub

Hav K P Rajan (No. 2570780H now JC-132168P) 1st June 1983.

*The Punjab Regiment**To be Sub Major*

Sub Sawarn Singh Minhas (JC-44700N), 01st Feb 1983.

Sub Kapur Singh (JC-44970H), 01st Feb 1983.

To be Subedar

Nb Sub Parmodh Singh (JC-85975W), 01st Apr 1982.

Nb Sub Shangara Singh (JC-86924P), 01st Jan 1983.

Nb Sub Shakti Chand (JC-98736A), 01st Jan 1983.

Nb Sub Gurbax Singh (JC-87400A), 01st Feb 1983.

To be Sub Maj

Sub Amit Singh (JC-36554K), 01st Apr 1983.

Sub Banarsi Dass (JC-42299Y), 01st May 1983.

To be Sub Major Clerk

Sub Clk Gurdev Singh (JC-79777P), 01st Apr 1983.

To be Sub

Nb Sub Mehar Chand (JC-96582A), 01st Feb 1983.

Nb Sub Om Parkash Bharmoria (JC-98700F), 01st Mar 1983.

Nb Sub Kushwant Singh (JC-86922K), 01st Apr 1983.

Nb Sub Joginder Singh (JC-90014N), 01st Apr 1983.

Nb Sub Kartar Singh (JC-101372M), 01st Apr 1983.

Nb Sub Kashmira Singh (JC-73977P), 01st May 1983.

Nb Sub Piara Singh (JC-89046 P), 06th May 1983.

To be Sub Maj

Sub Ajit Singh (JC-48829Y) 01st Sep 1983.

Sub Pritam Singh (JC-58104M), 01st Oct 1983.

To be Sub

Nb Sub Shambhu Ram (JC-95244W), 01st Sep 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Sandokh Singh Somyal (JC-95254A), 25th Sep 1983.

To be Sub

Nb Sub Kanshi Ram, MVC (JC-100191P), 01st July 1982.

Nb Sub Birbal Singh (JC-95570Y), 01st July 1983.

Nb Sub Gian Chand (JC-103580A), 01 July 1983.

Nb Sub Jagjit Singh (JC-98728F), 01st July 1983.

Nb Sub Balbir Chand (JC-100188P), 01st Aug 1983.

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-98797L), 01st Sep 1983.

Nb Sub Ajaib Singh (JC-96585N), 01st Sep 1983.

Nb Sub Kirpal Singh (JC-96583H), 01st Oct 1983.

Nb Sub Malkout Singh (JC-96578X), 01st Nov 1983.

To be Nb Sub

Hav Ved Parkash Sharma (No 2443244 F now JC-132170 M) 16th May 1983.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03rd Dec 1981 without effect on Pay and Allowances).

Hav Karnail Singh (No 2455589 P now JC-132171 P) 11th Apr 1983.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th Feb 1983 without effect on Pay and Allowances).

Hav Naranjan Singh (No 3261193H now JC-132172 X) 18th Apr 1983.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Feb 1983 without effect on Pay and Allowances).

Hav Sukhdev Singh (No 2457840 Y now JC-132173 A) 19th Feb 1983.

Hav Baldeo Singh (No 2447154 X now JC-132174 H) 27th Mar 1983.

Hav Harbhajan Singh (No 2454779 P now JC-132175 L) 01st Apr 1983.

Hav Jagar Singh (No 2455233 F now JC-132176 N) 09th Apr 1983.

Hav Karam Chand (No 2446329 H now JC-132177 W) 13th Apr 1983.

Hav Jagit Singh (No 2453461 L now JC-132178 Y) 29th Apr 1983.

Hav Amar Singh (No 2443800 M now JC-132179 F) 08th May 1983.

Hav Nand Lal (No 2452280 N now JC-132180 W) 06th June 1983.

To be Nb Sub Clerk

Hav Clk Sham Lal (No 2450873 F now JC-132181 Y) 01st Apr 1983.

Hav Clk Sukhdev Singh (No 2446438 P now JC-132182 F) 16th May 1983.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01st Apr 1983 without effect on Pay and allowances).

The Parachute Regiment

To be Subedar Major

Subedar Ram Asra (JC-64580 F) 01 May 1983.

Subedar (Clk) Vijai Singh (JC-58998 N) 09 Oct 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Tarsem Singh (JC-96961 W) 1st Apr 1982.

Nb Sub (Clk) Rajinder Singh (JC-98740 H) 22nd May 1982.

Nb Sub (Clk) Durga Shankar Nagar (JC-103591 M) 1st Jan 1983.

To be Nb Sub

CHM Nuranjan Singh (No 13604309 L now JC-132183 K) 31st May 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30th May 1983 without effect on Pay and Allowances).

Hav Thakar Singh (No 13602045 W now JC-132184 N) 19th Jun 1983.

The Raj Rif

To be Sub Maj

Sub Havaldar Singh (JC-53858 X) 1st Feb 1983.

To be Sub

Nb Sub Phool Chand (JC-97431 N) 1st Apr 1982.

Nb Sub Mal Singh (JC-97438 X) 27th Apr 1982.

Nb Sub Amar Singh (JC-91802 P) 1st Dec 1982.

Nb Sub Ram Kishan (JC-92916 M) 1st Feb 1983.

To be Sub Maj

Sub Manpal Singh (JC-46275 M) 1st Mar 1983.

Sub Ram Swarup (JC-69633 Y) 1st Apr 1983.

To be Sub

Nb Sub Pardeep Singh (JC-97434 F) 1st Sep 1982.

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-94468 K) 1st Feb 1983.

Nb Sub Ram Ratan Singh Naruka (JC-81169 M) 1st Apr 1983.

Nb Sub Gordhan Singh (JC-96162 A) 1st Apr 1983.

To be Sub Maj

Sub Haji Chand (JC-63020 H) 1st Aug 1983.

To be Sub

Nb Sub Taj Mohammad Kayam Khani (JC-93723 Y) 1st Apr 1982.

Nb Sub Hari Singh (JC-78710 K) 1st Aug 1982.

Nb Man Singh (JC-94469 M) 1st Aug 1983.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Surendra Singh (JC-99101 N) 1st May 1983.

To be Sub

Nb Sub Karan Singh (JC-94467 F) 1st June 1982.

Nb Sub Mannbhol Singh (JC-95278 K) 1st Sep 1982.

Nb Sub Hari Singh (JC-96529 P) 1st Oct 1982.

Nb Sub Partap Singh (JC-99502 H) 1st Jan 1983.

*The Rajput Regiment**To be Sub Maj*

Sub Narain Singh (JC-34227 A) 2nd Aug 1981.
Sub Samshuddin Khan (JC-86598 X) 1st June 1983.

To be Sub

Nb Sub Kaliram Sharma (JC-86426 H) 1st Feb 1983.
Nb Sub Jamadar Singh (JC-96154 F) 1st Mar 1983.
Nb Sub Hazari Lal (JC-96523 N) 1st Apr 1983.
Nb Sub Bhanwar Singh (JC-100810 X) 1st Apr 1983.
Nb Sub Narendra Singh (JC-105278 A) 1st Apr 1983

To be Sub Maj

Sub Kotwal Singh (JC-81254 P) 1st Oct 1983.

To be Sub

Nb Sub Goli Ram (JC-99878 K) 18th Sep 1983
Nb Sub Kirpa Ram (JC-102904 N) 1st Feb 1983.
Nb Sub Man Singh (JC-102905 W) 1st Apr 1983.
Nb Sub Tribhuwan Singh (JC-97860 P) 1st Apr 1983.
Nb Sub Lakhman Singh (JC-102906 Y) 23rd May 1983.
Nb Sub Mangat Ram (JC-100812 H) 25th May 1983.
Nb Sub Mithu (JC-116189 F) 1st June 1983.
Nb Sub Chanderpal Singh (JC-100710 M) 1st July 1983.
Nb Sub Ram Kanwar Singh Parmar (JC-79782 A) 1st Aug 1983.
Nb Sub Bhim Singh (JC-98854 N) 1st Sep 1983.
Nb Sub Raj Dayal Pandey (JC-105339 M) 28th Sep 1983.
Nb Sub Babu Singh (JC-101919 K) 1st Nov 1983.

To be Nb Sub

Hav Baban Singh (No 2951001 N now JC-132162 N) 1st June 1983.

*The Sikh Regiment**To be Sub Maj*

Sub Kalwant Singh (JC-62025 P) 1st June 1983
Sub Sucha Singh (JC-66045 A) 1st June 1983,
Sub Kewal Singh (JC-55339 N) 1st July 1983.
Sub Sukhdev Singh (JC-44462 M) 1st Aug 1983.

To be Sub

Nb Sub Bhula Singh (JC-92491 Y) 1st July 1983.
Nb Sub Jit Singh (JC-85624 F) 1st Sep 1983.
Nb Sub Gurdev Singh (JC-94441 M) 1st Sep 1983.
Nb Sub Sohan Singh (JC-99111 X) 1st Sep 1983.
Nb Sub Haubhajan Singh (JC-94433 N) 1st Sep 1983.
Nb Sub Bhajan Singh (JC-94446 L) 6th Sep 1983.
Nb Sub Kartar Singh (JC-97467 M) 13th Sep 1983.
Nb Sub Malkit Singh (JC-97468 P) 1st Oct 1983.

To be Sub Maj

Sub Ajit Singh (JC-44942 W) 1st June 1983.
Sub Mangal Singh (JC-72985 F) 1st Sept 1983.

To be Sub

Nb Sub Balbir Singh (JC-86105 P) 1st June 1983.
Nb Sub Prem Singh (JC-95629 N) 1st June 1983.
Nb Sub Bikar Singh (JC-97469 X) 1st July 1983.
Nb Sub Tarsem Singh (JC-98836 L) 1st Aug 1983.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Manjit Singh (JC-105368 F) 25th Aug 1983.

To be Sub

Nb Sub Jaimal Singh (JC-86110 W) 1st Apr 1982.
Nb Sub Ajaib Singh (JC-92942 J) 1st June 1982.

Nb Sub Gurdev Singh (JC 91077 N) 1st Nov 1982.
Nb Sub Kashram Singh (JC-93980 W) 1st Nov 1982.
Nb Sub Tarsem Singh (JC-91154 Y) 1st Jan 1983
Nb Sub Sunjit Singh (JC-94820 H) 1st Jan 1983
Nb Sub Ajit Singh (JC-89350 Y) 1st Mar 1983.
Nb Sub Gurcharan Singh (JC-89351 F) 1st Mar 1983
Nb Sub Gurmej Singh (JC-104242 P) 28th Mar 1983
Nb Sub Joginder Singh (JC-104252 Y) 1st Apr 1983
Nb Sub Bagga Singh (JC-105364 L) 1st Apr 1983
Nb Sub Shangara Singh (JC-91709 N) 1st Apr 1983.
Nb Sub Mohan Singh (JC-94821 L) 8th Apr 1983.
Nb Sub Beant Singh (JC-96131 A) 8th Apr 1983.
Nb Sub Mohabat Singh (JC-96510 W) 17th May 1983.
Nb Sub Surinder Singh (JC-94445 H) 1st July 1983.
Nb Sub Jit Singh (JC-94428 H) 1st July 1983.
Nb Sub Harbhajan Singh (JC-96511 Y) 1st July 1983
Nb Sub Prem Singh (JC-97471 P) 1st Aug 1983.
Nb Sub Harkishan Singh (JC-85059P) 1st July 1983.
Nb Sub Darbara Singh (JC-94432L), 1st July 1983.
Nb Sub Kewal Singh (JC 94437K) 1st July 1983.
Nb Sub Ajit Singh (JC 94439P) 16th July 1983.

To be Nb Sub

Hav Dalip Singh (No. 3360533N now JC 128949L) 12th Oct 1982.

Hav Balkar Singh (No. 3358450K now JC-128950A), Oct 1982.

CHM Harbans Singh (No. 3364358F now JC 128951H) 14th Nov 1982.

Hav Gurbant Singh (No. 3350652W now JC 132553Y) 31st Dec 1982.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 21st Apr 1982 without effect on pay and allowances)

Hav Gurbaksh Singh (No. 3353550L now JC 132148F) 2nd Jan 1983.

QCMH Jagtar Singh (No. 3357044X now JC 132149K) 4th Mar 1983.

Hav Amrik Singh (No. 3357592P now JC 132150Y) 17th May 1983.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Suresh Pal (No. 3355961H now JC 132151F) 1st Apr 1983.

*The Sikh LI**To be Sub Maj (GD)*

Sub Ujagar Singh (JC-45097H) 1st July 1983.
Sub Mohinder Singh (JC-50611L) 1st Aug 1983.
Sub Gurdial Singh (JC-58213Y) 1st Aug 1983.
Sub Krishan Singh (JC-53554A) 1st Nov 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Swaran Singh (JC-99125X) 1st Nov 1983.
Nb Sub (Clk) Savinder Singh Pandhi (JC-99126A) 1st Nov 1983.
Nb Sub (Clk) Sarlochan Singh (JC-99127H) 1st Nov 1983
Nb Sub (Clk) Vidyā Dhar Kaundel (JC-99340H), 1st Nov 1983.
Nb Sub (Clk) Sarwan Singh (JC-105736F) 1st Nov 1983

To be Sub (GD)

Nb Sub Durga Singh (JC-93741F) 1st Nov 1983
Nb Sub Resham Singh (JC-93744P), 1st Nov 1983.

To be Nb Sub (GD)

Hav Balbir Singh (No 4444690 F now JC-128920 H) 19th Apr 1982.

Hav Amarjit Singh (No 4444265 W now JC-128921 L) 29th Oct 1982.

Hav Amar Singh (No 4446177 Y now JC-128922 N) 1st Nov 1982.

Hav Gurneet Singh (No 4443971 I now JC-128923 W) 25th Nov 1982.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Aug 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Lakha Singh (No 4446752 P now JC-128924 Y) 1st Sep 1982.

Hav Harchand Singh (No 4448003 X now JC-128925 F) 1st Sep 1982.

Hav Mukand Singh (No 4447847 now JC-128926 K) 21st Jan 1983.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Boota Singh (No 4443457 now JC-128927 M) 30th Sep 1982.

Hav Gurbux Singh (No 4441342 P now JC-128928 P) 6th Oct 1982.

Hav Harbhajan Singh (No 4441913 H now JC-128929 X) 6th Oct 1982.

*Regiment of Artillery**To be Sub Maj*

Sub Tagir Singh (JC-55855 H) 1st Aug 1982.

To be Sub

Nb Sub Desh Ram (JC-91401 A) 1st Apr 1982.

Nb Sub Sagar Mal (JC-94027 N) 1st Apr 1982.

Nb Sub Mange Ram (JC-94247 X) 1st Apr 1982.

Nb Sub Bijendra Singh (JC-93825 P) 1st Apr 1982.

Nb Sub Balbir Singh (JC-84271 A) 1st Apr 1982.

To be Sub (SKT)

Nb Sub Vaishnu Dass Bhasker (JC-98998 W) 1st Apr 1982.

To be Sub

Nb Sub Madhukar Patil (JC-104135 N) 1st Apr 1982.

Nb Sub Amrik Singh (JC-102349 L) 1st Apr 1982.

Nb Sub Lal Chand (JC-102329 X) 1st Apr 1982.

Nb Sub Manohar Laxman (JC-104558 F) 1st Apr 1982.

Nb Sub Surendra Singh (JC-107685 F) 1st Apr 1982.

Nb Sub Lekh Raj (JC-99565 W) 1st June 1982

Nb Sub Indrapal Verma (JC-105229 X) 1st June 1982.

Nb Sub Dharam Singh (JC-110343 L) 1st June 1982.

Nb Sub Girdhari (JC-105179 X) 1st July 1982.

Nb Sub Lal Singh Rana (JC-106316 X) 1st Aug 1982.

Nb Sub Sekharan Raveendran (JC-111897 K) 1st Sep 1982.

Nb Sub Jagmail Singh (JC-109632 Y) 1st Oct 1982.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-97044 Y) 1st Nov 1982.

Nb Sub Nita Nand Yadava (JC-106668 P) 1st Dec 1982.

Nb Sub Sarjit Singh (JC-104537 L) 1st Jan 1983.

Nb Sub Mukhtar Singh (JC-109596 F) 1st Feb 1983.

Sub Sampat Bhan Jadhav (JC-53374 X) 1st June 1982.

To be Sub

Nb Sub Kewal Singh (JC-90175 F) 1st Apr 1982

Nb Sub J K Robert (JC-94028 W) 1st Apr 1982.

Nb Sub Ponnuswamy Arumugam (JC-106904 L) 1st Apr 1982.

Nb Sub Chebattini Tapeswara Rao (JC-102320 H) 1st Apr 1982.

Nb Sub Ganaga Ram Sharma (JC-111907 H) 1st Apr 1982.

Nb Sub Madan Lal (JC-107531 P) 1st June 1982.

Nb Sub Suram Singh Jamwal (JC-112147 X) 21st June 1982.*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 June 1982 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Randhir Singh (JC-105190 W) 1st Aug 1982.

Nb Sub Kewal Krishan (JC-107515 X) 1st Sep 1982.

Nb Sub Parmeswaran Pillai Sankara Narayana Pillai (JC-107623 W) 1st Oct 1982.

Nb Sub Bhimrao Patil (JC-107535 I) 1st Dec 1982.

Nb Sub Chhote Lal Singh (JC-112107 W) 1st Jan 1983.

Nb Sub Ram Kuran Verma (JC-109619 X) 1st Feb 1983.

Nb Sub Jang Bahadur Singh (JC-108722 W) 1st Feb 1982.

Sub Ram Ekwal Singh (JC-100146 H) 1st Jan 1983.

Sub Narain Singh (JC-49921 K) 1st Jan 1983.

Sub Sukhbir Singh (JC-77927 F) 1st Jan 1983.

Sub Bodh Raj (JC-76787 M) 1st Jan 1983.

Sub Sahab Singh (JC-92386 H) 1st Feb 1983.

Sub Malkiat Singh (JC-53655 N) 1st Feb 1983.

Sub Harpal Singh Tanwar (JC-45395 Y) 1st Feb 1983.

Sub Patil Shankar Irigonda (JC-53644 F) 1st Feb 1983.

Sub Nanrang Lal (JC-48367 X) 1st Feb 1983.

Sub Piare Lal (JC-50371 Y) 1st Feb 1983.

Sub Gura Singh (JC-66795 Y) 1st Feb 1983.

Sub Mehar Singh (JC-68618 K) 1st Feb 1983

To be Sub (AIG)

Nb Sub Balbir Singh (JC-89934 K) 1st Dec 1982.

Nb Sub Prabhakaran Thottumukhatu Thekkethil (JC-90867 W) 1st Jan 1983.

Nb Sub Joginder Singh (JC-90416 W) 1st Feb 1983.

Nb Sub Chander Singh (JC-89936 P) 1st Feb 1983.

Nb Sub Chembatta Puthesveetil Maniyeri Kunhi Raman Nambiar (JC-90417 Y) 1st Feb 1983.

Nb Sub Jagmal Singh Yadava (JC-89937 X) 1st Feb 1983.

To be Sub (Cik GD) SKT)

Nb Sub MA Madappa (JC-85733 N) 11th Sep 1982.*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 82 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Romesh Chander (JC-101523 A) 1st Dec 1982.

Nb Sub Harbans Singh (JC-106299 H) 1st Jan 1983.

Nb Sub Darshan Singh Rattan Pal (JC-101840 F) 1st Jan 1983.

Nb Sub Tara Chand (JC-101524 H) 1st Jan 1983.

Nb Sub Indra Bhanu Singh (JC-102987 K) 1st Feb 1983.

Nb Sub PN Devakaran (JC-105476 L) 1st Feb 1983.

Nb Sub Madhukar Murade (JC-101530 W) 1st Feb 1983.

To be Sub (FGA)

Nb Sub Ranjit Singh Pundir (JC-112338 M), 1st Jul 1982.

To be Sub (BIM)

Nb Sub Gopalakurup Divakara Kurup (JC-114329 K), 1st Jan 1983.

To be Sub Maj

Sub Ram Ashray Rai (JC-95003W), 1st Mar 1983.

To be Sub Maj (Clk GD|SKT)

Sub Guru Narain Tripathi (JC-55876Y), 1st Mar 1983.

Sub Gurbachan Singh Shad (JC-49873P), 1st Mar 1983.

To be Sub Maj

Sub Daya Ram (JC-51396X), 1st Apr 1983.

Sub Cyriac KT (JC-53649A), 1st Apr 1983.

To be Sub Maj (Clk GD|SKT)

Sub K Sreekumaran (JC-50944X), 1st Apr 1983.

Sub Krishnan Kumar Mahajan (JC-56466P), 1st Apr 1983.

To be Sub (Clk GD|SKT)

Nb Sub Shradha Ram Dogra (JC-105231P), 1st Mar 1983.

Nb Sub Lal Singh Yadava (JC-106661L), 1st Mar 1983.

To be Sub (AIG|TIFC)

Nb Sub Mange Ram (JC-90418F), 1st Apr 1983.

Nb Sub Bhagwan Dass (JC-89938A), 1st Apr 1983.

Nb Sub Baldev Singh (JC-89939H), 1st Apr 1983.

To be Sub (Clk GD|SKT)

Nb Sub Raghunath Singh Yadava (JC-101525L), 1st Apr 1983.

Nb Sub Umasharan Singh (JC-106921L), 1st Apr 1983.

Nb Sub Sant Lal Mayer (JC-108256M), 1st Apr 1983.

To be Sub Maj

Sub C A Somaiah (JC-47242H), 1st Aug 1983.

Sub Chandran K A (JC-45425L), 1st Aug 1983.

Sub Prithvi Singh (JC-68204L), 1st Aug 1983.

Sub Ram Singh (JC-51786A), 1st Aug 1983.

Sub Labh Singh Sohāl (JC-55203K), 1st Sep 1983.

Sub Prabhakaran Nair Othayoth (JC-54618M), 1st Sep 1983.

Sub P P Mukandan (JC-54624A), 1st Sep 1983.

Sub P Kaliappan (JC-55862Y), 1st Sep 1983.

Sub Laxman Singh (JC-68183A), 1st Sep 1983.

Sub K T Janardhanan (JC-47920H), 1st Sep 1983.

Sub K P Nanjunda (JC-56454A), 1st Sep 1983.

Sub Hari Narain (JC-53659K), 1st Sep 1983.

Sub Bhairon Singh (JC-57574L), 1st Sep 1983.

Sub Laxman Singh (JC-73409K), 1st Sep 1983.

To be Sub Maj (Clk GD)

Sub Sanjhi Ram (JC-56703N), 1st Sep 1983.

To be Sub (TIFC)

Nb Sub Sudalaitannu Harichandran (JC-100887A), 1st Sep 1983.

To be Sub (Clk GD|SKT)

Nb Sub Radhey Shyam (JC-101842M), 1st Sep 1983.

Nb Sub Kuljit Singh Chatha (JC-105472P), 1st Sep 1983.

To be Sub Maj

Sub P R Velayudhan (JC-45593K), 1st May 1983.

Sub Mariam Brose L (JC-49942A), 1st May 1983.

Sub Daulat Singh Rathor (JC-50803H), 1st May 1983.

10--54GI/84

Sub Amar Singh (JC-51303X), 1st May 1983.

Sub Banwari Lal (JC-68182X), 1st May 1983.

Sub Mangtu Ram (JC-49931N), 1st May 1983.

Sub Gulzara Singh (JC-68623H), 1st May 1983.

Sub Putuala Surya Narayana (JC-47909K), 1st May 1983.

Sub Hans Raj (JC-70090), 1st June 1983.

Sub Gopal Singh (JC-56682H), 1st Jun 1983.

Sub C K Subramanya Reddy (JC-53415W), 1st Jun 1983.

Sub Laxman Patil (JC-45492W), 1st July 1983.

To be Sub (AIG|TIFC)

Nb Sub Chander Sen (JC-89110F), 24th Mar 1983.@

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01st Apr 1982 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Chhaju Ram (JC-89940X), 1st May 1983.

Nb Sub Nand Lal (JC-89941A), 1st June 1983.

Nb Sub Ganga Datt (JC-95138X), 1st July 1983.

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Karm Singh (JC-101526N), 1st June 1983.

Nb Sub Harchran Singh Verma (JC-106331M), 1st Aug 1983.

To be Sub Maj

Sub Janardan Prasad Roy (JC-76785H), 1st Sep 1983.

Sub S Venkata Raman (JC-56455H), 1st Oct 1983.

Sub Surinder Singh Mann (JC-53652A), 1st Oct 1983.

Sub Rajasa Kakiri (JC-85317K), 1st Oct 1983.

Sub Soban Lal (JC-53377L), 1st Oct 1983.

Sub Khedan Singh (JC-94994H), 1st Oct 1983.

To be Sub (AIG|TIFC)

Nb Sub Ali Imam (JC-70075P), 1st Sep 1983.

Nb Sub Mohinder Singh Mundi (JC-100888H), 1st Oct 1983.

Nb Sub Chinnayyan Kalistas (JC-105461H), 1st Oct 1983.

To be Sub (Clk GD|SKT)

Nb Sub Khazan Singh (JC-101527W), 1st Oct 1983.

Nb Sub Raj Narain Misra (JC-101528Y), 1st Oct 1983.

Nb Sub Balbir Singh (JC-102988M), 1st Oct 1983.

Nb Sub Vasudevan Nair Mayunil Kunathil Nanooipillai (JC-106332P), 1st Oct 1983.

To be Sub

Nb Sub Kare Singh (JC-110127L), 1st Apr 1982.

Nb Sub Krishan Kumar (JC-124068P), 1st Apr 1982.

Nb Sub Hari Singh (JC-118221K), 1st Apr 1982.

Nb Sub Chitta Sarkar (JC-100854P), 1st Aug 1982.

Nb Sub Ram Kumar (JC-104579X), 1st Aug 1982.

Nb Sub Ambatipudy Rajeswara Rao (JC-107621W), 1st Oct 1982.

Nb Sub Balkar Singh (JC-106928P), 1st Oct 1982.

Nb Sub Harbant Singh (JC-120052M), 1st Oct 1982.

Nb Sub Dnyandeo Garud (JC-107522N), 15th Nov 1982.

Nb Sub Naduvan Parambath Ponvelari Koroth Bhaskaran (JC-124087A), 1st Dec 1982.

Nb Sub Bhup Singh (JC-110111A), 1st Dec 1982.

Nb Sub Mangtu Ram Yadav (JC-106884H), 1st Dec 1982.

Nb Sub G Prabhakaran Nair (JC-112263A), 1st Jan 1983.

- Nb Sub Jagannath Sawant (JC-108751L), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Ajit Singh (JC-108736W), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Kodian Kunnel Scatia Mathew (JC-107631A), 1st May 1983.
 Nb Tharayil Korukutty Chandran (JC-106903H) 1st Jul 1983.
 Nb Sub Krishna Bahadur Karki (JC-109077Y) 1st Aug 1983.
 Nb Sub Prahlad Singh (JC-93839P), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Amar Singh Yadava (JC-98404W), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Ghamandi Lal (JC-106666K), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Harcharan Singh (JC-87057H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Shiv Nath Singh Yadava (JC-89398M), 1st Nov 1982.@
 @ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01st Apr 1982 without effect on pay and allowances).
 Nb Sub Dayal Singh (JC-95143M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Bhal Chandra Giri (JC-112119L), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Madhavan Nambiar Edavan Pazhavttal (JC-107611M), 10th Oct 1982.@
 @ (Granted seniority in the rank of Sub wef 04th Aug 1982 without effect on pay and allowances).
 Nb Sub Rohtas Singh (JC-116588L), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Krishna Pillai Ramachandran Nair (JC-108277H), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Ananda Chawan (JC-110162N), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Guru Samy (JC-114471N), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Bula Singh (JC-106971W), 17th Jan 1983.@
 @ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01st Dec 1982 without effect on pay and allowances).
 Nb Sub Shiv Singh (JC-108716H), 1st Jan 1983
 Nb Sub Harbans Singh (JC-106951H), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Janak Singh Saur (JC-116572A), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Sharan Kumar (JC-116579K), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Jai Nath Yadav (JC-110139A), 11th Jan 1983.
 Nb Sub Sadashiv Kamate (JC-108759X), 1st Feb 1983
 Nb Sub Om Parkash Yadav (JC 110361F), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Nathu Singh (JC-90152A), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Markanday Singh (JC-106660H), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Jait Singh (JC-106994X), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Harblas Chand (JC-109567M), 1st Jul 1983
 Nb Sub Randbir Singh (JC-97034P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Baj Singh Gill (JC-108645M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sarwan Singh (JC-109540P), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sadhu Ram (JC-109555X), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Karnail Singh (JC-106976P), 1st Apr 1982
 Nb Sub Sucha Singh Gill (JC-107646H), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Awtar Singh (JC-91809Y), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Amrik Singh (JC-104125K), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Babu Ram (JC-102979L), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Chandra Deo Ram Yadav (JC-106679F), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Sultan Singh Yadav (JC-106683K), 13th Jan 1983.@
 @ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01st Oct 1982 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Ratti Ram (JC-109093W), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Ram Sarup (JC-87462A), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Mahender Singh (JC-102331M), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Govindan Nair Palangodan (JC-107628A), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Ajit Singh (JC-99809M), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Murlidhar (JC-108259A), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Ganga Singh (JC-105188Y), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Bar Nam Singh (JC-109027N), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Mannezhathu Vasu Sahadevan (JC-105459L), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Chandra Rhan (JC-106320A), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Rajpal Singh (JC-108646P), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Krishna Pillai Gopinathan Nair (JC-106626H), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Om Datt (JC-107647L), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Ajmer Singh (JC-101834N), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Arriyamangalam Kuntan Prabhakaran (JC-106603F), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Gurdev Singh (JC-109625L), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Vinod Chand Tiwari (JC-109637A), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Shafiuddin (JC-106614N), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-106986X), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Jagir Singh (JC-108672W), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-112106N), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Bhanwar Singh (JC-112340K), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Ram Chander Yadava (JC-107633L), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Didar Singh (JC-108665A), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Gurdev Singh (JC-107014X), 1st Jun 1983.
 To be Sub (Clk GD)
 Nb Sub Gian Chand (JC-104152N), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Raghuvir Singh (JC 108292X) 1st Apr 1982.
 Nb Sub Lal Singh (JC 106644L) 1st Apr 1982.
 Nb Sub Arjun Singh (JC 118248F), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Hoshiar Singh Kareeria (JC 104133H), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Narayana Reddy Ranganathan (JC 104118N), 28th Oct 1982.
 Nb Sub Makhan Lal (JC 112128M), 15th Nov 1982,
 Nb Sub Augustin Francis (JC 107667Y), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Puran Singh (JC 106292Y), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Jag Ram Singh Yadava (JC 112208K), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Inder Singh (JC 109051K), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Nain Singh (JC 109029Y), 2nd Mar 1983.
 Nb Sub Piana Singh (JC 107004N), 13th May 1983.
 Nb Sub Udai Bir Singh (JC 106685P), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Satish Chandra (JC 107517A), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Jankmi Chand (JC 102315X), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Kundiolanda Karambiah Machaliah (JC 107624K), 1st Jul 1983
 Nb Sub Falbhim Thurat (JC 105225F), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Hozura Singh (JC 106314M), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Bakhtawat Singh Gill (JC 107654F), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Joginder Narain (JC 104122W), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Tara Singh (JC 108674L), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Chakkappan Thomas (JC 106592A), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Iaw Bharti (JC 102241N), 1st Sep 1982.

Nb Sub Baldev Singh (JC 114223X), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Shivaji Kannekar (JC 90874M), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Shish Ram (JC 848443W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ram Autar Singh Chauhan (JC 112165A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Sher Singh (JC 106687A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Karam Chand (JC 100863W), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Jaipal Singh (JC 104129A), 1st Apr 1982.
 Nb Sub Ajit Singh (JC 112264H), 1st Aug 1982.
 Nb Sub Avtar Singh (JC 100880W), 1st Sep 1982.
 Nb Sub Ram Karan (JC 110354L), 1st Oct 1982.
 Nb Sub Bawa Singh (JC 110117F), 1st Nov 1982.
 Nb Sub Sher Singh (JC 98394X), 15th Nov 1982.
 Nb Sub Brahmia Nand (JC 99791H), 15th Nov 1982.
 Nb Sub Ranjit Singh (JC 108657F), 15th Nov 1982.
 Nb Sub Ranjit Singh (JC 112269F), 15th Nov 1982.
 Nb Sub Ajit Singh (JC 109550Y), 15th Nov 1982.
 Nb Sub Raj Karan Yadava (JC 112067A), 15th Nov 1982.
 Nb Sub Pichai Ruther (JC 106594L), 15th Nov 1982.
 Nb Sub Darbara Singh (JC 108650X), 15th Nov 1982.
 Nb Sub Bhem Singh (JC 108708K), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Nikka Singh (JC 111552H), 1st Dec 1982.
 Nb Sub Rajeshwari Prasad Dwivedi (JC 109627W), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Jagdish Chand (JC 112072L), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Gurcharan Singh (JC 108695X), 1st Jan 1983.
 Nb Sub Sural Singh (JC 111550X), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Mool Singh (JC 109607H), 1st Feb 1983.
 Nb Sub Ami Lal (JC 110149K), 8th Feb 1983.
 Nb Sub Bhagwan Singh (JC 106677W), 10th Feb 1983.
 Nb Sub Som Nath (JC 101051P), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Kashmir Singh (JC 112054H), 1st May 1983.
 Nb Sub Shripal Singh (JC 108760M), 1st May 1983.
 Nb Sub Shankaran Nair (JC 110357Y), 1st May 1983.
 Nb Sub Sewa Singh (JC 112278H), 1st June 1983.
 Nb Sub Baldev Raj Sharma (JC 110137P), 1st June 1983.
 Nb Sub Amar Singh (JC 112190Y), 1st June 1983.
 Nb Sub P Ramaswamy (JC 106607X), 1st June 1983.
 Nb Sub Dilawar Singh (JC 109629F), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Rati Ram (JC 107490W), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Raghbir Singh (JC 107491Y), 9th Jul 1983.
 Nb Sub Pendurti Vijaya Kumar (JC 106635K), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Uma Shanker (JC 108696A), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Shiwopal Singh Kushwaha (JC 106940W), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Jagir Singh (JC 106946X), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Jo Jo Thomas (JC 108670L), 1st Sep 1983.

*Armoured Corps**To be Ris Maj*

Risaldar Jaswant Singh (JC-65712Y), 01st Sep 1982.

Risaldar Matgoo Khan (JC-69916A), 01st Sep 1982.
 Risaldar Punj Raj Singh (JC-51425F), 09th Sep 1982.
 Risaldar Sardara Singh (JC-70209H), 01st Oct 1982.
 Risaldar Baldev Singh (JC-53471P), 01st Oct 1982.
 Risaldar Ladhoo Singh (JC-58186A), 09th Oct 1982.
 Risaldar Om Parkash (JC-42966F), 01st Nov 1982.
 Risaldar V G Kunjan Nair (JC-70241X), 01 Dec 1982.
 Risaldar Devi Singh (JC-69896X), 01st Dec 1982.
 Risaldar Giridhari Lal (JC-66177H), 01st Dec 1982.
 Risaldar Mohinder Singh (JC-70790X), 01st Jan 1983.
 Risaldar Tej Singh (JC-70277W), 01st Jan 1983.
 Risaldar Roshan Lal (JC-73522K), 01st Jan 1983.
 Risaldar Hans Raj (JC-73388Y), 01st Feb 1983.
 Risaldar Loknath Singh (JC-59803K), 01st Feb 1983.
 Risaldar Nirmal Singh (JC-70207X), 01st Feb 1983.
 Risaldar Net Ram (JC-61560H), 01st Apr 1983.
 Risaldar Sant Bahadur Singh (JC-69906W), 01st Apr 1983.
 Risaldar Shadi Lal (JC-61993A), 01st May 1983.
 Risaldar Zile Singh (JC-70270M), 08th May 1983.
 Risaldar Ajit Singh (JC-58507M), 01st June 1983.
 Risaldar Jai Singh (JC-58187H), 01st July 1983,

To be Ris

Naib Risaldar Ramesh Chandra Upadhyaya (JC-99787A), 02nd June 1982.
 Naib Risaldar Narain Singh Ranga (JC-96665L), 01st July 1982.
 Naib Risaldar Atma Singh (JC-90856K), 01st Dec 1982.
 Naib Risaldar Kunwar Bhura Singh (JC-106852A), 01st Dec 1982.
 Naib Risaldar Karnail Singh Virk (JC-94011H), 01st Jan 1983.
 Naib Risaldar Lakhbir Singh (JC-100928Y), 01st Jan 1983.
 Naib Risaldar Thazhe Vecttil Ravindran (JC-95082W), 01st Feb 1983.
 Naib Risaldar Jaipal Singh (JC-99763W), 08th Feb 1983.
 Naib Risaldar Bijendrapal Singh (JC-99771P), 08th Feb 1983.
 Naib Risaldar Pritam Singh (JC-91787L), 09th Feb 1983.
 Naib Risaldar Bhagwant Singh (JC-87702M), 01st Apr 1983.
 Naib Risaldar Dharam Deo Singh (JC-96641F), 01st Apr 1983.
 Naib Risaldar Rasil Singh (JC-101783L), 01st Apr 1983.
 Naib Risaldar Vidhyadhar (JC-101801H), 01st May 1983.
 Naib Risaldar Lakshmanan Govinda Gounder (JC-101267W), 27th May 1983.
 Naib Risaldar Hukam Chand (JC-106566Y), 30th May 1983.
 Naib Risaldar Yogendrapal Singh (JC-100936W), 30th May 1983.
 Naib Risaldar Gurdial Singh (JC-99616N), 01st June 1983.
 Naib Risaldar Jaswant Singh Nandal (JC-102993X), 30th June 1983.
 Naib Risaldar Hoshiar Singh (JC-94571P), 01st July 1983.

Naib Risaldar Isher Dass (JC-105392X), 01st July 1983.
 Naib Risaldar Indra Singh (JC-99616X), 01st July 1983.
 Naib Risaldar Kalyan Singh (JC-99783K), 01st July 1983.
 Naib Risaldar Khajur Singh (JC-103021W), 01st July 1983.
 Naib Risaldar Jhabai Ram (JC-99779F), 01st Aug 1983.
 Naib Risaldar Ram Kunwar Singh (JC-101266N), 01st Aug 1983.
 Naib Risaldar Suraj Bhan Nandal (JC-95085K), 1st Aug 1983.
 Naib Risaldar Tribhuvan Singh Pawar (JC-101824K), 01st Sep 1983.

To be Ris (Cletk GD)

Naib Risaldar Ck GD Katar Singh (JC-100916K), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Ck GD Kartar Chand Jamwal (JC-100917M), 01st Sep 1983.
 Naib Risaldar Ck GD Ramphal (JC-100918P), 01st Oct 1982.
 Naib Risaldar Ck GD Harbhajan Singh (JC-100919X), 01st Dec 1982.
 Naib Risaldar Ck GD Avtar Singh (JC-101296L), 01st Jan 1983.
 Naib Risaldar Ck GD N Parameswaran Pillai (JC-100920N), 01st Jan 1983.
 Naib Risaldar Ck GD Shambhu Singh Khangarot (JC-101297N), 01st July 1983.
 Naib Risaldar Ck GD Sabha Raj Singh (JC-100921P), 01st July 1983.
 Naib Risaldar Ck GD Amar Chand Sharma (JC-101298W), 01st July 1983.
 Naib Risaldar Ck GD Puran Singh (JC-101828A), 01st July 1983.
 Naib Risaldar Ck GD Gurbachan Singh (JC-100922X), 05th July 1983.
 Naib Risaldar Ck GD Jage Ram (JC-103077H), 01st Aug 1983.
 Naib Risaldar Ck GD Pritam Singh (JC-104403M), 01st Aug 1983.

To be Ris

Naib Risaldar Jagdish Parshad (JC-98317H), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Rohtash Singh (JC-98307Y), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Tarlok Singh (JC-92400K), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Mahi Lal Singh (JC-91774N), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Mangal Sain (JC-97119L), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar George T I (JC-94014W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Brij Behari Singh (JC-96632A), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Brij Lal (JC-90111W), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Bachittar Singh Sandhu (JC-97703P), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Prem Singh (JC-97154N), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Ishwar Singh (JC-84216K), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Onkar Datt, SM Bai (JC-87481L), 01st Apr 1982.

Naib Risaldar Dilbagh Singh Malik (JC-96638F), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Jas Ram (JC-100932F), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Nihal Singh (JC-98326K), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Indra Vijai Singh (JC-99786X), 01st Apr 1982.
 Naib Risaldar Amar Singh (JC-97138W), 01st May 1982.
 Naib Risaldar Sarwan Singh (JC-92324H), 02nd May 1982.
 Naib Risaldar Kumed Singh (JC-97150X), 04th May 1982.
 Naib Risaldar Prem Singh (JC-102989P), 01st June 1982.
 Naib Risaldar Hidayet Ullah (JC-94466K), 04th June 1982.
 Naib Risaldar Gurmit Singh (JC-95520N), 01st July 1982.
 Naib Risaldar Swaran Singh Sandhu (JC-99777W), 01st July 1982.
 Naib Risaldar Lal Singh (JC-99623K), 01st July 1982.
 Naib Risaldar Uttam Singh, SM (JC-96657M), 02nd July 1982.
 Naib Risaldar Didai Singh Sohi (JC-92404A), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Dharampal Singh (JC-94015Y), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Mahender Singh (JC-96631X), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Balwant Singh (JC-87473M), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Bakhtawar Singh (JC-98331F), 01st Aug 1982.
 Naib Risaldar Rambu Singh (JC-89386X), 02nd Aug 1982.
 Naib Risaldar Ajit Singh Randawa (JC-85471H), 01st Sep 1982.
 Naib Risaldar Devinder Singh (JC-100962Y), 01st Sep 1982.
 Naib Risaldar Surian Singh (JC-100934M), 02nd Sep 1982.
 Naib Risaldar Dev Raj (JC-94013N), 10th Sep 1982.
 Naib Risaldar Hoshiar Singh (JC-101768W), 01st Oct 1982.
 Naib Risaldar Makhhan Singh Chauhan (JC-92326N), 01st Oct 1982.
 Naib Risaldar Jaspal Singh Sandhu (JC-100905Y), 01st Oct 1982.
 Naib Risaldar Munshi Ram (JC-97158K), 08th Oct 1982.
 Naib Risaldar Tarsem Singh (JC-95080L), 01st Nov 1982.
 Naib Risaldar Rewat Singh (JC-96643M), 01st Nov 1982.
 Naib Risaldar Narinderpal Singh Aulakh (JC-101786Y), 09th Nov 1982.
 Naib Risaldar Badan Singh (JC-92861N), 01st Dec 1982.
 Risaldar Pritam Singh (JC-101813X), 01st Dec 1982.

To be Nb Ris

Dfr Vazir Singh (No. 1039284F now JC-132218P), 04th Oct 1982.
 SDM Ram Singh (No. 1040216A now JC-132219X), 19th Oct 1982.

Dfr Sasidharan Nair C (No. 13835971L now JC-132220M), 30th Oct 1982.

Dfr Sakattar Singh (No. 1038868A now IC-13222P), 09th Nov 1982.

SDM Mahabir Singh (No. 1037922W now IC-13222X), 10th Nov 1982.

RDM Raj Singh (No. 1034245Y now JC-132223A), 11th Nov 1982.

SDM It Singh (No. 1038932M now IC-132224H), 14th Nov 1982.

SDM Surat Singh (No. 1186564P now IC-132225L), 22nd Nov 1982.

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 15th Nov 1982 without effect on pay and allowances).

Dfr Puran Chand (No. 1035597H now JC-132226N), 18th Nov 1982.

Dfr Sagarmal Bhagasara (No. 1035538W now IC-132227W), 18th Nov 1982.

RDM Johan Lal (No. 1033919Y now IC-132228Y), 03rd Jan 1983. %

%(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 24th Nov 1982 without effect on pay and allowances).

SQMD Gurmei Singh (No. 1039118N now JC-132229F), 25th Nov 1982.

Dfr Joginder Singh (No. 1035316F now IC-132230W), 17th Mar 1983. @

@(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01st Dec 1982 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Krishan (No. 1035378A now JC-132231Y), 04th Dec 1982.

SDM Balkar Singh (No. 1039330L now JC-132232F), 04th Dec 1982.

Dfr Dial Singh (No. 1036272F now JC-132233k), 17th Mar 1983. £

£(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 05th Dec 1982 without effect on pay and allowances).

SQMD Vadvinder Singh Sekhon (No. 1039351F now JC-132234M), 08th Dec 1982. &

&(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 05th Dec 1982 without effect on pay and allowances).

Dfr Jaipal Singh (No. 1040396N now JC-132235P), 16th Dec 1982.

SDM Prahlaad Singh (No. 1035996M now IC-132236X), 16th Dec 1982.

SDM Karinervanda Mandanna Somaya (No. 13844843P now JC-132237A), 02nd Jan 1983. \$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 18th Dec 1982 without effect on pay and allowances).

SQMD Sarishti Paul (No. 1033866L now JC-132238H), 01st Jan 1983.

Dfr Nag Singh (No. 1035473N now IC-132239L), 01st Jan 1983.

Dfr Sheo Kumar Singh (No. 1038256H now JC-132240A), 01st Jan 1983.

Dfr Satvir Singh (No. 1035562M now JC-132241H), 01st Jan 1983.

SDM Ishwar Singh (No. 1035926N, now JC-132242I), 01st Jan 1983.

MQMD Gian Chand (No. 1035506N now JC-132243N), 01st Jan 1983.

Dfr Fazle Rasul (No. 1036666A now JC-132244W), 25th Mar 1983. +

+ (Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01st Jan 1983 without effect on pay and allowances).

RDM Narotam Singh (No. 1032490H now JC-132245Y), 03rd Feb 1983. =

= (Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01st Jan 1983 without effect on pay and allowances).

SDM Amar Nath Sharma (No. 1035767F now JC-132246F), 04th Feb 1983. **

** (Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01st Jan 1983 without effect on pay and allowances).

SDM Baldev Singh (No. 1039918M now JC-132247K), 12th Jan 1983.

Dfr Joginder Singh (No. 1043141Y now JC-132248M), 17th Jan 1983. %c

%c (Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 13th Jan 1983 without effect on pay and allowances).

Dfr Phool Chand (No. 1222360W now JC-132249P), 25th Jan 1983.

Dfr Amar Singh (No. 1039231H now JC-132256k), 01st Feb 1983.

Dfr Harbir Singh (No. 1041067K now JC-132251M), 01st Feb 1983.

RDM Hoshin Singh Hooda (No. 1034253K now JC-132252P), 01st Feb 1983.

SDM Charam Singh (No. 1036345X now IC-132253X), 02nd Feb 1983.

Dfr Gaje Singh (No. 1036126F now JC-132254A), 12th Feb 1983.

Dfr Rambux Singh Tomar (No. 1035139M now JC-132255H), 20th Feb 1983.

Dfr Sultan Singh (No. 1037179M now JC-1322562), 12th Apr 1983. @@

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 20th Feb without effect on pay and allowances).

SQMD Khushi Ram (No. 9207770M now IC-132257N), 01st Mar 1983.

RDM Bala Datt (No. 4149346F now JC-132258W), 16th Mar 1983.

Corps of Engineers

Bengal Engineer Group

To be Sub Maj

Sub Madho Chand (JC-59360N), 1st Nov 1983.

Sub Nirmal Singh (JC-45064X), 1st Nov 1983.

To be Sub

Nb Sub Lallan Singh (JC-106192N), 1st Nov 1983.

Nb Sub Kamalakar Singh (JC-106186A), 1st Nov 1983.

Nb Sub Sheo Kumar Singh (JC-1081521), 1st Nov 1983.

Nb Sub Bhagat Singh (JC-105511H), 1st Nov 1983.

Nb Sub Om Parkash (JC-106193W), 1st Nov 1983.

Nb Sub Dhani Ram (JC-105522P), 1st Nov 1983.

Nb Sub Amrit Lal (JC-106190H), 1st Nov 1983.

Nb Sub Rasila Ram (JC-105514W), 1st Nov 1983.

Nb Sub Mehar Singh (JC-105506X), 1st Nov 1983.

Nb Sub Sham Dass (JC-108148H), 1st Nov 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Abhai Raj Singh (JC-90823Y), 1st Nov 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Lekh Raj (JC-48708X), 1st Oct 1983.

To be Sub

- Nb Sub Prem Singh (JC-106187H), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Himmat Singh (JC-106180Y), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Chandra Deo Singh (JC-105521M), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Madan Mohan (JC-116365N), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Darshan Singh (JC-106177Y), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Ram Singh Bhakuni (JC-105518M), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Deoki Nandan Singh (JC-106189N), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Bishwa Nath Singh (JC-105509L), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Mohan Singh (JC-108154W), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Guljari Lal (JC-105523X), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Prakash Chandra (JC-108973A), 1st Oct 1983.

To be Sub (Clk)

- Nb Sub Clk Gulzar Singh (JC-83150M), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Clk Bapakon Bharoli (JC-84608X), 1st Oct 1983.

To be Sub Maj

Sub Mohinder Singh (JC-55317P), 1st Aug 1983.

To be Sub

- Nb Sub Balbir Singh Dhot (JC-82433F), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-105500W), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Amar Singh (JC-105517K), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Dalbir Singh (JC-106179K), 1st Aug 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Mohan Singh Shan Bisht (JC-69147F), 1st July 1983.

Sub Clk Moman Ram (JC-43757W), 1st July 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Siva Prasad P (JC-88409F), 1st July 1983.

To be Sub Clk (Store)

Nb Sub Clk Store Amrik Singh (JC-72537P), 1st July 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Harbhajan Singh Pahde (JC-51835X), 1st May 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Umesh Chandra Tripathi (JC-89839X), 1st May 1983.

To be Sub

Nb Sub Gulzari Lal (JC-99534L), 1st May 1983.

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Kheev Singh (JC-48666W), 1st June 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Sat Pal (JC-88868A), 1st June 1983.

To be Sub

Nb Sub Ram Prasad (JC-99542K), 1st June 1983.

Nb Sub Satya Ram Singh (JC-106185X), 1st June 1983.

To be Sub

Nb Sub Sita Ram (JC-108151H), 1st Sep 1983.

Nb Sub Manmohan Singh (JC-105513N), 1st Sep 1983.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Darshan Singh (JC-89376N), 1st Sep 1983.

Nb Sub Clk Ram Prasad Naudiyal (JC-63084N), 2nd Sep 1983.

*Bombay Engineer Group**To be Subedar Major (GD)*

Sub Sitaram Surve (JC-43834A), 1st Nov 1982.

Sub Yeshwant Singh Negi (JC-33665W), 1st Dec 1982.

To be Subedar Major Clk (GD)

Sub Lachhi Ram Sharma (JC-43767A), 1st June 1982.

Sub Mukhtiar Singh (JC-51184M), 1st Oct 1982.

Sub Mohinder Singh (JC-77782L), 31st Jan 1983.

To be Subedar (GD)

Nb Sub Mewa Singh (JC-79233A), 1st July 1982.

Nb Sub Ram Gopal (JC-90408X), 1st July 1982.

Nb Sub Garib Singh (JC-92470H), 1st July 1982.

Nb Sub Pralhad Ghorpade (JC-94507X), 1st Jan 1983.

Nb Sub Ajit Singh (JC-99832F), 1st Feb 1983.

Nb Sub Sudam Uttekar (JC-96977F), 1st Feb 1983.

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub Satendra Singh Bisht (JC-91757N), 1st Feb 1983.

Nb Sub Sadanandan PP (JC-93072N), 1st Apr 1983.

Nb Sub Pal Singh (JC-91796M), 1st June 1983.

To be Sub (GD)

Nb Sub Yeswant Dhole (JC-76875K), 1st July 1982.

Nb Sub Doongar Singh (JC-95188H), 1st Jan 1983.

Nb Sub Bahadur Singh (JC-95186X), 1st Feb 1983.

Nb Sub Roshan Singh (JC-78408L), 1st Feb 1983.

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Thimmanabhat Joshi (JC-93202L), 1st Feb 1983.

Nb Sub Narayan Desai (JC-93068L), 1st Apr 1983.

Nb Sub Rijawanullah Ansari (JC-93075L), 1st Apr 1983.

Nb Sub Jagtar Singh (JC-90307K), 19th Apr 1983.

Nb Sub Amar Singh (JC-94505M), 1st June 1983.

To be Sub (GD)

Nb Sub Amarjit Singh (JC-95201F), 1st Feb 1983.

Nb Sub Bhagwan Patil (JC-95202K), 1st Feb 1983.

Nb Sub Baban Surve (JC-95203M), 1st Feb 1983.

Nb Sub Ramrao More (JC-95187A), 1st Feb 1983.

Nb Sub Shantaram Kadam (JC-95178Y), 1st Feb 1983.

Nb Sub Ananda Jagtap (JC-95180W), 1st Feb 1983.

Nb Sub Mohammad Amin (JC-95181Y), 1st Feb 1983.

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Babu Lal (JC-93122N), 1st Feb 1983.

Nb Sub Sudarshan Kumar Arora (JC-93076K), 1st Feb 1983.

Nb Sub Prabhakar Suryawanshi (IC-93078P), 1st Apr 1983.

Nb Sub Bhag Singh (JC-90308M), 1st May 1983.

Nb Sub Nachhattar Singh (JC-94010A), 1st June 1983.

To be Sub (Granti-RT)

Nb Sub Jagdev Singh (JC-44950P), 1st May 1983.

Nb Sub Dalip Singh (JC-46372K), 1st May 1983.

Nb Sub Gurdish Singh (JC-45167W), 1st May 1983.

To be Sub (Pandi-RT)

Nb Sub Ashok Sasane (JC-44451A), 1st May 1983.

Nb Sub Madhukar More (JC-46595L), 1st May 1983.

Nb Sub Rajaram Shinde (IC-48048L), 1st May 1983.

Nb Sub Ram Chandra Bhirtdharme (JC-46597M), 1st May 1983.

Nb Sub Vithal Zugar (JC-48847F), 1st May 1983.

Madras Engineer Group

To be Sub Maj Ck

Sub Ck R Sanjeevi (JC-59590F), 01st May 1983.

To be Sub Maj (SKT)

Sub (SKT) Sivani Velusamy (IC-72890F), 01st Sep 1982.

Sub (SKT) Gangadharan Bharathan (JC-77074P), 01st Sep 1982.

To be Sub Ck

Nb Sub Ck Gattu Joseph Manohar (JC-84059H), 01st Nov 1982.

Nb Sub Ck Rajanandan (IC-84609A), 01st Dec 1982.

Nb Sub Ck Koorikkattil Radhakrishnan (IC-86373P), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Velu Madhavan Pillai (JC-84583W), 01st Feb 1983.

Nb Sub Ck Koncho Chinnayya (JC-86364N), 01st Mar 1983.

To be Sub

Nb Sub M Thavaseelan (JC-92440L), 01st May 1983.

Nb Sub P Santhanam (JC-92412YY), 01st May 1983.

Nb Sub K C Chidambaram (JC-92413F), 01st May 1983.

Nb Sub Ganesh (JC-92415M), 01st May 1983.

Nb Sub Natesa Pandurangam (JC-94546W), 01st Jun 1983.

Nb Sub Kuppam Padavattam Kannan (JC-94531N), 01st Jun 1983.

To be Sub Maj Ck

Sub Ck PN Gopalan (JC-50906F), 01st Jan 1983.

Sub Ck Abraham VP (JC-49643F), 01st Feb 1983.

Sub Ck Thayappa Gopal Raju (IC-50908M), 01st Feb 1983.

Sub Ck M Prabhakaran Thampi (JC-50909P), 01st Feb 1983.

Sub Ck G Govindarajulu (JC-50913X), 01st Mar 1983.

Sub Ck S Gopalakrishnan Nair (JC-69145W), 01st Mar 1983.

Sub Ck Palaniappan Karuppanan (JC-70973N), 01st Mar 1983.

Sub Ck Chandrasekharan Nair Pulimughathu Raman Nair (IC-70501X), 01st Mar 1983.

Sub Ck S Subramoniam (JC-57313X), 01st Apr 1983.

Sub Ck Chandrasekhara Kyamal (JC-59362Y), 01st Apr 1983.

To be Sub

Nb Sub Manickam Mariaselvam (JC-92312N), 01st Sep 1982.

Nb Sub Arulanandam Mariadass (JC-92313W), 01st Sep 1982.

Nb Sub R Balakrishnan (JC-69930M), 01st Sep 1982.

Nb Sub S Thangaraj (JC-79697X), 01st Sep 1982.

Nb Sub Issan Kasim (JC-92316K), 01st Oct 1982.

Nb Sub Sunder Raj Jayapaul (JC-92886A), 01st Jan 1983.

To be Sub Ck

Nb Sub Ck Muralidharan (JC-83668A), 01st Oct 1982.

Nb Sub Ck Talari Anjaneyulu (JC-86987X), 13th Nov 1982.

Nb Sub Ck Bhimayya Cheramanna (JC-86727M), 01st Dec 1982.

Nb Sub Ck Neelakandan Vidhyadharan (JC-86731P), 01st Dec 1982.

Nb Sub Ck Gurusamy Karuppusamy (JC-86349Y), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Kalappa Yogappa Radiger (JC-86366W), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Gaddipaty Umamaheswara Rao (JC-84576A), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Ponnuswamy Chettiar Srinivasan (JC-85557F), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Kunju Krishna Pillai (JC-86654L), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck MV Rao (JC-84574P), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Nagappa Siddappa Kumbar (JC-84578L), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Rajasekharan Nair (JC-86647P), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Murugesan Kannan (JC-86651X), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Kuniyil Sreedharan (JC-86657X), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Raghavan Pavithran (JC-86648X), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Thinamkala Padintattathil Velavudhan Gopalan Pillai (JC-84610P), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Manikoth Mohan (JC-86998K), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Thirakakuzhil Devasia Chacko (JC-86732X), 01st Jan 1983.

Nb Sub Ck Vasudevan Pillai Sivaraman Pillai (JC-84616W), 01st Feb 1983.

Nb Sub Ck Damodaran Vettothil Kunnu Padinjathil Kutty (JC-86659K), 01st Feb 1983.

Nb Sub Ck Thiruveedhula Satya Vankata Subbarao (JC-86652A), 01st Mar 1983.

Nb Sub Clk Gorre Ratnam (JC-86374X), 01st Mar 1983.
 Nb Sub Clk Bapatla Surya Chandra Rao (JC-86991A), 01st Mar 1983.
 Nb Sub Clk Nachukuru Manohara Reddy (JC-86661P) 01st Mar 1983.
 Nb Sub Clk Velangadu Gounder Kuppaswamy (JC-86360 X), 01st Mar 1983.
 Nb Sub Clk Appakutti Gopal (JC-86352Y), 01st Mar 1983.
 Nb Sub Clk Sankaran Panicker Naryanan (JC-87004K), 01st Mar 1983.
 Nb Sub Clk Thangavelu Sundaramurthy (JC-88408Y), 01st Mar 1983.
 Nb Sub Clk Ketagani Pichayya (JC-86730M), 01st Apr 1983.
 Nb Sub Clk Perumalpatti Subbiah Naicker Vengiah (JC-86996Y), 01st Apr 1983.
 Nb Sub Clk Subbiah Ayyalusamy (JC-84611K), 01st Apr 1983.
 Nb Sub Clk Ponangi Venkata Satyanarayana Rao (JC-86983F), 01st Apr 1983.

To be Sub Maj Clk

Sub Clk M Prabhakaran Nair (JC-34232L), 01st Nov 1982.
 Sub Clk Chacko P C (JC-69169A), 13th Nov 1982.

To be Sub SKT

Nb Sub SKT R Chakrapani (JC-72639L), 01st Sep 1982.
 Nb Sub SKT S Velusamy (JC-72890F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub SKT G Bharathan (JC-77074P), 01st Sep 1982.

To be Sub

Nb Sub Alphonse D'Souza (JC-92318P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Madurai Muthu Balakrishnan (JC-92311L), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Muniswamy Mandri Venkatamuni (JC-94529W), 01st Sep 1982.
 Nb Sub N Ramachandran (JC-76814M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub I Pathianathan (JC-86206Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub M Kesavan Prakasam (JC-87083K), 06th Sep 1982.
 Nb Sub Veerasamy Kanniah, SM (JC-92314Y), 06th Sep 1982.
 Nb Sub Chackola Poullose Mathew (JC-92315F), 01st Oct 1982.
 Nb Sub Devasagayam Francis (JC-93998M), 01st Oct 1982.
 Nb Sub Iyyanappan (JC-92409Y), 01st Nov 1982.
 Nb Sub Clk Perumal Krishnaswami (JC-79689Y), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk PK Gopi (JC-84057X), 01st Oct 1982.
 Nb Sub Clk CV Sudhakaran (JC-84058A), 01st Oct 1982.
 Nb Sub Clk Parameswaran Sivan Pillai (JC-85556Y), 01st Nov 1982.
 Nb Sub Clk Ramadasan K (JC-86656W), 01st Nov 1982.
 Nb Sub Clk Swamiadiyan Yesudas (JC-84607P), 01st Nov 1982.
 Nb Sub Clk Peedikayil Karunakaran Viswanathan (JC-86988A), 13th Nov 1982.
 Nb Sub Clk Padiyara Krishna Pillai Gopalakrishnan Nair (JC-83862P), 01st Dec 1982.

Nb Sub Clk Rangasamy Sangarappa Naicker Subbaraj (JC-86361A), 01st Dec 1982.
 Nb Sub Clk Reddy Nagaraja (JC-86643X), 01st Dec 1982.
 Nb Sub Clk Ganapathi Thammayya (JC-86377L), 01st Dec 1982.
 Nb Sub Clk Thangamuthu Abraham Chelladorai (JC-86355M), 01st Dec 1982.
 Nb Sub Clk Vasu Thankappan (JC-86997F), 01st Dec 1982.
 Nb Sub Clk Abdul Liakath Ali Kan (JC-86350N), 21st Dec 1982.

To be Sub

Nb Sub N Veeraswamy (JC-70770K), 01st Aug 1982.
 Nb Sub G Kanniah (JC-85522L), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Sankaranaryanan Narkat House Sankaranaryanan (JC-86205W), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Swamiadian Samson (JC-87075L), 01st Aug 1982.
 Nb Sub K Mahalingam (JC-87415X), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Padappayil Govindan (JC-92308L), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Kizhappal Krishnan Kutty (JC-92309N), 01st Aug 1982.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Sundaram Kandaswamy (JC-82329N), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk Chelliah Sabapathy (JC-71650X), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk Emperumal Narayanaswamy (JC-78509Y), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk Kochumadathil Ayyappan Nair Raghavan Nair (JC-78874A), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk Radhakrishnan C (JC-53624N), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk A Alagarswamy (JC-63072Y), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk Nattu Vazhiparampil Augusty Joseph (JC-66969N), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk Ramakrishnan Nair PM (JC-66970H), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk Mathew Jacob (JC-69864P), 01st Aug 1982.
 Nb Sub Clk Mungara Chandrasekhara Raju (JC-86724Y), 01st Aug 1982.

To be Sub SKT

Nb Sub SKT A Appukkuttan Nair (JC-97020P), 01st Aug 1982.

*MES MILITARISED CADRE**To be Sub Maj*

Sub Srinivasan Thiruvengadam (JC-49381W), 01st Nov 1981.
 Sub Kochu Pillai Achari Sankaran Achari (JC-32774W), 04th Feb 1982.

To be Subedar

Nb Sub Harmohinder Singh Puri (JC-51860H), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Rajinder Pal Singh (JC-51870A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Hollabbi Narayanrao Krishnamurthy (JC-54121 P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub CH Krishna Rao (JC-54365H), 01st Sep 1982.
 Nb Sub P S Krishnasamy (JC-64233H), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Bindeshwari Tiwary (JC-64943A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Shri Ram Udhav Nagpurkar (JC-65599M), 01st Sep 1982.

- Nb Sub Arjan Singh (JC-64332L), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Amar Singh Bath (JC-69689L), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-69705Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Bikram Singh Rawat (JC-71520P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Gurdeep Singh (JC-74170Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Chinnappan Venktesan (JC-74898M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-79250A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Machital Poonchan Bhaskaran (JC-80953N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Raja Ram Pandey (JC-79246X), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Ramagiri Subramanya Raj URS Subbakrishna URS (JC-48407N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Ramesh Chand Wadhwa (JC-51414P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Peri Cherla Narayana Raju (JC-54355Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub John PP (JC-53711F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Suresh Kumar Singh (JC-54350A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Rajiev KP (JC-62233K), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Antony A Kochery (JC-64237Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Rajendra Singh Bisht (JC-65606X), 01st Sep 1982.
 Nb Sub PC Cherian (JC-65608X), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Kadaba Keshava Murthy Gopinath (JC-65023P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Mukkanjirathu Gopala Pillai Parthasarathi Pillai (JC-68905F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Gurbux Singh (JC-74179N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Narayanan Kartha Balakrishnan Nair (JC-76167X), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Kunnathully Pangan Gopalan (JC-42452K), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Gopi Chand (JC-44104F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Syed Mahaboob Syed Abdul Saleem (JC-54887Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Ramaswamy Raghupathy (JC-57555A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Ramakrishnan CV (JC-61108N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Ashok Kumar Sobti (JC-65610A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Jogindar Singh (JC-64307M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub KK Lakshmanan Pillai (JC-68880A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Kunjummen (JC-69769H), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Gurnam Singh (JC-74178L), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Chimmalimal Kadathnadan Kumaran (JC-76157N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Bhim Singh (JC-68302L), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Santimay Ghosh (JC-77749K), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Resham Singh (JC-79284N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Santokh Singh (JC-82310P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub James Cherian (JC-81481P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Lachman Singh (JC-81499L), 27th Sep 1982.
 Nb Sub Brij Mohan Pant (JC-81833F), 27th Sep 1982.
 Nb Sub S G Kumbar (JC-60779L), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Jacob KP (JC-79932L), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Rangaswami Arumugham (JC-79311M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Appakutty Chandrasekaran (JC-79946L), 01st Sep 1982.
- Nb Sub Santiago Ignasimuthu (JC-80175N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Tatapudi Subrahmanyam Mangarao (JC-54079F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Genda Mal (JC-66668K), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Bhupinder Singh Naru (JC-65828M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Sarwan Kumar Sharma (JC-65829P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Harjeet Singh Bhatia (JC-65831M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Matadin Yadav (JC-66671K), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Naranjan Singh Kanwar (JC-65832P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Sukhdev Raj Chand (JC-65834A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Anoop Singh Dhatt (JC-65836L), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Raghbir Singh Bansoota (JC-65837N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Thippeswamy (JC-65791W), 01st Sep 1982.
 Nb Sub M A Iqbal Ahmed (JC-65793F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub M Narayanan (JC-65796P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub SH Alawani (JC-65797X), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Shridhar Bindurao Kulkarni (JC-65799H), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Rama Krishna (JC-65800M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub James Mortha (JC-65403N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Natha Singh (JC-65399W), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Parakuthpadinjare Madhom Ramachandran (JC-66350M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Potluri Veeriah (JC-66353A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Roshan Singh (JC-68930A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub K Janardhana Bhatt (JC-74533X), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Jasmel Singh (JC-76177F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Daulat Ram (JC-76178K), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Kannery Kunhiraman (JC-76375M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Vayarankil Prabhakaran Nair (JC-76180F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Ajit Singh (JC-79130F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub K K Nair (JC-79138N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Narayan Datt Lekhak (JC-78896Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Gurnam Singh (JC-79895W), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Maghar Singh Gill (JC-78946Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Balram Tripathi (JC-79908P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Daljit Singh (JC-78939H), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Gurdial Singh (JC-78932Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Rajinder Kumar (JC-79910M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Indraj Singh (JC-79164P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Pappu Narayanan Chettiar (JC-64314H), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Eruvupaba Chandra Sekharan Nair (JC-79280X), 03rd Sep 1982.
 Nb Sub Surjit Singh (JC-80153P), 20th Sep 1982.
 Nb Sub Samar Singh Naher (JC-79271W), 25th Dec 1982.
 Nb Sub Ramji Singh (JC-79905F), 23rd Jan 1983.
 Nb Sub S Rathinam (JC-47546L), 01st Jun 1982.
 Nb Sub U Ananda (JC-49641W), 01st Jun 1982.
 Nb Sub Biswanath Bannerjee (JC-57973P), 01st Jun 1982.
 Nb Sub Gnan Chand (JC-57974X), 01st Sep 1982.

Nb Sub Pitambar Datt (JC-57972M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-59570N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Mohindar Singh (JC-62525M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Francis KV (JC-62527X), 01st Sep 1982.
 Nb Sub P Raghupathi Rao (JC-62526P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Antony Servai Arputhaswamy (JC-63074K), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Kumara Dhas S (JC-49644K), 01st Sep 1982.
 Nb Sub N V Rajagopalan (JC-57322Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Hardyan Singh (JC-79255Y), 01st Sep 1981.
 Nb Sub Chandra Kant Dhotre (JC-51458M), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Narendra Kumar Pant (JC-69616Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Rajinder Nath Shangari (JC-64969P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Narayanan Ayyazhi (JC-65639H), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Satyendar Narayan Saxena (JC-66670F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Donta Bhaktuni Venkata Durga Prasad Rao (JC-65817A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Dalip Singh (JC-68314A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Ollarickatt Govinda Kaimal Vijayan (JC-79904Y), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Ayinikat Unnikrishnan Nair (JC-79936F), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Vaiyapuri Venkatachalam (JC-80140X), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Narayana Panicker Raveendra Sarma (JC-88375Y), 27th Sep 1982.
 Nb Sub Ram Kumar Choudhary (JC-65833X), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Balbhim Magar (JC-77566N), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Hardev Singh Chohan (JC-76199A), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Om Parkash Mangi (JC-78936P), 01st Sep 1982.
 Nb Sub Bakhtawar Singh Sangha (JC-82315N), 27th Sep 1982.
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-80132Y), 01st Dec 1982.

REGULAR ARMY*Defence Security Corps**To be Sub Maj*

Sub Hari Singh (JC-60680), 01st Aug 1983.
 Sub Mohinder Singh (JC-54264), 01st Aug 1983.

To be Sub

Nb Sub Dewan Chand (JC-88257L), 01st June 1983.
 Nb Sub Dharam Chand (JC-88341L), 01st Jul 1983.
 Nb Sub Shri Nath (JC-88347M), 01st Jul 1983.
 Nb Sub Sarwan Lal (JC-88391W), 01st Jul 1983.
 Nb Sub Dhyana Shingade (JC-89967P), 01st Aug 1983.
 Nb Sub Surjan Singh (JC-89471A), 01st Aug 1983.
 Nb Sub Kirpal Singh (JC-90336Y), 01st Aug 1983.
 Sub Harphool Singh (JC-75238), 01st Mar 1983.

To be Sub

Nb Sub Sadhu Ram (JC-85862), 01st Feb 1983.
 Nb Sub Daulat Singh (JC-85867), 01st Feb 1983.
 Nb Sub Ram Charitar Singh (JC-85871), 01st Feb 1983.
 Nb Sub P Madhayan (JC-86491H), 01st Mar 1983.
 Nb Sub A Krishna Murty (JC-86615M), 01st Mar 1983.

To be Sub Clik

Nb Sub Clik Mahavir Singh (JC-93960H), 01st Feb 1983.
To be Sub Maj
 Sub Lachhman Dass (JC-79465), 01st Apr 1983.
To be Sub
 Nb Sub Martand Shinde (JC-87201M), 01st May 1983.
To be Sub Maj
 Sub Sampuran Singh (JC-85906), 01st Aug 1983.
 Sub Sukh Dev Singh Gurung (JC-86571A), 01st Sep 1983.
 Sub Nam Deo Raut (JC-57656), 01st Oct 1983.

To be Sub

Nb Sub Jhaman Singh (JC-93804), 01st Aug 1983.
 Nb Sub Balbir Singh (JC-92842H), 01st Sep 1983.
 Nb Sub Prasadi Singh (JC-93954P), 01st Sep 1983.
 Nb Sub Ibrahim Khan (JC-34045), 01st Sep 1983.
 Nb Sub Udham Singh (JC-50214), 01st Sep 1983.
 Nb Sub Jagtar Singh (JC-72625), 01st Sep 1983.
 Nb Sub Banke Bihari Singh (JC-54633), 01st Oct 1983.
 Nb Sub Sawaran Singh (JC-48909), 01st Oct 1983.
 Nb Sub N Sreedharan (JC-81324), 01st Jul 1981.
 Nb Sub Ruli Singh (JC-91679F), 01st Jul 1982.
 Nb Sub Narendra Bahadur Singh (JC-71989), 01st Nov 1982.

To be Sub Clik

Nb Sub Clik Shyam Prakash Agnihotri (JC-93961L), 01st Aug 1983.
 Nb Sub Clik Chelliah Selvaraj (JC-93946W), 01st Sep 1983.

*Army Educational Corps**To be Sub Maj*

Sub Jaswant Singh (JC-58641X), 1st Nov 1983.
 Sub Abasaheb Bhonsale (JC-58917H), 1st Nov 1983.

To be Sub

Nb Sub Satya Narayan Tripathi (JC-92738P), 1st July 1983.
 Nb Sub Joginder Paul Sharma (JC-89194A), 1st Aug 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1982 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dhan Singh (JC-93351Y), 1st Aug 1983,
 Nb Sub Shajy Karan Singh Chauhan (JC-91882X), 1st Aug 1983.

Nb Sub Shri Bhushan Mishra (JC-92727H), 1st Aug 1983.

Nb Sub Ravindra Singh Solanki (JC-93341P), 1st Aug 1983.

Nb Sub Om Prakash (JC-93354M), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Mehar Singh (JC-92728L), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Mohan Chandra Pandey (JC-93353K), 6th Sep 1983.

Nb Sub Mahabir Singh (JC-95717K), 27th Sep 1983.
 Nb Sub Satish Chandra Joshi (JC-93340M), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Keshar Prasad Jha (JC-93913L), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Radhey Mohan Misra (JC-92739X), 1st Oct 1983.

Nb Sub Ram Janam Singh (JC-92740M), 11th Oct 1983.
 Nb Sub Jagdish Singh Tomar (JC-95445P), 1st Nov 1983.
 Nb Sub Ghanshyam Das (JC-92736K), 1st Nov 1983.
 Nb Sub Bhuwan Chandra Joshi (JC-93342X), 1st Nov 1983.

Nb Sub Munna Singh Bhadauria (JC-93357A), 1st Nov 1983.

To be Sub Maj

Sub Lok Mani Sharma (JC-55560N), 1st Nov 1982.

Sub Raj Kumar Mehta (JC-55971L), 4th Nov 1982.

Sub Sudarshan Prasad Prawah (JC-56506L), 1st Dec 1982.

Sub Tung Nath Shukla (JC-58360F), 1st Jan 1983.

To be Sub

Nb Sub Vishnu Prasad Khanna (JC-90381L), 1st Nov 1982.

Nb Sub Prem Singh (JC-94399Y), 1st Nov 1982.

Nb Sub Duli Ram (JC-95715Y), 1st Nov 1982.

Nb Sub Lal Bachan Yadav (JC-95443K), 1st Nov 1982.

Nb Sub Heer Singh (JC-90383W), 4th Nov 1982.

Nb Sub Kanti Prasad Sharma (JC-95712L), 20th Nov 1982.

Nb Sub Hazura Singh (JC-91693N), 1st Dec 1982.

Nb Sub Ganeshi Lal Sharma (JC-92745L), 1st Dec 1982.

Nb Sub Raj Kumar Singh Madan (JC-91694W), 1st Dec 1982.

Nb Sub Karm Singh (JC-90384Y), 1st Dec 1982.

Nb Sub Gurnam Singh Jassar (JC-93339X), 1st Dec 1982.

Nb Sub Gian Singh (JC-91695Y), 22nd Dec 1982.

Nb Sub Anshuman (JC-91878P), 22nd Dec 1982.

Nb Sub Hem Raj Dutt (JC-93345L), 22nd Dec 1982.

Nb Sub Udey Ram (JC-91696F), 24th Dec 1982.

Nb Sub Prabhu Dayal (JC-93348Y), 1st Jan 1983.

Nb Sub Harbans Singh Virk (JC-96335M), 1st Jan 1983.

Nb Sub Om Prakash Tyagi (JC-93912H), 1st Jan 1983.

Nb Sub Hardial Singh (JC-91880M), 1st Jan 1983.

Nb Sub Om Prakash Sharma (JC-93342P), 1st Jan 1983.

Nb Sub Chandra Prakash Gautam (JC-93347W), 1st Jan 1983.

Nb Sub Chandrapal Singh Chauhan (JC-91691H), 1st Jan 1983.

Nb Sub Darshan Ram (JC-90879X), 7th Jan 1983.

To be Sub Maj

Sub Layak Singh (JC-56507N), 1st Feb 1983.

Sub Uma Shanker Tiwari (JC-56508W), 1st Feb 1983.

Sub Shiva Govind Sharma (JC-58359M), 1st Feb 1983.

Sub Padam Dhar Dixit (JC-58361K), 1st Apr 1983.

Sub Mukund Ram Dhyani (JC-58191L), 1st May 1983.

Sub Makhan Lal (JC-56514K), 1st June 1983.

Sub Manoram Sharma (JC-58354N), 1st June 1983.

To be Sub

Nb Sub Shanker Singh Khirwar (JC-93346N), 1st Feb 1983*.

*(Granted presumptive seniority in the rank of Sub wef 1st Jan 1983 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rama Shanker (JC-93794A), 1st Feb 1983.

Nb Sub Ram Baboo (JC-93795H), 1st Feb 1983.

Nb Sub Krishan Singh (JC-93797M), 24th Feb 1983.

Nb Sub Kunwar Pal Singh Pundhir (JC-91884H), 1st Mar 1983.

Nb Sub Sant Lal (JC-91883A), 1st Mar 1983.

Nb Sub Dewan Singh (JC-93349F), 1st Apr 1983.

Nb Sub Chandrika Prasad Singh (JC-99906L), 1st May 1983.

Nb Sub Mukat Behari (JC-93350W), 1st June 1983.

Nb Sub Hukam Singh (JC-93798W), 1st June 1983.

To be Sub Maj

Sub Satendra Kumar Malhotra (JC-58189N), 1st Aug 1983.

Sub Jaswant Singh (JC-58355W), 1st Aug 1983.

Sub Devi Dayal Chaturvedi (JC-58190H), 1st Aug 1983.

To be Nb Sub

Hav Thomas K T (No. 9504065F now JC-129333K), 9th Sep 1982*.

Hav Sant Raj (No. 9504127W now JC-129334M), 26th Sep 1982*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10th July 1982 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Mohan Attri (No. 9504339F now JC-129335P), 5th Dec 1982.

Hav Amar Deo Singh (No. 5904351H now JC-129336X), 5th Dec 1982.

Hav Padmanabhan Chandrasekaran Pillai (No. 9504246M now JC-129337A), 7th Dec 1982**.

Hav Narendra Nath Goswami (No. 9504270H now JC-129338H), 8th Dec 1982**.

Hav Dhian Singh Verma (No. 9504281P now JC-129339L), 9th Dec 1982**.

Hav Anadi Kumar Barik (No. 9504100Y now JC-129340A), 27th Dec 1982**.

Hav Kanshi Ram Gera (No. 9504248X now JC-129341H), 30th Dec 1982**.

Hav Ramesh Shanker Mathur (No. 9504330M now JC-129342L), 30th Dec 1982**.

Hav Shyam Kishore Seth (No. 9504028N now JC-129343N), 31st Dec 1982**.

Hav Rajendra Singh Bisht (No. 9504329X now JC-129344W), 3rd Jan 1983**.

Hav Kishan Singh (No. 3147636K now JC-129345Y), 4th Jan 1983**.

Hav Ramesh Chandra Tewari (No. 9504337F now JC-129346F), 6th Jan 1983**.

Hav Raj Bahadur Singh Chauhan (No. 9504362P now JC-129347K), 6th Jan 1983**.

Hav Verungathackel Ramakrishnan Sukumaran (No. 9504338Y now JC-129348M), 9th Jan 1983**.

Hav Shesh Mani Tiwari (No. 9504233P now C-129349P), 10th Jan 1983**.

Hav Jahan Singh Tomar (No. 9504272N now JC-129350K), 10th Jan 1983**.

Hav Netar Pal (No. 9504291Y now JC-129351M), 11th Jan 1983**.

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th Dec 1982 without effect on pay and allowances).

Intelligence Corps

To be Sub Maj

Sub Milap Singh (JC-37832Y), 01 May 83.

Sub Gurdev Karam Chand (JC-41698W), 01 Oct 83.

Sub Dalip Singh (JC-36714Y), 01 Oct 83.

Sub Sukhdev Sharma (JC-41709X), 01 Oct 83.

Sub Baldev Singh (JC-41702N), 01 Oct 83.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Machiah K P (JC-61030N), 01 Oct 83.

To be Sub

Nb Sub Banwari Singh (JC-100526F), 01 Sep 83.

Nb Sub Bhola Singh Aswal (JC-100527K), 01 Oct 83.

Nb Sub Ram Prasad Thapa (JC-100528M), 01 Oct 83.

Nb Sub Prem Chand Premi (JC-100529P), 01 Oct 83.
 Nb Sub Gian Chand Snehi (JC-100530K), 01 Oct 83.
 Nb Sub Chander Sekhar (JC-100531M), 01 Oct 83.

To be Sub Maj

Sub Sohan Singh (JC-38071L), 01 Jun 1983.

To be Sub

Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-100513K), 01 May 1983.
 Nb Sub Luthi Singh Lingwal (JC-100515P), 01 May 1983.
 Nb Sub Kalu Singh Karayat (JC-100517A), 01 May 1983.
 Nb Sub Koipurath Joseph Joseph (JC-100518H), 01 Jun 1983.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-100522L), 01 Aug 1983.
 Nb Sub Jagbir Singh (JC-100516X), 01 May 1983.
 Nb Sub Chander Singh (JC-100520A), 01 Jul 1983.
 Nb Sub Rajinder Kumar (JC-108818Y), 01 Jul 1983.
 Nb Sub Karnail Singh (JC-100521H), 01 Jul 1983.
 Nb Sub Daulat Ram (JC-100511Y), 01 Apr 83.
 Nb Sub Sewa Singh (JC-100512F), 01 Apr 83.

Corps of Military Police

To be Sub Maj

Sub Arjun Singh Gahlawat (JC-74735Y), 1st Apr 1983.
 Sub Ran Bahadur Tamang (JC-65166P), 1st Apr 1983.

Pioneer Corps

To be Sub Maj (GD)

Sub (GD) Thakara Singh (JC-44984H), 26th Jan 83.

To be Sub (GD)

Nb Sub (GD) Appanna Magdum (JC-57999K), 1st Nov 82.
 Nb Sub (GD) Tuka Ram Sinde (JC-58321H), 1st Nov 82.
 Nb Sub (GD) Laxmi Naran (JC-60501K), 11th Dec 82.

Corps of Signals

To be Sub Maj (Op Spec)

Sub Bhanwar Singh (JC-68111W), 1st Feb 1983.
 Sub Dudh Nath Yadava (JC-70353X), 1st Feb 1983.

To be Sub Maj (F of S)

Sub G E E Varghese G (JC-52104W), 1st Aug 1983.

To be Sub Maj (Op Ciph)

Sub Sukhendu Chakraborty (JC-56208X), 1st May 1983.

To be Sub Maj (Clerk GD)

Sub Anil Kumar Sharma (JC-62945M), 1st Sep 1983.
 Sub Chandra Prakash Gaur (JC-64716A), 1st Sep 1983.

To be Sub Maj (GD)

Sub Kripal Sing Negi (JC-73765X), 1st Aug 1983.
 Sub Matu Ram (JC-71741F), 1st Aug 1983.
 Sub Tersame Singh (JC-73711X), 28th Aug 1983.
 Sub Hargovind Pande (JC-73779K), 1st Sep 1983.
 Sub Ram Saran (JC-74032X), 1st Sep 1983.

To be Sub Maj (Y of S)

Sub Indar Singh (JC-59533A), 1st Sep 1983.

To be Sub Maj (F of S)

Sub Tarlok Singh (JC-53252N), 1st Oct 1983.
 Sub Balkar Singh Randhawa (JC-49745Y), 1st Nov 1983.

To be Sub Maj (Op Ciph)

Sub TP Kunju Kunju (JC-56212X), 1st Sep 1983.
 Sub Rovail Singh (JC-56215L), 1st Nov 1983.

To be Sub Maj (GD)

Sub Rashpal Singh (JC-60675 K), 1st Dec 1981.
 Sub Boota Singh (JC-71161M), 1st Aug 1983.
 Sub Rameshwar Thakur (JC-73777Y), 1st Sep 1983.
 Sub Govindan K (JC-74038Y), 1st Oct 1983.

To be Sub Maj (Y of S)

Sub Puran Chand Awasthi (VSM) (JC-60254F), 1st May 1983.

Sub Desraj (JC-59530M), 1st June 1983.
 Sub K. Damodaran (JC-59531P), 1st Jul 1983.

To be Sub Maj (F of S)

Sub Jagmeg Singh (JC-52158X), 1st Jul 1983.

To be Sub Maj (GD)

Sub Parkash Chand (JC-73763Y), 1st Jul 1983.

To be Sub Maj (Op Special)

Sub Gian Chand (JC-59528P), 1st June 1983.

To be Sub Maj (F of S)

Sub Shiri Ram Yadava (JC-52881N), 1st Mar 1983.
 Sub Satya Narain Singh (JC-52882W), 1st May 1983.
 Sub Nathi Ram (JC-53251L), 1st June 1983.
 Sub Om Parkash Sood (JC-53255F), 1st June 1983.

To be Sub Maj (On Special)

Sub E G Samuel (VSM) (JC-71117H), 1st June 1983.
 Sub Tara Chand (JC-71216L), 1st June 1983.

To be Sub Maj (Clerk GD)

Sub Joginder Singh (JC-62686P), 1st Apr 1983.
 Sub Sher Singh Yadava (JC-62692H), 1st June 1983.

To be Sub Maj (GD)

Sub Mohit Lal Saha (JC-61706L), 1st Mar 1983.
 Sub Pritam Singh (JC-71186Y), 1st Apr 1983.
 Sub Madan Singh (JC-71728X), 1st May 1983.
 Sub Santosh Kumar Chatterjee (JC-71735N), 1st June 1983.

Sub Amarjit Singh (JC-71738P), 1st June 1983.
 Sub N G Thomas (JC-71761P), 1st June 1983.

Sub Jai Singh (JC-71764H), 1st June 1983.

Sub K Bhaskaran Unnithan (JC-73755A), 1st June 1983.

Sub Daljit Singh Bola (JC-73757L), 1st June 1983.

Sub Harnam Singh (JC-73758L), 1st June 1983.

Sub Rajinder Sharma (JC-73761N), 1st June 1983.

To be Sub (Y of S)

Nb Sub Chandra Ballabh Pande (JC-93501K), 1st May 1983.

Nb Sub Sahab Singh (JC-93504X), 1st June 1983.

Nb Sub Dalip Singh (JC-93508N), 1st June 1983.

Nb Sub Animoor Rama Samy Appavoo (JC-93511N), 1st June 1983.

To be Sub (F of S)

Nb Sub Sirl Ram (JC-94920N), 1st Feb 1983.

Nb Sub Gian Singh (JC-94921W), 1st Mar 1983.

Nb Sub Lal Chand Sharma (JC-94922Y), 1st Mar 1983.

To be Sub (Op Spec)

Nb Sub Dharani Raj Singh (JC-NYA 6277531M), 1st Feb 1983

Nb Sub Mata Deen Verma (JC-116036X), 1st June 1983

Nb Sub Puran Singh (JC-113655A), 1st June 1983.

Nb Sub Rajinder Prasad (JC-113656H), 1st June 1983.

To be Sub (Op Ciph)

Nb Sub Kanta Prasad Hyundam (JC-85673K), 1st Mar 1983

Nb Sub Rattipal Singh Chauhan (JC-85674M), 1st Mar 1983

Nb Sub K. Shatri Zunnu Singh (JC-85675P), 1st Mar 1983

Nb Sub Ram Singh Yadav (JC-85677A), 1st Apr 1983.

Nb Sub Arun Kumar Chhattopadhyay (JC-85678H), 1st Jul 1983.

To be Sub (Clerk GD)

Nb Sub Nihal Singh (JC-97980N), 1st Apr 1983

Nb Sub Ratibhan Sharma (JC-97981W), 1st May 1983.

Nb Sub Gangadharan T M (JC-97983Y), 1st May 1983.

Nb Sub Ram Deo Singh (JC-97987X), 1st June 1983

Nb Sub Sohan Singh Bariana (JC-97991A), 1st June 1983.

Nb Sub Ram Prasad Giri (JC-97992H), 1st June 1983.

Nb Sub Pavanadmajan N (JC-102508X), 1st June 1983.

Nb Sub Ram Kawar (JC-99082N), 1st June 1983

Nb Sub Mohan Lal Sharma (JC-99083W), 1st June 1983

Nb Sub Vishnu Bhotla Subramanya Sastry (JC-102510P) 1st June 1983

Nb Sub Badri Prasad Dwedi (JC-102512A), 1st June 1983

Nb Sub Kashmir Singh (JC-102514L), 1st June 1983.

Nb Sub A S Parhar (JC-102515N), 1st June 1983.

Nb Sub H S Bhotla (JC-102516W), 1st June 1983.

Nb Sub Sambhu Prasad (JC-102517Y), 1st June 1983.

Nb Sub Perthambara Kurup (JC-102519K), 1st June 1983.

To be Sub (SKT)

Nb Sub Budhi Singh Dogra (JC-102634K), 1st June 1983.

Nb Sub Prem Shanker (JC-104674K), 1st June 1983

To be Sub (GD)

Nb Sub Vikram Shinde (JC-90768N), 1st Mar 1983.

Nb Sub Raghunath Swain (JC-90774F), 1st Mar 1983

Nb Sub Naib Ali (JC-90267N), 1st Mar 1983

Nb Sub Kamal Singh (JC-93216T), 1st Apr 1983.

Nb Sub Shanti Swarup (JC-93225M), 1st Apr 1983.

Nb Sub Lashker Singh (JC-93238K), 1st Apr 1983.

Nb Sub Sampuran Singh (JC-93239M), 1st May 1983.

Nb Sub Gurdev Singh (JC-93240F), 1st May 1983.

Nb Sub Ram Badan Ram (JC-93243P), 1st May 1983

Nb Sub Thakur Singh Rana (JC-93244X), 1st May 1983.

Nb Sub Navindra Singh Bhandari (JC-93246H), 1st May 1983

Nb Sub Ram Briksh Ram (JC-93249W), 1st June 1983.

Nb Sub Kewal Singh Gill (JC-93250L), 1st June 1983.

Nb Sub Balbir Singh Negi (JC-93251N), 1st June 1983.

Nb Sub Rami Neni Ramakoteswara Rao (JC-93254F), 1st June 1983

Nb Sub Pradhan Singh Rathou (JC-93261X), 1st June 1983

Nb Sub Shiv Kishore Trivedi (JC-90265H), 1st Oct 1982

Nb Sub Gauri Shankar Singh (JC-79513N), 1st Dec 1982

Nb Sub Ram Kuber Pandev (JC-88976K), 1st Feb 1983.

Nb Sub Dayal Singh (JC 89125K), 1st Feb 1983.

Nb Sub Nam Deo Barge (JC-89451M), 1st Feb 1983.

To be Sub (Y of S)

Nb Sub Maha Deb Ghosh (JC-93498P), 1st Feb 1983.

Nb Sub Nam Deo Barge (JC-89451M), 1st Feb 1983.

To be Sub (F of S)

Nb Sub Sruendia Kumar Malik (JC-94915H), 1st Jan 1983

Nb Sub Major Singh Lamma (JC-94916L), 1st Feb 1983.

Nb Sub Jaswant Singh Rana (JC-94917N), 1st Feb 1983.

Nb Sub Atma Singh (JC-94891K), 1st Feb 1983.

No Sub Palak Ram (JC-94919Y), 1st Feb 1983.

To be Sub (Op Spec)

Nb Sub Ram Charitra Mehta (JC-107167F), 1st Dec 1982.

Nb Sub Ramji Lal Jhajharia (JC-113645W), 1st Dec 1982

Nb Sub Cheruvari Gangadharan (JC-113646Y), 1st Feb 1983.

Nb Sub Jagdish Chand Chauhan (Ex-6283442K), 1st Feb 1983

Nb Sub Rabindra Chakrabarty (JC-113649M), 1st Feb 1983.

Nb Sub R Krishna Pillai (JC-113650F), 1st Feb 1983.

Nb Sub Ram Deo Singh (JC-113652M), 1st Feb 1983

Nb Sub Kailash Prasad (JC-113653P), 1st Feb 1983

To be Sub (Cik GD)

Nb Sub Rajinder Pal (JC-99079N), 1st Feb 1983.

To be Sub (SKT)

Nb Sub Bahadur Singh (JC-102631W), 1st Feb 1983.

To be Sub (Y of S)

Nb Sub Raja Gopalan PK (JC-94934N), 1st Sep 1983.

Nb Sub Kishan Singh Dharwal (JC-64761M), 25th Oct 1983.

To be Sub (F of S)

Nb Sub Prem Chandra Choudhary (JC-94926P), 1st June 1983.

Nb Sub Malkit Singh (JC94929H) 1st June 1983.

Nb Sub Maulali Shaik (JC-94931A), 1st June 1983.

Nb Sub Prithi Singh Chandel (JC-98030I), 1st Sep 1983.

Nb Sub Dhoop Singh (JC-98032W), 1st Sep 1983.

Nb Sub Sri Krishna Singh (JC-98033Y), 1st Sep 1983.

Nb Sub Narayanan MK (JC-98035K), 28th Sep 1983.

Nb Sub Tota Ram Verma (JC-99062A), 1st Oct 1983.

Nb Sub Mohan Das RM (JC-98036M), 1st Oct 1983.

To be Sub (Clerk GD)

Nb Sub Ianardanan Kunju Krishna Pillai (JC-102522K), 1st Sep 1983.

Nb Sub Durga Prasad (JC-102525X), 1st Nov 1983.

Nb Sub Som Parkash Gupta (JC 102526A) 29th Nov 1983.

To be Sub (OP Ciph)

Nb Sub Ambika Rai (JC-87776F), 1st Oct 1983

Nb Sub Asharfi Lal (JC-85681H), 1st Oct 1983

To be Sub (OP Special)

Nb Sub Ram Dia (JC-113657L), 1st Oct 1983.

Nb Sub Sudarshan Kumar (JC-113659W), 1st Nov 1983.

To be Sub (SKT)

- Nb Sub Darshan Singh (JC-104673F), 1st June 1983.
 Nb Sub Jai Nath Pandey (JC-83316H), 3rd Aug 1983.
 Nb Sub Devi Shankar Tripathi (JC-85508Y), 1st Nov 1983.

To be Sub (GD)

- Nb Sub Jagdish Narain Shukla (JC-90765A), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Ram Kumar Singh (JC-93237F), 1st Apr 1983.
 Nb Sub D Arul Dass (JC-93428V), 1st May 1983.
 Nb Sub Darshan Kumar Sobti (JC-94057L), 1st July 1983.
 Nb Sub KV Kunhi Raman Nair (JC-94059W), 1st July 1983.
 Nb Sub Gian Chand (JC-94063Y), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Bhim Singh (JC-94064F), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Manohar Rudra Paul (JC-94066M), 1st Aug 1983.
 Nb Sub R Gopinatha Pillai (JC-94075N), 7th Aug 1983.
 Nb Sub D C S Pillai (JC-94078F), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Jagmel Singh (JC-94079K), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Darab Singh Verma (JC-94080Y), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Sheo Murat Singh (JC-94082K), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Amar Dev Singh (JC-94083M), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Dina Nath Khanna (JC-94084P), 1st Sep 1983.
 Nb Sub Sachitanand Singh (JC-94894X), 3rd Sep 1983.
 Nb Sub Laxmi Narain Yadava (JC-94090M), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Paras Nath Shukla (JC-94895A), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Godham Singh (JC-94896H), 1st Oct 1983.
 Nb Sub Shakti Singh Mehta (JC-94092N), 1st Nov 1983.
 Nb Sub Kundu Parambil Madhavi Krishnan (JC-94093W), 1st Nov 1983.

To be Sub (F of S)

- Nb Sub Jagdish Sahu (JC-94923F), 17th Apr 1983.
 Nb Sub Appa Saheb Nimbalkar (JC-94924K), 1st May 1983.
 Nb Sub Satya Nand Dubey (JC-94925M), 1st June 1983.
 Nb Sub Jugal Kishore Sharma (JC-94927X), 1st June 1983.
 Nb Sub Harpal Singh (JC-94932H), 1st June 1983.

To be Sub (Op Clph)

- Nb Sub Hardev Singh (JC-85679L), 1st Aug 1983.

To be Sub (Clerk GD)

- Nb Sub Ram Murty (JC-97984K), 4th May 1983.
 Nb Sub Gurmit Chand (JC-97988A), 1st June 1983.
 Nb Sub Ravindran N T (JC-99080H), 1st June 1983.
 Nb Sub Jai Krishan Upadhyaya (JC-97989H), 1st June 1983.
 Nb Sub Jagdish Prasad Misra (JC-97993L), 1st June 1983.
 Nb Sub K V Chandra Sekharan Nair (JC-97994N), 1st June 1983.
 Nb Sub Hari Prakash (JC-99081L), 1st June 1983.
 Nb Sub Rattan Chand Chaudhry (JC-99084Y), 1st June 1983.
 Nb Sub Kishori Lal (JC-102509A), 1st June 1983.
 Nb Sub Dharam Singh Chaudhry (JC-102511X), 1st June 1983.
 Nb Sub Hari Shankar Tripathi (JC-102518F), 1st June 1983.
 Nb Sub Sher Singh Rana (JC-102520Y), 1st June 1983.
 Nb Sub Om Prakash Verma (JC-102521F), 1st June 1983.

To be Sub (GD)

- Nb Sub Eruj Lal Balooda (JC-93211M), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Sulkhan Singh (JC-93215H), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Ram Phal (JC-93247L), 1st June 1983.
 Nb Sub Dina Nath (JC-93252W), 1st June 1983.
 Nb Sub Ram Asaray Sahay (JC-93253Y), 1st June 1983.
 Nb Sub Chhaju Ram (JC-93255K), 1st June 1983.
 Nb Sub Shri Ram Pal (JC-93257P), 1st June 1983.
 Nb Sub Yohannan M (JC-93258X), 1st June 1983.
 Nb Sub Banarsi Das (JC-93259A), 1st June 1983.
 Nb Sub Baldev Raj (JC-93260P), 1st June 1983.
 Nb Sub Ram Shran (JC-94051K), 1st June 1983.

To be Sub (SKT)

- Nb Sub Kuldip Singh (JC-102635M), 1st June 1983.

To be Sub (Y of S)

- Nb Sub Perisetlasaj Krishnajah (JC-93500F), 04th Mar 1983.
 Nb Sub Roshan Lal Chhokar (JC-93512W), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Muthu Veetil Govindan (JC-93516M), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-93518X), 1st Jul 1983.
 Nb Sub K P S Kurun (JC-94113Y), 1st Aug 1983.

To be Sub (F of S)

- Nb Sub Jopinder Singh (JC-98024X), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Pilo Kootathil Balakrishnan (JC-98026H), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Hukam Singh Negi (JC-98027L), 1st Aug 1983.

To be Sub (Clerk GD)

- Nb Sub Surrinder Singh (JC-97982Y), 1st May 1983.

To be Sub (SKT)

- Nb Sub P N Divakaran (JC-102632Y), 1st May 1983.
 Nb Sub Baldev Singh Patial (JC-107136F), 1st Aug 1983.

To be Sub (GD)

- Nb Sub Om Parkash Joshi (JC-90785N), 1st Mar 1983.
 Nb Sub Janardhan Rant (JC-93226P), 1st Apr 1983.
 Nb Sub Jiva Raj Sharma (JC-93256M), 1st June 1983.
 Nb Sub Narain Singh Gusain (JC-94052M), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Ganga Prasad Roy (JC-94053P), 1st Jul 1983.
 Nb Sub D Prasada Rao (JC-94054X), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Bhenit Das Kolekar (JC-94055A), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Jai Singh Sharma (JC-94058N), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Narayan Dhasade (JC-94061N), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Laxmi Narain Yadav (JC-93430N), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Shish Ram Sheokand (JC-94062W), 1st Jul 1983.
 Nb Sub Santosh Singh (JC-94885W), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Tripurari Rai (JC-94065K), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Bhulla Ram (JC-94067P), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Santokh Singh (JC-94893P), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Hanmanta Rao Pawar (JC-94069A), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Jaswant Singh Boparai (JC-94070P), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Sarwan Singh Sangha (JC-94071X), 1st Aug 1983.
 Nb Sub Mochi Ram Swanyi (JC-94072A), 1st Aug 1983.
 Nb Sub C Narayanan Nair (JC-94076W), 12th Aug 1983.

S. K. RAY, Under Secy

No. 779, dated 21st April 1984.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

*Corps of Electrical and Mechanical Engineers**Hav Maj Tech : to be Nb Sub Tech (A & B Veh)*

Jagpal Maurya (No. 7102938H Now JC-134829H), 6th Dec. 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 1983 without effect on pay and allowances).

Varghese P S (No. 7103631K Now JC-134830X), 10th Dec 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 1983 without effect on pay and allowances).

Gopal Solavaram Govinda Swamy (No. 7079298P Now JC-134831A), 7th Dec 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 1983 without effect on pay and allowances).

Gyan Bahadur Thapa (No. 7080995F No. JC-134832H), 2 Jan 1984.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 1983 without effect on pay and allowances).

Ram Kumar (No. 7083917P Now JC-134833L), 21 Dec 1983.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 1983 without effect on pay and allowances).

Ishwarappa Tengenkaik (No. 7085274P Now JC-134834N), 14 Jan 1984.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 1983 without effect on pay and allowances).

Rattan Lal Rathi (No. 7086649L Now JC-134835W), 4 Jan 1984.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 1983 without effect on pay and allowances).

Roshan Lal (No. 7090323H Now JC-134836Y), 10th Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Kuldip Chand (No. 7090860N Now JC-134837F), 5 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Haravtar Singh (No. 7095046M Now JC-134838K), 16 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Ram Shiromani (No. 7096205L Now JC-134839M), 5 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Badal Chandra Paul (No. 7100465W Now JC-134840F), 4 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Basant Singh (No. 7107747X Now JC-134841K), 16 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Ponnappan K R (No. 7108123X Now JC-134842M), 30 Dec 1983.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Jagat Ram Chauhan (No. 7109219M Now JC-134843P), 10 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Nihal Singh (No. 7085520F Now JC-134844X), 9 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Prem Lal (No. 7086184M Now JC-134845A), 5 Jan 1983.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Sukumar Mondal (No. 7095844A Now JC-134846H), 4 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Rami Ram (No. 7097348X Now JC-134487L), 9 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Sher Singh (No. 7098740K Now JC-134848N), 4 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Ram Singh (No. 7100071X Now JC-134849W), 7 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Kapil Deo Singh (No. 7100378H Now JC-134850L), 10 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Joginder Singh (No. 7074002F Now JC-134851N), 14 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

R Raghavan Pillai (No. 7074027N Now JC-134852W), 3 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Chamkor Singh (No. 7085933L), Now JC-134853Y), 5 Jan 1984.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Hav Haj Tech : to be Nb Sub Tech (Inst)

Krishan Dev Dubey (No. 7095750H Now JC-134854F), 15 Dec 1983.@

@(Granted seniority in the rank of Nb wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Banarsi Dass (No. 7095805P Now JC-134855K), 15 Jan 1984.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 1983 without effect on pay and allowances).

Dal Chand (No.710536A Now JC-134856M), 14 Jan 1984.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 1983 without effect on pay and allowances).

Sarwan Singh Bhatti (No. 7075218P) Now JC-134857P), 3 Jan 1984.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Maj Tech : to be Nb Sub Tech (Radar)

Gobinda Lal Polye (No. 7107997Y Now JC-134858X), 25 Jan 1984.£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 1983 without effect on pay and allowances).

Devendra Dutt Sharma (No. 7108011X Now JC-134859A), 25 Jan 1984.£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 1983 without effect on pay and allowances).

Ningule Bhim Rao (No. 7108226W Now JC-134860P), 25 Jan 1984.£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 1983 without effect on pay and allowances).

Bilender Singh (No. 7110843X Now JC-134861X), 25 Jan 1984.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Maj Tech : to be Nb Sub Tech (Radio)

Ram Pal (No. 7093665F Now JC-134862A), 2 Jan 1984.*

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Raghubir Prasad Mangla (No. 7095890P Now JC-134863H), 5 Jan 1984.*

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Than Singh (No. 7093568K Now JC-134864L), 26 Jan 1984.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Arvind Kishore Srivastava (No. 7109631A Now JC-134865N), 16 Jan 1984.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 1984 without effect on pay and allowances).

Surendra Singh (No. 7076740P Now JC-134866W), 16 Jan 1984.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 1984 without effect on pay and allowances).

Ram Pravesh Singh (No. 70884594W Now JC-134867Y), 6 Jan 1984.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Maj Tech : to be Nb Sub Tech (GCE)

Suresh Chandra Joshi (No. 7107866N Now JC-134868F), 2 Jan 1984.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Lakhwant Singh (No. 7108529L Now JC-134869K), 18 Jan 1984.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Ashoke Kumar Banerjee (No. 7109454L Now JC-134870Y), 27 Jan 1984.@

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Suraj Bhan (No. 7108053K Now JC-134871F), 25 Jan 1984.**

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 4 Dec 1983 without effect on pay and allowances).

Hav Maj Tech : to be Nb Sub Tech (Line)

Tarloch Singh (No. 7106769Y Now JC-134782K), 23 Jan 1984.@

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Buddala Narayana Rao (No. 7109714L Now JC-134875M), 19 Jan 1984.@

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Suresh Prasad Pathak (No. 7105565A Now JC-134874P), 25 Jan 1984.£

£ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 1983 without effect on pay and allowances).

Hav Maj Tech : to be Nb Sub Tech (Gun)

Ashok Kumar Sharma (No. 7073490H Now JC-134875X), 28 Nov 1983.*

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 1983 without effect on pay and allowances).

(Bishwanath Prasad Singh (No. 7095427N Now JC-134876A), 30 Nov 1983.*

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 1983 without effect on pay and allowances).

Bal Ram (No. 7105914K Now JC-134877H), 9 Jan 1984.@

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 1983 without effect on pay and allowances).

Avtar Singh (No. 7106409N Now JC-134878L), 13 Jan 1984.£

£ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 1983 without effect on pay and allowances).

Kamesh Bahadur Singh (No. 7106600P Now JC-134879N), 21 Jan 1984.£

£ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 1983 without effect on pay and allowances).

Mewa Lal Chorasaya (No. 7104188N Now JC-134889II), 25 Jan 1984.%

% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 1984 without effect on pay and allowances).

Harbans Singh (No. 7104765P Now JC-134881L), 21 Jan 1984.%

% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 1984 without effect on pay and allowances).

K.A. Madhavan (No. 7106071N Now JC-134882N), 19 Jan 1984.%

% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 1984 without effect on pay and allowances).

S. S. SETH, Under Secy.

No. 780, dated 16th April, 1984.—The President is pleased to permit Maj. Gen. Ramkrishan (IC-5114), AVSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Assam Regiment with effect from 29 Feb 84 (AN).

SEHDEV SAHGAL, Lt Gen
Military Secy.

No. 781, dated 16th April 1984.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to resign from Army Service at his own request:—

**REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)**

Capt (Surg Lt(D)) A THOMAS (DR-10285L) (79023Y), 10-5-82.

V K SRIVASTAVA, Under Secy.

CORRIGENDUM

No 762, dated 12th April 1984.—In the Gazette of India Min of Def Notn No 279/84 published in the Gazette of India dated 17th Feb 1979 under the heading 'Regular Army Permanent Commission and sub heading Capt to be Major'—

For—A S Sandhu (IC 18126) Annouced Corps, 15th Jul 1978.

Read—A S Sandhu (IC 18126) Annouced Corps, 25th Jan 1978

CORRIGENDUM

No 763, dated 12th April 1984.—In the Gazette of India Min of Def Notn No 279/84 published in the Gazette of India dated 29th Mar 1980 under the heading 'Regular Army Permanent Commission and sub heading Lts to be Capt'—

For—S K Choudhry (IC 32860), A K Srivastava (IC 32885), S P S Parmar (IC 32918), S K Majumdar (IC 32934)—Inf 10th May 1979

H J Singh (IC 32955) AEC, 10th May 1979.

Read—S K Choudhry (IC 32860), A K Srivastava (IC 32885), S P S Parmar (IC 32918), S K Majumdar (IC 32934) Inf, 10th Nov 1978

H J Singh (IC 32955) AEC, 10th Nov 1978

CORRIGENDUM

No 764, dated 12th April 1984.—In the Gazette of India Min of Def Notn No 889/82 published in the Gazette of India dated 17th Apr 1982 under the heading 'Regular Army Permanent Commission and sub heading Lts to be Capt'—

For—A Varma (RC 36457) Inf, 20th Nov 1981

Read—A Varma (RC 36457) AOC, 20th Nov 1981

R PANDIT, Lt Col, AMS

No 765, dated 16th April 1984.—In M of D Notn No 2506 dated 26th Oct 1983 published in the Gazette of India dated 19th Nov 1983 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Army Educational Corps below To be Nb Sub (Clerk)'—

For—Hav Ck Kishore Chand Nagai (No 5901871H now IC-123340K)

Read—Hav Ck Kishore Chaud Nagai (No 9501871H now IC-123340K)

No 786, dated 16th April 1984.—In M of D Notn No 1409 dated 10th May 1983 published in the Gazette of India Serial No 25 dated 18th Jun 1983 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Regiment of Artillery'—

Below To be Nb Sub'

For Hav Jitendra Pal Singh (No 1183993L now JC-121413M), 13th Sep 1981'

Read 'Hav Jitendra Pal Singh (No 1189339L now JC-121413M), 13th Sep 1981'

For BHM K Ramathulla (No 1175198W now JC-720174W), 10th Oct 1981'

Read BHM K Ramathulla (No 1175198W now JC-720174W) 10th Oct 1981'

No 787 dated 16th April 1984.—In Min of Def Notn No 1409 dated 10th May 1983, published in the Gazette of India No 25 dated 18th June 1983, under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Corps of Signals'—

Below To be Nb Sub (GD)', (Page 1001)

For Hav V Sekhamani (No 6278420K now JC-117908F), 1st Nov 1980'

Read Hav V Sekhamani (No 6278420K now JC-117908F), 1st Nov 1980'

For Hav Kishori Singh Jasotia (No. 6278618Y now JC-117919N), 5th Jul 1981'

Read Hav Kishori Singh Jasotia (No 6278618Y now JC-117919N), 5th Jul 1981

For Hav Nellikka Madhavan (No 6282203N now JC-1179201), 025th Aug 1981.

'o (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th July 1981 without effect on pay and allowances).

Read Hav Nellikka Madhavan (No 6282203N now JC-1179201), 025th Aug 1981.

'o (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th July 1981 without effect on pay and allowances)

Below To be Nb Sub (I of S), (Page 1002)

For Hav Vijayan (No 6309469W now JC-117945P), 26th Aug 1981 *'

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th July 1981 without effect on pay and allowances)'

Read Hav vijayan (No 6309469W now JC-117945P), 26th Aug 1981 *'

'o (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th July 1981 without effect on pay and allowances).

For Hav Partap Singh (No 6317271W now JC-117946A), 5th Jul 1981'

Read Hav Partap Singh (No. 6317271W now JC-117946A), 5th Jul 1981

Below To be Nb Sub (Op Cpn), (Page 1004)

For Hav Benkalkatiamodi Goverdhana (No 6290337W now JC-117847P), 15th Oct 1981*

'o (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th Jul 1981 without effect on pay and allowances)

Read 'Benkalkatiamodi Govardhana (No. 6290337W now JC 117847P), *15th Oct 1981'

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th Jul 1981 without effect on pay and allowances)'

below To be Nb Sub (Ck GD)', (Page 1005)

For Hav Kam Kant Shastri (No. 6291637K now JC-117889F) 'o 13th Oct 1981

'o (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1981 without effect on pay and allowances)'

Read Hav Rama Kant Shastri (No. 6291637K now JC-117889F) 'o 13th Oct 1981

'o (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1981 without effect on pay and allowances)'

No 788, dated 16th April 1984.—In Min of Def Notn No 771 dated 14th Mar 1983, published in the Gazette of India No 15 dated 09th Apr 1983, under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Corps of Signals'—

Below To be Sub (Y of S)', (Page 503)

For Nb Sub Bakshinder Singh (JC-83355F), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Bakshinder Singh (JC-83355F), 1st Apr 1982'

Below 'To be Sub YF of S), (Page 503)

For Nb Sub Janki Das (JC-85136Y), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Janki Dass (JC-85136Y), 1st Apr 1982'

For Nb Sub Kehra Singh (JC-85159A), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub kehari Singh (JC-85159A), 1st Apr 1982'

For Nb Sub Ram Dular Shukla (JC-85165M), 1st Apr 1992'

Read 'Nb Sub Ram Dular Shukla (JC-85165M), 1st Apr 1982'

Below 'To be Sub (GD)', (Page 505)

For 'Nb Sub Mohamad Sadiq (JC-88918A), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Mohamad Sadiq (JC-88918A), 1st Apr 1982'

Below 'To be Sub (F of S)', (Page 506)

For 'Nb Sub Fair Chand (JC-79343H), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Fair Chand (JC-79343H), 1st Apr 1982'

For 'Nb Sub Viay Singh (JC-90517K), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Viay Singh (JC-90517K), 1st Apr 1982'

Below 'To be Sub (Op Ciph)', (Page 506)

For 'Nb Sub Nil Kumar Naha (JC-70313W), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Nil Kumar Naha (JC-70313W), 1st Apr 1982'

Below 'To be Nb Sub (GD)', (Page 509)

For 'Hav J Dozi Raj (No. 6276377N now JC-117996 * H), 5th Jul 1981'

Read 'Hav J Dozi Raj (No. 6276377N now JC-117996 H), 5th Jul 1981'

No. 789, dated 16th April 1984.—In Min of Def Notn No. 2137 dated 05th Sep 1983, published in the Gazette of India No. 39 dated 24th Sep 1983, under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Corps of Signals':—

Below 'To be Sub Maj (GD)', (Page 1516)

For 'Sub Aman Chand (JC-7166L), 1st Aug 1982'

Read 'Sub Aman Chand (JC-7166L), 1st Aug 1982'

For 'Sub Pramesh Ranjan Deb (JC-71172Y), 1st Aug 1982'

Read 'Sub Pramesh Ranjan Deb (JC-71172Y), 1st Aug 1982'

For 'Sub Reshan Singh (JC-71175M), 1st Aug 1982'

Read 'Sub Reshan Singh (JC-71175M), 1st Aug 1982'

Below 'To be Sub (SKI)', (Page 1516)

For 'Nb Sub Bhilleppose (JC-89139K), 1st Aug 1982'

Read 'Nb Sub Bhilleppose (JC-89139K), 1st Aug 1982'

Below 'To be Sub (GD)' (Page 1516)

For 'Nb Sub Prithvi Raj (JC-87105Y), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Prithvi Raj (JC-87105Y), 1st Apr 1982'

Below 'To be Sub (Y of S)', (Page 1516)

For 'Nb Sub Om Parkash Ravesh (JC-70389A), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Om Parkash Ravesh (JC-70389A), 1st Apr 1982'

Below 'To be Sub (F of S)' (Page 1516)

For 'Nb Sub Kushal Kishore Pandey (JC-83352N), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Kushal Kishore Pandey (JC-83352N), 1st Apr 1982'

Below 'To be Sub (Op Ciph)', (Page 1516)

For 'Nb Sub Billai Seetha Ramaiah (JC-71107Y), 1st Apr 1982'

Read 'Nb Sub Billai Seetha Ramaiah (JC-71107Y), 1st Apr 1982'

No. 790, dated 16th April 1984.—In Min of Def Notn No. 1409 dated 10th May 1983 published in Gazette of India dated 18th June 1983 under heading 'REGULAR

ARMY' sub heading 'Infantry' and 'The Dogra Regt' below 'To be Nb Sub (Clerk)':—

For 'Hav Ck Surat Singh Rana (No. 3956303 now JC-118431K), 4th Aug 1981'

(Granted seniority in the rank of Nb Sub Ck wef 1st Aug 1981 without effect on pay and allowances).

Read 'Hav Ck Surat Singh Rana (No. 3956305L now JC-118431K), 4th Aug 1981'

(Granted seniority in the rank of Nb Sub Ck wef 1st Aug 1981 without effect on pay and allowances).

No. 791, dated 16th April 1984.—In Min of Def Notn No. 1750 dated 11th July 1983 published in Gazette of India Notn dated 6th Aug 1983 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Infantry' and 'The Dogra Regt' below 'To be Sub':—

For 'Nb Sub Janak Singh (JC-100227H), 1st Sep 1982'

Read 'Nb Sub Janak Singh (JC-100227H), 1st Sep 1982'

No. 792, dated 16th April 1984.—In Min of Def Notn No. 889 dated 22nd Dec 1983 published in Gazette of India dated 23rd Apr 1983 below Corrigendum No. (v):—

For 'Hav Ck Mohan Lal (No. 3950477K now JC-101581K), 20th May 1980'

Read 'Hav Ck Mohan Lal (No. 3950477K now JC-101581K), 13th Dec 1979'

No. 797, dated 16th April 1984.—In M of D Notn No. 1666 dated 05 Jul 1983 published in Gazette of India dated 23 Jul 1983 under heading "REGULAR ARMY" sub heading "Infantry" and "The Kumaon Regt" below "To be Sub":—

(a) For "Nb Sub Rami Chand (JC-85114A), 1st Apr 1982".

Read "Nb Sub Rami Chand (JC-85114A), 1st Apr 1981".

(b) For "Nb Sub Mahabir (JC-85113X), 1st Apr 1982".

Read "Nb Sub Mahabir (JC-85113X), 1st Nov 1981".

No. 798, dated 16th April 1984.—In M of D Notn No. 2379 dated 18 Nov 82 published in the Gazette of India dated 11 Dec 82 under heading "REGULAR ARMY" sub heading "Infantry" and "The Grenadiers" below "To be Nb Sub":—

For—Hav Sheo Rattan Singh (2653446A now JC-115744X), 20th May 1981

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1981 without effect on pay and allowances)

Read—Hav Sheo Rattan Singh (2653446A now JC-115744X), 20th May 1981.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24th Sep 1980 without effect on pay and allowances).

No. 799, dated 16th April, 1984.—In M of D Notn No. 1797 dated 17 July 1983, published in the Gazette of India dated 13 August 1983 under heading 'Regular Army' sub-heading 'Infantry' and Brigade of The Guards' below 'To be Sub':—

For 'Nb Sub KP Appachu (JC-87799H), 24th Apr 1982'

Read 'Nb Sub KP Appachu (JC-87799H), 01st Apr 1982'

For 'Nb Sub Puran Singh (JC-78807P), 01st May 1982'

Read 'Nb Sub Puran Singh (JC-78807P), 01st Apr 1982'

For 'Nb Sub Santokh Singh (JC-809940W), 01st June 1982'

Read 'Nb Sub Santokh Singh (JC-809940W), 01st Apr 1982'

For 'Nb Sub Krishan Dass (JC-92443Y), 01st June 1982'

Read 'Nb Sub Krishan Dass (JC-92443Y), 01st Apr 1982'

For 'Nb Sub Chunchula Thammappa (JC-90294K), 01st June 1982'

Read 'Nb Sub Chunchula Thammappa (JC-90294K), 24th Apr 1982'

For 'Nb Sub Risal Singh (JC-98695F), 01st July 1982'

Read 'Nb Sub Risal Singh (JC-98695F), 01st June 1982'.

For 'Nb Sub Awdhesh Bahadur Singh (JC-82643F), 17th July 1982'

Read 'Nb Sub Awdhesh Bahadur Singh (JC-82643F), 01st Apr 1982'.

For 'Nb Sub Virender Singh Bhadoria (JC-89955A), 01st Aug 1982'

Read 'Nb Sub Virender Singh Bhadoria (JC-89955A), 01st Apr 1982'.

No. 800, dated 16th April 1984.—In M of D Notn No. 1666 dated 5th July 1983 published in Gazette of India dated 23rd July 1983 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Infantry' and 'The Kumaon Regt' below 'To be Sub':—

For Nb Sub Ratta Singh Bisht (JC-6103M), 1st Apr 1982.

Read Nb Sub Rattan Singh Bisht (JC-76103M), 1st Apr 1982.

For Nb Sub Bhani Chand (IC-80871), 1st Jan 1982.

Read Nb Sub Bhani Chand (JC-80871L), 1st Jan 1982.

For Nb Sub Khim Singh (JC-81263N), 1st Apr 1982.

Read Nb Sub Khim Singh (JC-81263W), 1st Apr 1982.

For Nb Sub Shri Kishan Chand (JC-92348H), 1st Apr 1982.

Read Nb Sub Shri Kishan Chand (IC-92338H), 1st Apr 1982.

No. 801, dated 16th April 1984.—In M of D Notn 2137 dated 5th Sep 1983 published in the Gazette of India, dated 24th Sep 1983 under heading 'REGULAR ARMY' sub 'Army Educational Corps' below 'To be Nb Sub':—

For "Hav Krishan Dev Sharma (No. 9503336X now IC-122951M)"

Read "Hav Krishan Dev Sharma (No. 9503536X now IC-122951M)".

For "Hav Babu Ram Vats (No. 9503736N now IC-122961M)".

Read "Hav Babu Ram Vats (No. 9503736N now IC-122965M)".

For "Hav Dip Narayana Dubey (No. 9503286F now IC-122989W)".

Read "Hav Dip Narayan Dubey (No. 9503286F now IC-122989W)".

No. 802, dated 16th April 1984.—In M of D Notn 774 dated 14th Mar 1983 published in Gazette of India dated 9th Apr 1983 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Army Educational Corps' below 'To be Sub Maj':—

For "Sub Maj Mohan Nath Dhar (JC-34150H)".

Read "Sub Maj Mohan Nath Dhar (JC-34150H)"

and below 'To be Nb Sub'

For "Hav Sher Singh (No. 9503525L now IC-117430P)".

Read "Hav Sher Singh (No. 9503483K now IC-117429A)".

S. K. RAY
Under Secy

(NAVY BRANCH)

No. 803, dated 9th April 1984.—Shri MC Abraham Civilian Gazette Officer, retired from service on attaining

the age of superannuation on 31st March 1984 (Afternoon).

R. D. RAJVANSHI, Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 804, dated 10th April 1984.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation for one year) to the undermentioned under the provisions of AFI 28/76 read with Government of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/6755/42/P02/5814/D(A), dated 28 Apr 52 as amended.

INDIAN AIR FORCE

FLYING NAVY BRANCH

(Ex-Flt Cdt to be Pilot Officer)

(621952) Ram Pravesh KUMAR (16839) wef 04 Jun 82.

No. 805, dated 7th April 1984.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer who was granted Permanent Commission (on probation) wef 04 Jun 82. He was also promoted to the subs rank of Fg Offr wef the date stated against his name:—

INDIAN AIR FORCE,

F(N) Branch

Pt Offr RP Kumar (16839) wef 04 Jun 83.

SK MITRA
Sqn Ldr
ADPO-3(D)

No. 806, dated 9th April 1984.—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

Gp Capt to be Substantive Air Cmde

RK Nehra, VSM (4518) AE(M), 01 Nov 82.

S Chakrabarti (4528) AE(M), 01 Nov 82.

HK SHARMA
Senior Civilian Staff Officer
Dy. Director of Personnel (Officers)-2

No. 807, dated 9th April 1984.—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Gp Cap

R Tandon, VM (5391)—F(P), 08 Jul 81.

NJ Misquitta, VM (5314)—F(P), 08 Dec 81.

Ravindra Kumar, VM (5315)—F(P), 11 Jan 82.

EN Gadre (5378)—F(P), 11 Jan 82.

D Anand (5588)—F(P), 01 Feb 82.

AS Sethi (5682)—F(P), 01 Mar 82.

HS Ghuman, VM (5692)—F(P), 02 May 82.

SR Deshpande, VM (5694)—F(P), 01 Jun 82.

VS Pathania, Vrc, VM (5198)—F(P), 02 Jun 82.

V Pals (5274)—F(P), 02 Jun 82.
 DS Bains (5277)—F(N), 21 Jun 82.
 PK Bagchi (5585)—F(N), 21 Jun 82.
 MD Lalvani, VM (5658)—F(P), 21 Jun 82.
 JP Singh (5672)—F(P), 21 Jun 82.
 MA Rehman, VSM (5711)—F(N), 21 Jun 82.
 DN Rathore, VrC, VSM (5780)—F(P), 21 Jun 82.
 Jagbir Singh, VJC (5783)—F(P), 21 Jun 82.
 SK Bchal, VM (5786)—F(P), 21 Jun 82.
 Bharat Kumar (5787)—F(P), 21 Jun 82.
 D Banerjee (5800)—F(P), 21 Jun 82.
 AN Mehtani, VM (5804)—F(P), 21 Jun 82.
 AK Avasthi, VM (5805)—F(P), 21 Jun 82.
 MM Lal (4760)—F(P), 21 Jun 82.
 S Das (4867)—F(N), 21 Jun 82.
 MM Sharma (5108)—F(P), 01 Oct 82.
 B Mukhuty (5196)—F(P), 30 Dec 82.

No. 808, dated 7th April, 1984.—The President is pleased to make the following acting promotion : —

INDIAN AIR FORCE

F(P) Branch

Gp Capt to be acting Air Cmde

Narsh Kumar, VM (5057), 09 Jan 84.

ADM Branch

Wg Cdr to be acting Gp Capt

P C Thakur (5497), 16 Jan 84.

K. M. DAMODARAN,
 Asstt. Dir Personnel (Officers)-2

No. 809, dated 10th April 1984.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire voluntarily from the service with effect from date shown against his name

INDIAN AIR FORCE

EDN Branch

Gp Capt VS SRIVASTAVA (4849), 30 Aug 83 (FN).

MET Branch

Wg Cdr V KUMAR PANJIAR (7587), 01 Jul 84 (FN).

F(P) Branch

Sqn Ldr N L VERMA (10461), 10 Jul 84 (F|N).

AE(L) Branch

Sqn Ldr T MADHAVA RAO (5807), 01 May 84 (F|N).

Sqn Ldr A K GABA (11200), 15 Jul 84 (F|N).

AE(M) Branch

Wg Cdr B MUKHEJI (6566), 28 Jul 84 (FN).

Sqn Ldr (ALTG Wg Cdr) G S Sukhija (6557), 10 Jul 84 (F|N).

K N S YADAV, CSO ADPO-3(P)